



श्री जिनायनम. ।  
धर्मसर्वस्वाधिकार  
तथा  
कस्तुरीप्रकरण ।

( कर्ता श्री जयशेखरसूरि तथा हेमवृजयगुणि )  
संस्कृतपरधी

गुजरातीमा

बीजी आठुचिसुधारीने

छपायी प्रसिद्ध करनार

श्रावक जीमसिह माणिक

निर्णयसागर प्रेस

संवत् १९६५

सन १९०८

## प्रस्तावना ॥

### । धर्मसर्वस्वाधिकार ।

मत्रं जैन ज्ञाञ्छ्रोने माखुम थाय जे आपणो आ जैन धर्म सर्व धर्मो करता वधारे सूदम रीते दयामय ठे, अने तेथी तेमा दया सवधि विशेष उपदेश आपेलो ठे, जैनीथोनी तेरी सूदम दया जोझे आधुनिक समयना अन्य दर्शनीथो ते सवधि पोताने मनगमती चर्चाथो करे ठे, पण आ ग्रथ वाचनार्थी तेथोने पोताने पण जणाशे के, आपणा पुराण, स्मृति, गीता आदिक शास्त्रोमा पण दयासवधि फेटलो वधो अभूद्य उपदेश आपेलो ठे वली केवल दयासवधिज नही, पण भ्रामज्जकणना दूपणो, रात्रिजोजनना दूपणो, कदमूलजकणना दूपणो अणगज पाणी वापरवाना दूपणो विगेरे अनेक प्रकारनो ते पुराणो आदिकमा उपदेश करलोठे, ते उपदेश अचलग्वाधिपति आचार्य महाराज श्रीजयशेखरसूरीश्वरे पुराणो आदिकमाथी ओधरीने अन्य दर्शनीथोपर खरेखर महोदो उपकार कर्यो ठे वली ते आचार्य महाराज महान विद्वान अने कत्रिचमर्ली हता हाल पण तेमना रचेलो महान ग्रथो माहेलो, जैनबुमारसज्ज महा काव्य, उपदेशचितामणि, प्रबोधचितामणि तथा धम्मिल्लचरित्र आदिक घणा ग्रथो दृष्टिगोचर थाय ठे अने ते जोनाथी तेमनी महान विद्वत्ता खरेखर जणाड आपे ठे

जीमसिंह माणिक

## कस्तूरी प्रकरण



आ कस्तूरी प्रकरण पण श्री हेमविजयगणिजीए रचेलु ठे, तथा तेमा जव्य लोको माटे घणोज सारो उपदेश आपेलो ठे, तेम रमणिक अने अलकारोथी जरेखा, तथा जुदा जुदा उदमा होमाथी मनने अत्यंत आपनारा ठे

आ ज्ञे ग्रथो लोकोने माटे उपयोगी जाणीने अमोए ते मूलमहित उपायी प्रसिद्ध कर्या ठे आ ग्रथो मूल सस्कृत जापामा ठे, अने ते जापानु सर्वन जाणपणु नही होमाथी अमोए तेनु शुद्ध गुजगती जायातर करागी उपायी प्रसिद्ध कर्यु ठे

जीमसिंह भाणिक

## अनुक्रमणिका

आंक विषय	धर्मसर्वस्वाधिकारः	पृष्ठ.
१ अहिसानो महिमा	१	२६ गुरु प्रक्रम ७८
२ मासभक्षणना दूपणो	१०	२७ देव प्रक्रम ८०
३ ब्राह्मणोनु लक्षण	१३	२८ विनय प्रक्रम ८३
४ मैथुनना दूपणो	१७	२९ न्याय प्रक्रम ८५
५ ब्रह्मचर्यना गुणो	२२	३० पैशूय प्रक्रम ८८
६ क्रोधनु स्वरूप	२४	३१ सत्सग प्रक्रम ९०
७ क्षमानु स्वरूप	२५	३२ मन शुद्धि प्रक्रम ९२
८ रात्रि भोजनना दूपणो	२८	३३ द्युत प्रक्रम ९५
९ तीर्थोनी अधिकार	३०	३४ मास प्रक्रम ९७
अणगल पाणी वापरवाना दूपणो	३२	३५ मद्य प्रक्रम ९९
११ तपनो महिमा	३६	३६ वेद्या प्रक्रम १०२
१२ दाननु माहाभ्य	४०	३७ पापद्धि प्रक्रम १०४
१३ अतिथिनु स्वरूप	४७	३८ चौरकी प्रक्रम १०७
१४ मधभक्षणना दूपणो	४८	३९ परस्त्री प्रक्रम १०९
१५ कदमूलभक्षणना दूपणो	४९	४० इन्द्रिय प्रक्रम ११२
<b>कस्तूरी प्रकरण</b>		
१६ द्वारकाव्य	५६	४१ दया प्रक्रम ११४
१७ दान प्रक्रम	५६	४२ सत्य प्रक्रम ११७
१८ शील प्रक्रम	५९	४३ अदत्त प्रक्रम ११९
१९ तप प्रक्रम	६१	४४ ब्रह्म प्रक्रम १२१
२० भाव प्रक्रम	६३	४५ परिग्रह प्रक्रम १२३
२१ क्रोध प्रक्रम	६६	४६ गुण प्रक्रम १२६
२२ मान प्रक्रम	६८	४७ वैराग्य प्रक्रम १२८
२३ माया प्रक्रम	७०	४८ विवेक प्रक्रम १३०
२४ लोभ प्रक्रम	७३	४९ ग्रथकारनी प्रशस्ति १३२
२५ पितृ प्रक्रम	७५	५० श्रीआदिजिन विनति १३८

श्रीजिनाय नम

श्रीजयगेखरसूरिणोधृतः

धर्मसर्वस्वाधिकारः ।



अथता धर्मसर्वस्व, श्रुत्वा चैत्रावधार्यताम् ॥

आत्मन प्रतिकूलानि, परेषा न समाचरेत् ॥ १ ॥

अर्थ-धर्मनो रहस्य सांचलो, तथा ते सांचलीने  
धारण करी राखो, पोताने जे वाचतो प्रतिकूल होय,  
ते परप्रते आचरवी नही ॥ १ ॥

यथा चतुर्भिः कनक परीक्ष्यते, निर्घर्षणञ्चेदनतापताडनं ॥

तथैव धर्मो विदुषा परीक्ष्यते, श्रुतेन शीलेन तपोदयागुणैः २

अर्थ-जेम, कप, वेद, ताप अने तामन, ए चार  
प्रकारची सोनानी परीक्षा कराय ठे, तेमज पंक्ति  
माणस ज्ञान, शील, तप अने दयारूप गुणोण  
करीने धर्मनी परीक्षा करे ठे ॥ २ ॥

कथमुत्पद्यते धर्म, कथं धर्मो विवर्धते ॥

कथं च स्याप्यते -र्धं धर्मो विनश्यति ॥ ३

अर्थ—धर्म केम उत्पन्न थाय ठे ? तथा ते केम वृद्धि  
पामे ठे ? तथा तेने शीरीते स्थिर करी शकाय ठे ?  
तथा शीरीते ते नाश थाय ठे ? (तेनो विचार करवो )

सत्येनोत्पद्यते धर्मो, दया दानेन वर्धते ॥

हमया च स्थाप्यते धर्म, क्रोधलोजाघ्नश्च्यति ॥ ४ ॥

अर्थ—सत्यथी धर्मनी उत्पत्ति थाय ठे, दया अने  
दानथी तेनी वृद्धि थाय ठे, क्रमाथी ते स्थिर थाय ठे,  
तथा क्रोध अने लोअथी तेनो नाश थाय ठे ॥ ४ ॥

सर्वे वेदा न तत्कुर्यु, सर्वे यज्ञाश्च जारत ॥

सर्वे तीर्थाजिपेकाश्च, यत्कुर्यात्प्राणिना दया ॥ ५ ॥

अर्थ—हे जारत, प्राणीओपरनी दया जे कइ (अमूल्य  
लाज) करे ठे, ते (लाज) सघला वेदो, सघला यज्ञो,  
तथा सर्वे तीथोमा करेला खानो पण करीशकता नथी

अहिंसा मत्स्यमस्तेय, त्यागो मैथुनवर्जनम् ॥

एतेषु पचसूक्तेषु, सर्वे धर्मा प्रतिष्ठिता ॥ ६ ॥

अर्थ—अहिंसा (दया), सत्य चोरी नही करवी, ते  
( परिग्रहनो ) त्याग, अने मैथुननु वर्जन, ए पाच  
भावतो कहेवार्थी सर्वे धर्मोनु प्रतिपादन थाय ठे ॥ ६ ॥

अहिंसालक्षणो धर्मो, अधर्म प्राणिना वध ॥

तस्माद्धर्मायिना त्स्म, वर्तव्या प्राणिना दया ॥ ७ ॥

अर्थ—दया ठे लक्षण जेनु, एवो धर्म ठे, तथा प्राणीओनी जे हिंसा ते अधर्म ठे, माटे हे वत्स ! धर्मनां अर्थि माणसे प्राणीओनी दया करवी ॥ ७ ॥

धुन प्राणिवधो यज्ञे, नास्ति यज्ञस्त्वहिंसकः ॥

सर्वसत्त्वेपु हिंसैव, यदा यज्ञो युधिष्ठिर ॥ ८ ॥

अर्थ—यज्ञमा खरेखर प्राणीनो वध ठे, माटे हे युधिष्ठर ! यज्ञ हिंसा विनानो नथी, माटे जो यज्ञ करीए तो सर्व प्राणीओमां हिंसा थाय ठे ॥ ८ ॥

इन्द्रियाणि पशून् कृत्वा, वेदीं कृत्वा तपोमयीं ॥

अहिंसामाहुति कृत्वा, आत्मयज्ञ यजाम्यहम् ॥ ९ ॥

अर्थ—विष्णु ऋग्वान कहे ठे के, हे युधिष्ठिर ! इन्द्रियो-रूपी पशुने करीने, तथा तपरूप वेदी करीने, अने दया-रूपी आहुती करीने, हु आत्मरूपी यज्ञ करू तुं ॥ ९ ॥

यूपं त्रित्वा पशून् हत्वा, कृत्वा रुधिरकर्दमम् ॥

यदेव गम्यते स्वर्गं, नरके केन गम्यते ॥ १० ॥

अर्थ—पशुने वाधवानो यज्ञस्तत्र ठेदीने, तथा पशुने हणीने, अने लोहीनो कर्दम करीने, ज्यारे स्वर्गं जवातु होय, तो हे युधिष्ठिर ! पठी नरके कोण जशे ! ! ॥ १० ॥

महाभारतनां शांतिपर्वमा प्रथम पदमा कथुं ठे के,

मातृवत्परदाराणि परञ्जव्याणि लोष्ठवत् ॥

आत्मयत्सर्वज्ञतेषु, य पश्यति स पश्यति ॥ ११ ॥



अर्थ—जे माणस परस्त्रीश्रोने मातानीपेठे जुए ठे, तथा परद्रव्यने ढेफांनीपेठे जुए ठे, तथा सर्व प्राणीश्रोने विपे जे पोताना आत्मानानीपेठे जुए ठे, तेज तत्वथी जोनारो ठे ॥ ११ ॥

अहिंसा सर्वजीवाना, सर्वज्ञं परिज्ञापिता ॥

इदं हि मूलं धर्मस्य, शेषस्तस्यास्ति विस्तर ॥ १२ ॥

अर्थ—सर्व जीवोप्रते दया राखवी, एम सर्वज्ञोए कहेलु ठे, केमके, ते अहिंसाज धर्मनु मूल ठे, अने वाकीनां सत्यादिक तो तेनो विस्तार ठे ॥ १२ ॥

अहिंसा प्रथम प्रोक्ता, यस्मात्सर्वजगत्प्रिया ॥

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन, कर्तव्या सा विचक्षणै ॥ १३ ॥

अर्थ—अहिंसा (दया) सर्वथी पेहेली कहेली ठे, केमके, ते समस्त जगतने प्रिय ठे, माटे विचक्षण पुरुषोए सर्व प्रयत्ने करीने ते दयाज करवी ॥ १३ ॥

यथा मम प्रिया प्राणा,स्तथा तस्यापि देहिन ॥

इति मत्वा प्रयत्नेन, त्याज्यं प्राणिवधो बुधे ॥ १४ ॥

अर्थ—जेम मारा प्राण मने वहाला ठे, तेम ते प्राणीने पण तेना प्राण वहाला ठे, एम मानीने प्रयत्नपूर्वक पक्षितोए जीवहिंसानो त्याग करवो ॥ १४ ॥

मरिष्यामीति यद्दु खं, पुरुषस्येह जायते ॥

शक्यस्तेनानुमानेन, परोऽपि परिरक्षितुम् ॥ १५ ॥

अर्थ—आ दुनीआमां “ हुं मरी जइश ’ एवा विचारथी माणसने जे दु ख थाय ठे, ते अनुमानथी परजीवनुं पण रक्षण करी शकाय ठे. ॥ १५ ॥

उद्यत शस्त्रमाखोक्य, त्रिपादजयविह्वला ॥

जीया कपति सत्रस्ता, नास्ति मृत्युसम जयम् ॥ १६ ॥

अर्थ—जगामेला शस्त्रने जोइने, खेद अने जयथी विह्वल थएला जीवो, त्रास पामता थका कपे ठे, केमके, मृत्यु समान बीजो जय नथी ॥ १६ ॥

कटकेनापि त्रिभ्रस्य, महती वेदना जवेत् ॥

चक्रकुतासिशक्त्याद्यैश्चिद्यमानस्य कि पुन ॥ १७ ॥

अर्थ—कांटाथी विंधाएला प्राणीने पण ज्यारे मोटी वेदना थाय ठे, त्यारे चक्र, जालु, तलवार, तथा बरठी आदिकथी ठेदाता प्राणीनी वेदनानी तो वातज शी करवी ? ॥ १७ ॥

दीयते मार्यमाणस्य, कोटि जीवितमेववा ॥

धनकोटि न ग्रहणीया, त्सर्गे जीवितमिच्छति ॥ १८ ॥

अर्थ—मरता एवा प्राणीने क्रोरु धन अथवा जो जीवित आपीए, तो ते क्रोरु धनने ग्रहण नहीं करे, पण जीवितने ग्रहण करशे, केमके सर्व प्राणी जीवितने इच्छे ठे. ॥ १८ ॥

यद्दद्यात्काचन मेरु, कृत्स्ना चापि वसुधराम् ॥

सागर रत्नपूर्णवा, नच तुभ्यमहिसया ॥ १९ ॥

अर्थ—सोनानो मेरू पर्वत आपे, अने समस्त पृथ्वीने आपे, अथवा रत्नथी जरेलो समुद्र आपे, पण ते अहिंसानी तुल्य आवतु नथी ॥ १९ ॥

यो यत्र जायते जतु , स तत्र रमते चिरम् ॥

तत सर्वेषु भूतेषु, दया कुर्वति साधव ॥ २० ॥

अर्थ—जे प्राणी ज्या उत्पन्न थाय ठे, ते त्या लावा कालसुधि आनंद मेलवे ठे, तेथी उत्तम माणसो सर्व प्राणीओप्रते दया करे ठे ॥ २० ॥

अमेध्यमध्ये कीटस्य,सुरेक्षस्य सुरालये ॥

समाना जीविताकांक्षा, तुल्य मृत्युजय क्षयो ॥ २१ ॥

अर्थ—विष्टामा रहेला कीमाने, तथा देवलोकमा रहेला इंद्रने जीवितनी इष्टा सरखीज ठे, अनेवली तेथो वनेने मृत्युनो जय पण तुल्यज ठे ॥ २१ ॥

अहिंसा सर्वजीवाना,माजन्मापिहि रोच्यते ॥

नित्यमात्मनो विषये, तस्मात्ध्येया परेष्वपि ॥ २२ ॥

अर्थ—सर्व जीवोने अहिंसा जन्मथी माफीनेजरूचे ठे, माटे पोतानेविषे जेम, तेम परने विषे पण प्राणीए वर्तवु ॥ २२ ॥

जीवाना रक्षण श्रेष्ठ, जीवा जीवितकाहिण ॥

तस्मात्समस्तदानाना,मज्जयदान प्रशस्यते ॥ २३ ॥

अर्थ—जीवोनु रक्षण करवु,ते उत्तम कार्यठे,केसके, जीवो जीवितनी इष्टा राखे ठे, माटे सधला दानोमा अज्जयदान प्रशसा करवा लायक ठे ॥ २३ ॥

अहिंसा प्रथम पुष्प, पुष्पमिन्द्रियनिग्रहः ॥

सर्वज्ञतदयापुष्प, क्षमापुष्प विशेषतः ॥ २४ ॥

ध्यानपुष्प तप पुष्प, ज्ञानपुष्प च सप्तमम् ॥

सत्य चैवाष्टम पुष्प, तेन तुष्यति देवता ॥ २५ ॥

अर्थ-पेहेलु पुष्प अहिंसा, वीजु पुष्प इन्द्रियोनो

निग्रह, वीजु पुष्प सर्व प्राणीश्रोमा दया, चोधु पुष्प

विशेषे करीने क्षमा, पांचमुं पुष्प ध्यान, ठतु पुष्प तप,

सातमुं पुष्प ज्ञान, अने आठमु पुष्प सत्य ठे, एवी रीतनां

पुष्पोथी (पूजन करवांथी) देवताश्रो प्रसन्न थाय ठे.

पृथिव्यामप्यह पार्थ, वायावमां जलेऽप्यहम् ॥

वनस्पतिगतश्चाह, सर्वज्ञतगतोऽस्म्यहम् ॥ २६ ॥

अर्थ-वली हे युधिष्ठिर! पृथ्वीमां, वायुमां, अग्निमां,

जलमा अने वनस्पतिमां पण तुं प्राप्त थएलो तु, अने

एवी रीते पाचे जूतोमा हु प्राप्त थएलो तुं ॥ २६ ॥

यो मा सर्वगत ज्ञात्वा, नच हिंसेत्कदाचन ॥

-तस्याह न प्रणिश्यामि, स च मे न प्रणिस्यति ॥ २७ ॥

अर्थ-जे माणस मने सर्व व्यापक जाणीने, कोइ

बखते हिंसा करतो नथी, ते माणसप्रतेथी हु छूर जइश

नहीं, तथा ते माराथी छूर जशे नहीं ॥ २७ ॥

यो ददाति सहस्राणि, गवामश्वशतानि वा ॥

अजय सर्वसत्वेन्य, स्तदानमतिरिष्यते ॥ २८ ॥

अर्थ-जे माणस हजारो गायो तथा सैंकनो घोडा-

श्रो आपे ठे, (ते कइ हिंसावमां नथी) पण जे माणस

सर्व प्राणीश्रो प्रते अन्नयदान आपे ठे, ते दान सर्वथी श्रेष्ठ गणाय ठे ॥ २८ ॥

कस्त्विज्ञाना सहस्रतु, यो विजेन्य प्रयच्छति ॥

एकस्य जीवित दद्यात्, कला नाप्यतिपोरुशीम् ॥ २९ ॥

अर्थ-जे माणस ब्राह्मणो प्रते हजारो हाथीश्रोनु दान आपे ठे, ते पण शु हिंसावमां ठे ? केमके, जे माणस एकज प्राणीप्रते जीवितदान आपे ठे, तेनी साथे ते सोखमे हिंसे पण नथी ॥ २९ ॥

ततो ज्यस्तरो धर्म , कश्चिदन्यो न जूतवे ॥

प्राणिना जयजीताना, मजय यत्प्रदीयते ॥ ३० ॥

अर्थ-माटे हें युधिष्ठिर ॥ जयजीत थएला प्राणी श्रोने जे अन्नयदान आपवु, तेथी वधारे वीजो कोइ पण वर्म आ पृथ्वीपर नथी ॥ ३० ॥

वरमेकस्य सत्वस्य, दद्यादन्नयदक्षिणाम् ॥

नतु विप्रसहस्रेन्यो, गोसहस्रमलकृतम् ॥ ३१ ॥

अर्थ-वली हे युधिष्ठिर ॥ एक प्राणी प्रते अन्नयदाननी दक्षिणा देवी ते श्रेष्ठ ठे, पण हजारो ब्राह्मणो-प्रते, आजूपणयुक्त हजारो गायो देवी ते श्रेष्ठ नथी ३१

अन्नय सर्वसत्वेन्यो, यो ददाति दयापर ॥

तस्य देहवियुक्तस्य, जय नास्ति कुतस्तन ॥ ३२ ॥

अर्थ-जे माणस सर्व प्राणीश्रो प्रते, दयामा तत्पर थयो थको अन्नयदान आपे ठे, ते माणसने मृत्यु वाढ पण कोइ जगोए जय प्राप्त थतो नथी ॥ ३२ ॥ -

हेमधेनुपरादीना, दातार सुखजा शुचि ॥

दुर्लभ पुरुषो लोके, य प्राणिष्वन्नयप्रद ॥ ३३ ॥

अर्थ—सुवर्ण, गाय, अने वरदाननां देनाराओ तो आ पृथ्वीमां सुखज होय ठे, पण जे माणस प्राणीओ प्रते अन्नयदान आपे ठे, तेवो माणस आ दुनीश्रामां दुर्लभ ठे ॥ ३३ ॥

महतामपि दानाना, कालेन ह्यीयते फलम् ॥

जीतान्नयप्रदानस्य, ह्य एव न विद्यते ॥ ३४ ॥

अर्थ—मोटां दानोनु पण फल काले करीने क्षय पामे ठे, पण बीता एवा प्राणीने अन्नयदान देवानुं जे फल, तेनो क्षयज थतो नथी ॥ ३४ ॥

यथा मेऽप्रियो मृत्युः, सर्वेषा प्राणिना तथा ॥

तस्मान्मृत्युन्नयत्रस्ता, खातव्या प्राणिनो बुधै ॥ ३५ ॥

अर्थ—बली हे युधिष्ठिर! एम विचारबु के जेम मने पोताने मृत्यु अप्रिय लागे ठे, तेम सर्व प्राणीओने पण ते अप्रिय लागे ठे, माटे काह्या माणसोए मृत्युना नय-थी नयचीत थएला प्राणीओनु रक्षण करबु. ॥ ३५ ॥

एकत कृतव सर्वे, समग्ररदक्षिणा ॥

एकतो नयचीतस्य, प्राणिन प्राणरक्षणम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—बली हे युधिष्ठिर! एक वाजु सघला वर-दाननी दक्षिणावाला सर्वे यज्ञो अने बीजी तरफ नयचीत थएला प्राणीनां प्राणनुं रक्षण करबुं, ( ते वधारे श्रेष्ठ ठे. ) ॥ ३६ ॥

सर्वसत्त्वेषु यद्दानं, मेकसत्त्वे च या दद्यात् ॥

सर्वदानप्रदानाधि, दयैर्यथा प्रशस्यते ॥ ३७ ॥

अर्थ—सर्व प्राणीश्रो प्रते जे सुवर्ण आदिकनु दान  
आपवु, अने एक प्राणीप्रते दया राखवी! तेमा पण ते  
सर्व प्राणीप्रते सुवर्ण आदिकना दानथी पण एक प्रा  
णी प्रतेनी दया वधारे प्रशसवा लायक ठे ॥ ३७ ॥

एकत काचन मेरु, बहुरत्ना वसुधराम् ॥

एकस्य जीवित दद्यात्, न च तुल्य युधिष्ठिर ॥ ३८ ॥

अर्थ—बली हे युधिष्ठिर! एक वाजुथी सोनानो  
मेरु पर्वत तथा बहुरत्नवाली पृथ्वी आपे, अने एक  
प्राणीने जीवितदान आपे पण ते बन्ने सरखा नथी ३८  
यूकामत्कुण्डशादीन्, ये जतुस्तुदतस्तनु ॥

पुत्रवत्परिरक्षति, ते नरा स्वर्गगामिन ॥ ३९ ॥

अर्थ—बली हे युधिष्ठिर! जे माणसो शरीरने  
पीना करता एवा पण जु, मांकड तथा कास आ-  
दिकनु पुत्रनी पेठे रक्षण करे ठे, ते माणसो स्वर्गमा  
जनाराश्रो ठे ॥ ३९ ॥

न गगा न च केदार, न प्रयाग न पुष्कर ॥

न ज्ञान न च होमश्च, न तपो न जपक्रिया ॥ ४० ॥

न ध्यान न च स्नान, न दान नापि सत्क्रिया ॥

सर्वे ते निष्फला याति, यस्तुमास प्रयच्छति ॥ ४१ ॥

अर्थ—बली हे युधिष्ठिर! जे माणस मासनु दान  
आपे ठे, तेनी गगा, केदारनाथ, प्रयाग पुष्कर विगेरेनी

यात्रा तथा तेनुं ज्ञानं, होम, तपोजपनी क्रिया, ध्यान,  
स्नान, दान विगेरे सघली क्रियाथो निष्फल जाय ठे ४०

शुक्रशोणितसञ्चत, ममेध्य मासमुच्यते ॥

यस्मादमेध्यसञ्चत, तस्माच्चिष्टो निवर्जयेत् ॥ ४१ ॥

अर्थ—वली हे युधिष्ठिर! वीर्य तथा रुधिरथी उ-  
त्पन्न थएलु एवु मांस विष्टासरखु अपवित्र कहेवाय  
ठे, माटे एवी रीते अपवित्रतावाळुं मांस नाह्या पुरुषे  
तजवु जोष्ट ॥ ४१ ॥

अमेध्य यदज्ञयत्वा, न्मानुष्यैरपि वर्जितम् ॥

दिव्योपज्ञोगान् शुजतो, मास देवा न शुजते ॥ ४२ ॥

अर्थ—वली हे युधिष्ठिर ! अज्ञय होवार्थी अप-  
वित्र एवी विष्टा मनुष्योए पण तजी ठे, त्यारे दिव्य  
ज्ञोगोने जोगवता एवा देवो विष्टातुड्य मांसनु  
जक्षण करताज नथी ॥ ४२ ॥

देवानामग्रत कृत्वा, घोर प्राणिग्रह नरा ॥

ये ज्ञयति मास च, ते व्रजत्यधमा गतिम् ॥ ४३ ॥

अर्थ—जे माणसो देवोनी आगल जयंकर एवो  
प्राणीशोनो वध करीने, मांस जक्षण करे ठे, ते माणसो  
नरक आदिक अधम गतिमां जाय ठे. ॥ ४३ ॥

मास पुत्रोपम मत्वा, सर्वमासानि वर्जयेत् ॥

दयादानविशुद्ध्यर्थं, कृपिर्जिर्वर्जित पुरा ॥ ४४ ॥



अर्थ-मांसने पुत्रसमान जाणीने, सर्व प्राणीओनां मांसनो त्याग करवो, केमके, अगाज पण रुपिओए दया अने दाननी शुद्धिमाटे ते तजेलु ठे ॥ ४४ ॥

न ग्राह्यानि न देयानि, पद वस्तूनि च पणिते ॥

अग्निर्मधु विष शस्त्र, मद्य मास तथैव च ॥ ४५ ॥

अर्थ-अग्नि, मध, विष, शस्त्र, मदिरा अने मास ए ठ वस्तुओ पणितोए ग्रहण करवी नहीं, तेम कोशने देवी पण नहीं ॥ ४५ ॥

यावन्ति पशुरोमाणि, पशुगात्रेषु जारत ॥

तावध्वंसहस्राणि, पच्यते पशुघातका ॥ ४६ ॥

अर्थ-वली हे जारत । पशुनां शरीरपर जेटला रूवां होय ठे, तेटला हजार वर्षो सुधी पशुहिंसा करनाराओ पकावाय ठे ॥ ४६ ॥

आकाशगामिनो विप्रा, पतिता मासजक्षणात् ॥

विप्राणा पतन दृष्ट्वा, तस्मान्मास न जह्येत् ॥ ४७ ॥

अर्थ-वली हे युधिष्ठिर । आकाशमां गमन करनारा एवा पण ब्राह्मणो मांस जक्षणार्थी पतित थए ला ठे, माटे एवी रीते ब्राह्मणोनु पतन जोशने, मास जक्षण करवु नहीं ॥ ४७ ॥

घातकश्चानुमत्ता च, जक्षक क्रयविक्रयी ॥

क्षिप्यते प्राणिघातेन, पचाप्येते युधिष्ठिर ॥ ४८ ॥

अर्थ-वली हे युधिष्ठिर । प्राणीनी घात करनार, तथा प्राणीघातनी आज्ञा आपनार, मासनु जक्षण

करनार, मास वेचातु लेनार तथा मांस वेचातु  
देनार ए पाचे जीवहिसाथी दिस आय ठे, अर्थात्  
ए पाचेने जीवहिसा लागे ठे ॥ ४७ ॥

किं जापहोमनियमै, स्तीर्थस्नानैश्च चारत ॥

यदि खादति मासानि, सर्वमेव निरर्थकम् ॥ ४८ ॥

अर्थ—हे चारत ! जो मासनु जक्षण कराय, तो  
पठी जाप, होम, नियम, तथा तीर्थस्नानथी शुं थवानु  
ठे ॥ १ ॥ केमके मांस जक्षणथी ते सघबु निरर्थक ठे

प्रजास पुष्कर गगा, कुरुक्षेत्र सरस्वती ॥

देविका चंद्रजागाच, सिंधुश्च महानदी ॥ ५० ॥

एतस्तीर्थमहापुण्य, य कुर्यादजिपेचनम् ॥

अजक्षण च मासस्य, नच तुल्य युधिष्ठिर ॥ ५१ ॥

अर्थ—वली हे युधिष्ठिर ! प्रजास, पुष्कर, गगा, कुरु-  
क्षेत्र, सरस्वती, देविका, चंद्रजागा, सिंधु, तथा महा-  
नदी, इत्यादि तीर्थोनी यात्रा करीने पण जे महापुण्य  
उपार्जन करे ठे, ते अने मांसनु नहीं जक्षण करबु ते,  
चत्रे तुल्य नथी, अर्थात् ते वधां तीर्थोनी यात्रा करता  
पण मासनु जक्षण नहीं करबु ते वधारे श्रेष्ठ ठे

केके नु ब्राह्मण प्रोक्ता, किया ब्राह्मणलक्षणम् ॥

एतदिहामि विज्ञातु, तन्मे कथय सुव्रत ॥ ५२ ॥

अर्थ—(हवे अही युधिष्ठिर, जगवान श्रीविष्णुने पूठे  
ठे के, हे जगवन्,) ब्राह्मणो कया कया कहेला ठे ? अने

ब्राह्मणनु लक्षण शु ठे ? ते जाणवानी मारी इष्टा ठे,  
माटे हे उत्तम आचरणवाला । ते तमो मने कहो ? ५२

त्यारे हवे जगवान विष्णु तेने कहे ठे

ह्रमाऽदज्ञो दया दान, सत्य शील धृतिर्घृणा ॥

विद्या विज्ञान मास्तिव्य, मेतद् ब्राह्मणलक्षणम् ॥ ५३ ॥

अर्थ—हे युधिष्ठिर ! ह्रमा, निष्कपटपणुं, दया, दान,  
सत्य, शील, धीरज, लज्जा, विद्या, कला तथा आस्ति  
कपणुं, एटलां ब्राह्मणना लक्षणो ठे ॥ ५३ ॥

सत्य ब्रह्म तपो ब्रह्म, ब्रह्म चेंद्रियनिग्रह ॥

सर्वज्ञतदया ब्रह्म, एतद् ब्राह्मणलक्षणम् ॥ ५४ ॥

अर्थ—सत्य, तप, इंद्रियोनो निग्रह, तथा सर्व  
प्राणीओमां दया, ए चारे ब्रह्म कहेवाय ठे, अने  
तेज ब्राह्मणनु लक्षण ठे ॥ ५४ ॥

शूद्रोऽपि शीलसंपन्नो, गुणवान् ब्राह्मणो मत ॥

ब्राह्मणोऽपिक्रियाहीन शुद्रात्प्यधमो जवेत् ॥ ५५ ॥

अर्थ—वली हे युधिष्ठिर ! जातिए करीने शूद्र होय  
पण ते जो शीलयुक्त तथा गुणवान होय, तो तेने  
ब्राह्मण मानेलो ठे, अने जातिथी जे ब्राह्मण होय,  
पण जे शील आदिक क्रियार्थी हीन होय, ते शूद्र  
थकी पण महा अधम थाय ठे ॥ ५५ ॥

सर्वजातिषु धाम्नाला, सर्वजातिषु ब्राह्मणा ॥

ब्राह्मणेऽपि धाम्नाला, धाम्नालेऽपि ब्राह्मणा ॥ ५६ ॥

अर्थ—माटे हे युधिष्ठिर ! सर्व जातिश्रोमां चाम्नाल  
 होय ठे, अने सर्व जातिश्रोमां ब्राह्मणो पण होय  
 ठे, तेम ब्राह्मणोमां चांडाल होय ठे, अने चांम्ना-  
 लोमां पण ब्राह्मणो होय ठे ॥ ५६ ॥

ब्राह्मणो ब्रह्मचर्येण, यथा शिष्येन शिष्यिक ॥

अन्यथा नाममात्र स्या, दिङ्गोपककीटपत् ॥ ५७ ॥

अर्थ—जेम शिष्यकक्षार्थी शिष्यी कहेवाय ठे, तेम  
 ब्रह्मचर्यार्थी ब्राह्मण कहेवाय ठे, अने तेथी जलटी रीत-  
 नो तो, जेम “इङ्गोप” एवा नामनो कीडो कहेवाय  
 ठे, तेम नाममात्र ब्राह्मण कहेवाय ठे ॥ ५७ ॥

अत्रताश्च दुराचारा, यत्र जड्यचरा द्विजा ॥

त ग्राम दम्येष्वाजा, चौरजक्तप्रदायकम् ॥ ५८ ॥

अर्थ—वह्नी हे युधिष्ठिर ! जे गाममां व्रतविनाना,  
 दुराचारी, अने जिह्वा मागनारा एवा ब्राह्मणो वसता  
 होय, ते गामने, चोरने जातु देनारु जाणीने, राजाए  
 ते गामनो दुरु करवो जोइए ॥ ५८ ॥

ऋतुकाले व्यतिक्राते, यस्तु सेवेत मैथुनम् ॥

ब्रह्महत्या फल तस्य, सूतक च दिने दिने ॥ ५९ ॥

अर्थ—ऋतुकाल गया वाद जे मैथुन सेवे तेने ब्रह्म  
 हत्यानु फल, तथा दीनदीन प्रते सूतक लागे ठे ॥ ५९ ॥

ये स्त्रीजघोरसस्पृष्टा, कामगृभ्राश्च ये द्विजा ॥

ये चरितोऽधमा प्रष्टा स्तेऽपि शूद्रा युधिष्ठिर ॥ ६० ॥

अर्थ—जे ब्राह्मणो खीनी जघा अने साथलोनेस्पर्श करीने रहेला ठे, तथा जेश्रो विषयसुखमां लोडुपी यज्ञे पडेला ठे, अने जेश्रो पोतानां आचरणोथीत्रष्ट यएला ठे, तेश्रोने पण हे युधिष्ठिर ! शुद्ध जाणवा ६०  
यस्तु रत्तेषु दतेषु, वेदमुच्चरते विज ॥

अमेध्य तस्य जिह्वामे, सूतक च दिने दिने ॥ ६१ ॥

अर्थ—वली हे युधिष्ठिर ! जे ब्राह्मण, पोतानां दातो अलता आदिकथी रगीने वेदनो उच्चार करे ठे, तेनी जीजना अग्र जागपर विष्टा जाणवी, तथा तेने दिन दिनप्रते सूतक आवे ठे ॥ ६१ ॥

हस्ततलप्रमाणा तु, यो जृमि कर्षति विज ॥

नश्यते तस्य ब्रह्मत्व, शूद्रत्व त्वन्निजायते ॥ ६२ ॥

अर्थ—जे ब्राह्मण हाथना तलीआं जेटली पण जूमिने खेडे ठे, तेनु ब्रह्मपणु नाश पामे ठे, तथा तेने शुद्धपणु प्राप्त थाय ठे ॥ ६२ ॥

कृषियाण्यज्यगोरक्षा, राजसेवा तथाधमाम् ॥

ये ब्राह्मणा प्रकुर्वन्ति, वृषलास्ते न सशय ॥ ६३ ॥

अर्थ—वली हे युधिष्ठिर ! जे ब्राह्मणो खेती, वेपार राज्य, तथा अधम एवी राजसेवा करे ठे, ते ब्राह्मणोने नीच शुद्ध जाणवा, तेमां संशय नथी ॥ ६३ ॥

यद्यत्काष्ठमयो हस्ती, यद्यच्चर्ममयो मृग ॥

ब्राह्मणस्तु क्रियाहीन, स्वयस्ते नामधारकाः ॥ ६४ ॥

अर्थ—लाकमानो हाथी, अने चांवमानो हरिण,  
तथा क्रिया विनानो ब्राह्मण, ते त्रणे फक्त नाम ध  
राजनाराथो ठे ॥ ६४ ॥

अप्रतानामशीखाना, जातिमात्रोपजीविना ॥

सहस्रमुचिताना तु, ब्रह्मत्व नोपजायते ॥ ६५ ॥

अर्थ—व्रतविनाना, शीलविनाना, अने जातिमा  
त्रथी आजीविका चलावनारा, एवा हजारो ब्राह्म-  
णोने पण ब्रह्मपण प्राप्त थतुं नथी ॥ ६५ ॥

ये स्त्रीवशगता नित्य, विश्वासोपहताश्च ये ॥

ये स्त्रीपादगज स्पृष्टा,स्तेऽपि शूद्रा युधिष्ठिर ॥ ६६ ॥

अर्थ—वली हे युधिष्ठिर! जे माणसो हमेशां स्त्रीने  
वश रहेला ठे, तथा जेशो विश्वासघाती ठे, अने  
स्त्रीनां पगनी रजथी स्पर्श कराएला ठे, ते पण  
शुद्रो जाणवा ॥ ६६ ॥

आरजे वर्तमानस्य, हिंसकस्य युधिष्ठिर ॥

गृहस्थस्य कुत शांत्त, मैथुनाक्षिरतस्य च ॥ ६७ ॥

अर्थ—वली हे युधिष्ठिर! आरजमावर्तता, तथा  
हिंसक, अने मैथुनमा रक्त रहेला एवा गृहस्थने  
पवित्रता क्यथी होय? ॥ ६७ ॥

मैथुन ये न सेवते, ब्रह्मचारा दृढव्रता ॥

ते ससारसमुद्भस्य, पार गच्छति सुप्रता ॥ ६८ ॥

अर्थ—बली जेश्रो मैथुन सेवता नथी, तथा ब्रह्मचर्य रूपी दृढव्रतने पाले ठे, एवा उत्तम आचरणवाला ब्राह्मणो ससाररूपी समुद्रनां पारने पामे ठे ॥६७॥

हलकर्षणकर्माणि, यस्य त्रिप्रस्य वर्तते ॥

स नहि ब्राह्मण प्रोक्त, कि तु शूद्रो युधिष्ठिर ॥ ६९ ॥

अर्थ—जे ब्राह्मणने हल आदिक खेतीनु कार्य होय ठे, तेने ब्राह्मण कहेलो नथी, पण हे युधिष्ठिर ॥ तेने तो शूद्र कहेलो ठे ॥ ६९ ॥

हिंसकोऽनृत्यादी च, चौर्योपरतश्च य ॥

परदारोपसेत्री च, सर्वे ते पतिता विजा ॥ ७० ॥

अर्थ—हिंसा करनार, जूठाबोलो, चोरीमा रक्त, तथा जे परस्त्रीने सेवनारो ठे, एवा सधला ब्राह्मणोने वटखेला जाणवा ॥ ७० ॥

स्वाध्यायहीना वृषला, परकर्मोपजीविन ॥

आकाशगामिनो विप्रा सर्वजातिषु निंदिता ॥ ७१ ॥

अर्थ—स्वाध्यायथी हीन, वायला, तथा पारकी चाकरी करीने आजीविका चलावनारा, अने आकाशगमन करनारा एवा ब्राह्मणो सर्वे जातिओमा निंदायेला ठे ॥ ७१ ॥

गोविक्रयास्तु ये त्रिप्रा, ज्ञेयास्ते मातृत्रिकया ॥

तैहि देवाश्च वेदाश्च, विक्रीता नात्र सदाय ॥ ७२ ॥

अर्थ—वली जे ब्राह्मणो गायने वेचनारा ठे, तेथोने पोतानी माताना वेचनारा जाणवा, वली तेथी तेथोए देव तथा वेदोने पण वेच्या समजवा, तेमा सशय नथी

ब्रह्मचर्यतपोयुक्ता, समानलोहकाचना ॥

सर्वज्ञतदयावतो, ब्राह्मणा सर्वजातिषु ॥ ७३ ॥

अर्थ—जेथो ब्रह्मचर्य अने तपें करीने युक्त ठे, तथा जेथोने माटीनु ढेफु अने सुवर्ण वस्त्रे सरखा ठे, तथा जेथो सर्व प्राणीथोमां दयावाला ठे, एवा माणसो सर्व जातिथोमां पण ब्राह्मणो कहेवाय ठे ॥ ७३ ॥

त्यक्तदारा सदाचारा, पुत्रजोगा जितेंद्रिया ॥

जायते गुरवो नित्य, सर्वज्ञतात्रयप्रदा ॥ ७४ ॥

अर्थ—तजेवी ठे स्त्रीथो जेथोए, तथा सदाचारवाला, तजेला ठे जोगोजेथोए, तथा जीतेवीठे इन्द्रिथो जेथोए, एवा तथा सर्व प्राणीथोपर दया राखनारा, एवा ब्राह्मणो हमेशां गुरुतरिके थाय ठे ॥ ७४ ॥

अधित्य चतुरो वेदान्, सागोपागान् चिकित्सिकान् ॥

शूद्रात्प्रतिगृह कृत्वा, खरो जयति ब्राह्मण ॥ ७५ ॥

अर्थ—अगोपाग सहित, तथा वैदकयुक्त एवा चार वेदोने जणीने, जे ब्राह्मण शूद्रथकी प्रतिग्रह करे ठे, ते गधेको थाय ठे ॥ ७५ ॥

खरो षादशजन्मानि, षष्टिजन्मानि शूकर ॥

श्वान सप्ततिजन्मानि, इत्येव मनुरब्रवीत् ॥ ७६ ॥



अर्थ—वली तेवो ब्राह्मण वार जन्मो सुधि गधेनो  
थाय ठे, साठ जन्मो सुधि कुकर थाय ठे, तथा सीत्तेर  
जन्मो सुधि कुतरो थाय ठे, एम मनुकपिण पण  
कहेलु ठे ॥ ७६ ॥

अहिंसासत्यमस्तेय, ब्रह्मचर्यापरिग्रही ॥

कामक्रोधनिवृत्तस्तु, ब्राह्मण स युधिष्ठिर ॥ ७७ ॥

अर्थ—अहिंसा (दया) करनारो, सत्य बोलनारो  
चोरी नहीं करनारो, ब्रह्मचारी, परिग्रह नहीं राखनारो,  
अने कामक्रोधथी निवृत्त थएलो, एवो माणस, हे  
युधिष्ठर! ब्राह्मण कहेवाय ठे ॥ ७७ ॥

मत्य नास्ति तपो नास्ति, नास्ति चेंद्रियनिग्रह ॥

सर्वभूतदया नास्ति, एतच्चारुललक्षणम् ॥ ७८ ॥

अर्थ—वली हे युधिष्ठर! ज्यां सत्य न होय, तप  
न होय, इंद्रियोनो निग्रह न होय, तथा सर्व प्राणीओ  
प्रते दया न होय, ते चारुलनु लक्षण ठे ॥ ७८ ॥

ये क्षति दाता श्रुतिपूर्णकर्णा ।

जितेंद्रिया प्राणिग्रहे निवृत्ता ॥

परिग्रहे सकुचिताग्रहस्ता-

स्ते ब्राह्मणास्तारयितु समर्था ॥ ७९ ॥

अर्थ—जे ब्राह्मणो क्षमानां देनारा, तथा श्रुतिथीपूर्ण  
थएल ठे कान जेशोना एवा, तथा जीवहिंसार्थी निवृत्त

थएला,अने परिग्रह धरवामां संकोच पामेलठे हस्ताग्र  
जेअ्योनां, एवा ब्राह्मणो तारवाने समर्थ होय ठे ॥ ७९ ॥

चतुर्वेदोऽपि यो ज्ञत्वा, चरुकर्म समाचरेम् ॥

चान्दाल स तु विज्ञेयो, नवेदास्तत्रकारणम् ॥ ८० ॥

अर्थ—चार वेदनो जाण थइने पण जे ब्राह्मण  
जयकर कार्य करे तेने चान्दाल जाणवो, तेनां ब्राह्म-  
णपणामां कइ वेदो कारणजून नथी ॥ ८० ॥

वार्धक्या सेरकाश्चैत्र, नक्षत्रतिथिसूचका ॥

एते शूद्रसमा विप्रा, मनुना परिकीतिता ॥ ८१ ॥

अर्थ—व्याजखोर, चाकरी करनारा, तथा नक्षत्र  
अने तिथिने सूचवनारा, एवा ब्राह्मणोने मनुकपिण  
शुद्र सरखा कहेला ठे ॥ ८१ ॥

दशसूनासमश्चक्री, दशचक्रिसमो ध्वज ॥

दशध्वजसमा वेश्या, दशवेश्यासमो नृप ॥ ८२ ॥

अर्थ—दश कसाइखाना सरखो चक्री ठे, अने दश  
चक्री सरखो एक कलाल ठे, अने दश कलाल सरखी  
एक वेश्या ठे, अने दश वेश्या सरखो एक राजा ठे ८२

राज्ञ परिग्रहो घोरो, मधुस्वादो त्रिपोपम ॥

पुत्रमास पर जदय, नतु राजप्रतिग्रहम् ॥ ८३ ॥

अर्थ—राजानो परिग्रह (प्रथम) मधुनास्वादसरखो  
पण ( अंते ) त्रिप समान जयकर ठे, माटे पुत्रनु मास  
खावु सारू, पण (ब्राह्मणे) राजानु दान लेवु नहीं ८३

राजपरिग्रहदग्धाना, ब्राह्मणाना युधिष्ठिर ॥

सदितानामिष वीजाना, पुनर्जन्म न विद्यते ॥ ८४ ॥

अर्थ—बली हे युधिष्ठिर ! राजाना परिग्रहृथी दग्ध  
थएला एवा जे ब्राह्मणो, तेथोनो सडेला वीजनी  
पेठे पुनर्जन्म पण होतो नथी ॥ ८४ ॥

हवे महाजारतना शातिपर्वमा कहेलु

ब्रह्मचर्यनु वर्णन करेते

ब्रह्मचर्यं जवेन्मूल, सर्वेषां ब्रह्मचारिणाम् ॥

ब्रह्मचर्यस्य जगेन, व्रता सर्वे निरर्थका ॥ ८५ ॥

अर्थ—हे युधिष्ठिर ! सधला ब्रह्मचारीथोनु, ब्रह्मचर्य  
मूल ठे, माटे ब्रह्मचर्यना जगे करीने सधला व्रतो  
निरर्थक ठे ॥ ८५ ॥

तावूल सूक्ष्मवस्त्राणि, स्त्रीकथेन्द्रियपोषणम् ॥

दिना निद्रा सदा क्रोधो, व्रतिना पतितानि पद् ॥ ८६ ॥

अर्थ—तावूल, सूक्ष्म वस्त्र, स्त्रीथोनी कथा, इन्द्रियोनु  
पोषण, दिवसे निद्रा, तथा हमेशानो क्रोध, ए ठ वावतो  
व्रतिथोना व्रतने जग करावनारी ठे ॥ ८६ ॥

मुखशय्यासन वस्त्र, तावूज स्नानमर्दनम् ॥

दत्तकाष्ठ सुगंध च, ब्रह्मचर्यस्य दूषणम् ॥ ८७ ॥

अर्थ—कोमल शय्या अने आसन तथा वस्त्र, तावूल  
स्नान, मर्दन, दातण अने सुगंधि, एटली वावतो  
ब्रह्मचर्यने दूषण करनारी ठे ॥ ८७ ॥

शृगारमदनोत्पाद, यस्मात्स्नान प्रकीर्तितम् ॥

तस्मात्स्नान परित्यक्त, नैष्टिकैर्ब्रह्मचारिभिः ॥ ८९ ॥

अर्थ—स्नानने शृगार अने कामदेवने उत्पन्न कर-  
नारू कळुं ठे, अने तेथी उत्तम ब्रह्मचारीओए तेने  
तजेवु ठे ॥ ८९ ॥

ब्रह्मचर्येण शुद्धस्य, सर्वचूतहितस्य च ॥

पदेपदे यज्ञफल, प्रस्थितस्य युधिष्ठिर ॥ ९० ॥

अर्थ—हे युधिष्ठिर ! ब्रह्मचर्ये करीने शुद्ध, अने  
सर्व प्राणीओनु हित करनार, एवा ब्राह्मणने पगळे  
पगळे यज्ञनु फल मळे ठे ॥ ९० ॥

एकरात्र्युपित्तस्यापि, या गति ब्रह्मचारिण ॥

न स ऋतुसहस्रेण, वक्तु शक्त्या युधिष्ठिर ॥ ९१ ॥

अर्थ—हे युधिष्ठिर ! एक रात्रि पण ब्रह्मचर्ये पाल-  
नारनी जे गति ठे, ते हजार यज्ञनी साथे पण सर-  
खावी शकाय तेम नथी ॥ ९१ ॥

एकतश्चतुरो वेदा, ब्रह्मचर्ये तु एकत ॥

एकत सर्वपापानि, मद्यमाम च एकत ॥ ९२ ॥

अर्थ—एक वाजुथी चार वेदो, अने एक वाजुथी  
ब्रह्मचर्ये, एक वाजुथी सर्व पापो, अने एक वाजुथी  
मदिरा मांस सरखा ठे ॥ ९२ ॥

नैष्टिक ब्रह्मचर्ये तु, ये चरति सुनिश्चिता ॥

देवानामपि तेष्ट्या, पत्रिभ्य मगल तथा ॥ ९३ ॥

अर्थ—जे उत्तम ब्राह्मणो निष्ठा सहित ब्रह्मचर्य  
पाले ठे, तेथो देवोने पण पूजनीक धाय ठे, तथा  
तेथो पवित्र मगलरूप ठे ॥ ९३ ॥

शीळानामुत्तम शील, व्रतानामुत्तम व्रतम् ॥

ध्यानानामुत्तम ध्यान, ब्रह्मचर्य सुरक्षितम् ॥ ९४ ॥

अर्थ—उत्तम रीते पालेलु ब्रह्मचर्य,सघला शीलोमा  
उत्तम शील ठे, तथा सघला व्रतोमां उत्तम व्रत ठे,  
अने सघला ध्यानोमां उत्तम ध्यान ठे. ॥ ९४ ॥

पुत्रदारकुटुंबेषु, सक्ता सीदति जतव ॥

सर पकार्णवे मग्ना, जीर्णवीर्या गजा ऽत्र ॥ ९५ ॥

अर्थ—पुत्र, स्त्री अने कुटुंबने विपे आसक्त थएला  
एवा जतुथो, तळावना कादवरूपी समुद्रमा बुडेला,  
तथा जीर्ण थएल ठे वीर्य जेश्चोनु एवा हाथीथोनी  
पेठे डु ख पामे ठे ॥ ९५ ॥

हवे तेज शातिपर्वमां वर्णवेलु क्रोधनु  
स्वरूप कहे ठे

क्रोध परितापकर, सर्वस्योद्वेगकारक ॥

क्रोधो वैरानुपंगीक, क्रोध सुगतिनाशक ॥ ९६ ॥

अर्थ—क्रोध ठे ते, सर्वने परिताप, तथा उद्वेग  
करनारो ठे, वली ते वैर करावनारो, तथा सुगतिने  
नाश करनारो ठे ॥ ९६ ॥

क्रोधो मूलमनर्थानां, क्रोध ससारवर्धन ॥

धर्मरुचकर क्रोध, स्तस्मात्क्रोध विजर्जयेत् ॥ ९७ ॥

अर्थ - क्रोध ठे ते अनर्थोनु मूल, तथा ससारने  
वधारनारो, अने धर्मनो कय करनारो ठे, माटे तेनो  
त्याग करवो ॥ ९७ ॥

स शूर सात्त्विको विद्वान्, स तपस्वी जितेंद्रिय ॥

येनासौ ह्यातिरङ्गेन, क्रोधशत्रुनिपातित ॥ ९८ ॥

अर्थ - जे माणसे आ क्रोधरूपी शत्रुने, क्षमा  
रूप खरूगे करीने हण्यो ठे, तेज माणस, गूरो,  
सत्ववान, विद्वान अने जितेंद्रिय ठे ॥ ९८ ॥

यस्य ह्यातिमय शस्त्र, क्रोधाग्नेरपनाशनम् ॥

नित्यमेव जय तस्य, शत्रूणामुदय कुत ॥ ९९ ॥

अर्थ - जे माणस पासे क्रोधरूपी अग्निने नाश कर-  
नारू क्षमारूपी हथीयार ठे, तेनो हमेशां जय थाय ठे,  
अने तेने शत्रुनो उदय क्याथी होय ? ॥ ९९ ॥

क्षमागुणान् प्रपश्यामि, सक्षेपेण तु श्रुयताम् ॥

धर्मार्थकाममोक्षाणां, क्षमाकारणमुच्यते ॥ १०० ॥

अर्थ - हे युधिष्ठिर! हवे हु सक्षेपणी तने क्षमाना  
गुणोनु वर्णन कहु तु, ते तु साजल? क्षमा ठे ते,  
धर्म, अर्थ, काम, अने मोक्षनु कारण कहेवाय ठे १००

क्षमा शांति क्षमा शास्त्र, क्षमा श्रेय क्षमा धृति ॥

क्षमा वित्त च चित्तच, क्षमा रक्षा क्षमानन्दम् ॥ १०१ ॥

अर्थ - दामा ठे ते शाति, शस्त्र, कल्याण, धीरज,  
धन, चित्त, रक्षा अने वल ठे ॥ १०१ ॥

दामा नाथ दामा त्राता, दामा माता दामा सुहृद् ॥

दामा लब्धि दामालक्ष्मी, दामा शोचा दामा शुभम् ॥ १०२ ॥

अर्थ - दामा ठे ते, स्वामी, रक्षणकरनार, माता,  
मित्र, लब्धि, लक्ष्मी, शोचा अने श्रेय ठे ॥ १०२ ॥

दामा श्लाघा दामा चार, दामा कीर्ति दामा यश ॥

दामा सत्य च शौच च, दामा तेज दामा रति ॥ १०३ ॥

अर्थ - दामा ठे ते, प्रशंसा, आचार कीर्ति, यश,  
सत्य, पवित्रता, तेज अने भोजशोक ठे ॥ १०३ ॥

दामा श्रेय दामा पूजा, दामा देव दामा हितम् ॥

दामा दान पत्रिच, दामा मागद्वयमुत्तमम् ॥ १०४ ॥

अर्थ - दामा ठे ते, कल्याण, पूजा, देव, हित,  
पवित्र दान तथा उत्तम मागद्वय ठे ॥ १०४ ॥

दानितुद्वय तपो नास्ति, न सतोपात्पर सुखम् ॥

न मैत्रीसदृश दान, नास्ति धर्मो दयासम ॥ १०५ ॥

अर्थ - वही हे युधिष्ठिर! दामा समान कोइतप नथी,  
सतोपथी वीजु उत्तम सुख नथी, मित्राइ समान वीजु  
दान नथी, अने दया समान वीजो धर्म नथी ॥ १०५ ॥

कामक्रोधादिसहित, किमरण्यं करिष्यति ॥

अथना त्रिनिजिल्यंता, किमरण्यं करिष्यति ॥ १०६ ॥

अर्थ—काम अने क्रोध आदिकधी जरेलो एवो माणस, जगलोण करीने शुं करवानो हतो? अथवा ते-  
ओने जीतीने पण जगलोण करीने शु करवानो हतो?

सकपायस्य चित्तस्य, कपायं किं प्रयोजनम् ॥

अथना निकपायत्वे, कपायं किं प्रयोजनम् ॥ १०७ ॥

अर्थ—जेनु चित्त कपायवाबु ठे, तेने कपायोण करीने शु प्रयोजन ठे? अथवा कपाय रहितपणु होते ठते पण कपायोचे करीने शु प्रयोजन ठे? ॥ १०७ ॥

किमरण्यैरदातस्य, दातस्य च किमाश्रमै ॥

यत्र यत्र ज्ञेदात, सतदरण्य तदाश्रमम् ॥ १०८ ॥

अर्थ—जेणे इद्रिओने दमी नथी, तेने वनोतुं शु प्रयोजन ठे? अने जेणे इद्रिओने दमी ठे, तेने आ-  
श्रमोनी शी जरूर ठे? माटे ज्या ज्यां जितेंद्रिय ठे, ते ते अरण्य अने आश्रमज ठे ॥ १०८ ॥

सत्याधारस्तपस्तैल, दमोवति क्ष्माशिखा ॥

अधकारे प्रवेष्टव्य, दीपो यत्नेन धार्यताम् ॥ १०९ ॥

अर्थ—ससाररूपी अंधकारमा प्रवेश करती वेलाए सत्यरूपी पात्रवालो, तपरूपी तेलवालो, दमतारूपी वाटवालो, तथा क्ष्मारूपी शिखावालो दीपक यत्न-  
पूर्वक धारण करवो ॥ १०९ ॥



दीपो ज्ञानमयो यस्य, वर्तिर्यस्य तपोमयी ॥

ज्वलते शीलतैलेन, न तमस्तस्य जायते ॥ ११० ॥

अर्थ—जे माणसने तपरूपी वाटवालो ज्ञानरूपी दीवो, शीलरूपी तेलथी वले ठे, ते माणसने अज्ञानरूपी अधकार थतो नथी ॥ ११० ॥

सुखेन दात स्वपिति, सुखेन प्रतिबुध्यति ॥

सम सर्वेषु चूतेषु, मनो यस्य प्रसीदति ॥ १११ ॥

अर्थ—जेनु मन सघला प्राणीथोने विषे तुल्यरीते आनद पामे ठे, तेवो जितेंद्रिय माणस सुखेथी निद्रा करे ठे, तथा सुखेथीज जायत थाय ठे ॥१११॥

यदाधीते परुगानि, वेदागाश्चतुरो द्विज ॥

दमी न समहीनस्तु, न पूजा किंचिदर्हति ॥ ११२ ॥

अर्थ—ज्यारे कोइ ब्राह्मण ठ अगो, अने चार वेदो जणे ठे, पण जो ते जितेंद्रिय, तथा समताथी हीन होय तो ते कइ पण पूजाने लायक थतो नथी ॥ ११२ ॥

अहिंसासत्यमस्तेय, ब्रह्मचर्यमसचय ॥

मद्यमांसमधुत्यागो, रात्रिजोजनवर्जनम् ॥ ११३ ॥

अर्थ—हे युधिष्ठिर ॥ दया, सत्य, चोरी नहीं करवी ते ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, मद्य, मांस अने मधनो त्याग, तथा रात्रिजोजननो त्याग, ( ए धर्मनां अगो ठे ) ॥११३॥

ये रात्रौ सर्वदाहार, वर्जयति सुमेधस ॥

तेषा पक्षोपवासस्य, फल मासेन जायते ॥ ११४ ॥

अर्थ—जे उत्तम बुद्धिवाला माणसो रात्रिने विषे हमेशां आहारनो त्याग करे ठे, तेश्रोने एक मासमां पक्षदिवसनां उपवासनु फल थाय ठे ॥ ११४ ॥

करोति विरति धन्यो, य सदा निशि जोजनात् ॥

सोऽध पुरुषायुषस्य, स्यादवश्यमुपोषित ॥ ११५ ॥

अर्थ—जे धन्य माणस हमेशा रात्रिजोजनधी विरति पामे ठे, ते माणसने पोतानां श्रधा आयुष्यना उपवासनु फल मळे ठे ॥ ११५ ॥

मृते स्वजनमात्रेऽपि, सूतक जायते ध्रुमम् ॥

अस्त गते दिवानाथे, जोजन क्रियते कथम् ॥ ११६ ॥

अर्थ—स्वजनमात्र पण मृत्यु पामते ठे, ज्यारं निश्चये करीने सूतक थाय ठे, त्यारे सूर्य अस्त पामते ठे जोजन केम कराय ? ॥ ११६ ॥

नोदकमपि पातव्य, रात्रावत्र युधिष्ठिर ॥

तपस्विना विशेषेण, गृहस्थेन विवेकिना ॥ ११७ ॥

अर्थ—हे युधिष्ठिर ॥ आ पुनियामां रात्रिने विषे लोपाणी पण नहीं पीवु, अने तेमा पण तपस्वीनां विवेकी एवा गृहस्थे तो विशेषे करीने नही

हवे तीर्थनो अधिकार कहे ठे

सत्य तीर्थ तपस्तीर्थ, तीर्थमिच्छियनिग्रह ॥

सर्वज्ञतदया तीर्थ, एतत्तीर्थस्यलक्षणम् ॥ ११० ॥

अर्थ—सत्य, तप, इच्छिओनो निग्रह तथा सर्व प्राणी-  
ओ प्रते दया, ए तीर्थ ठे, अने तेज तीर्थनु लक्षण ठे

आत्मानदी सयमतोयपूर्णा ॥

सत्यावहा शीलतटा दयोमिं ॥

तत्राज्ञिपेक कुरु पादुपुत्र ॥

न धारिणा शुद्ध्यति चातरात्मा ॥ १११ ॥

अर्थ—सयमरूपी पाणीथी जरेली, सत्यने धारण  
करनारी, शीलरूपी काठावाली तथा दयारूपी मो-  
जावाली एवी आत्मरूपी नदीमां, हे पादुपुत्र । तु  
अज्ञिपेक कर ? केमके केवल पाणीथी कइ अतरा-  
त्मा शुरू यतो नथी ॥ १११ ॥

चित्तमर्गतं द्रष्टुं, तीर्थस्नानेन शुद्ध्यति ॥

शतशोऽपि जले धात, सुरात्तारुमिनाशुचि ॥ ११० ॥

अर्थ—अतरमा द्रष्टुं यएलु एवु जे चित्त ते तीथना  
स्नानोथी कइ शुरू यतु नथी, केमके सेंकनो वखत  
पाणीथीधोषलो एवो मद्यनो घनो अपवित्रज रहे ठे

मृदोजारसहस्रेण, जलकुजशतेन च ॥

न शुद्ध्यति दुराचारा, स्नानतीर्थशतरपि ॥ १११ ॥

अर्थ-दुराचारी माणसो हजारो चार माटीथी,  
तथा सेंकडो गमे पाणीना घमाओथी, अने सेंकडो  
तीर्थनां स्नानोथी पण शुद्ध थता नथी ॥ १२१ ॥

सत्य शौच तप शौच, शौचमिंद्रियनिग्रह ॥

सर्वजृतदया शौच, जलशौच च पचमम् ॥ १२२ ॥

अर्थ-सत्य, तप, इंद्रियोनो निग्रह, तथा सर्व प्राणी  
ओमा दया ए शौच एटले पवित्रता ठे, अने जलथी  
पवीत्रता तो पांचमा नवरनी एटले ठेव्ही ठे ॥ १२२ ॥

दृष्टिपूत न्यसेत्पाद, वस्त्रपूत जल पिबेत् ॥

सत्यपूत वदेद्वाक्य, मन पूत समाचरेत् ॥ १२३ ॥

अर्थ-दृष्टिथी पवित्र थएलु पगलु मुकवु, वस्त्रथी  
पवित्र थएलु जल पीवु, सत्यथी पवित्र थएलु वचन  
वोलवु, तथा मनथी पवित्र थएलु आचरवु ॥ १२३ ॥

कामरागमदोन्मत्ता, स्त्रीणा ये वशवर्तिन ॥

न ते जलेन शुद्ध्यन्ति, स्नातास्तीर्थशतरपि ॥ १२४ ॥

अर्थ-कामरागथी मदोन्मत्त थया थका जे पुरुषो  
स्त्रीओने वश थइने रहे ठे, तेओ सेंकडो तीथोना जल-  
थी स्नान करे, तो पण शुद्ध थता नथी ॥ १२४ ॥

नोदकद्विन्नगात्रोपि, स्नात इत्यनिधीयते ॥

मुस्नातो यो दमस्नात, स वाह्यान्यतर शुचि ॥ १२५ ॥

अर्थ-पाणी मात्रथी र्जीजएला शरीरवालो माणस  
कइ स्नान करेलो कहेवातो नथी, पण जेणे इंद्रियोने

दमी ठे, तेज स्नान करेलो, तथा तेज वाह्य अने  
अतरथी पवित्र थएलो कहेवाय ठे ॥ १२५ ॥

निगृहीतैद्वियद्धारो, यत्रोपशिशते मुनि ॥

तत्रतत्र कुरुक्षेत्र, नान्यत्र पुष्कर जना, ॥ १२६ ॥

अर्थ—जेणे इद्रिओना द्वारो वशमा रारयां ठे, एवो  
मुनि ज्या ज्या रहे ठे, त्यां त्या कुरुक्षेत्र ठे, तेम हे लोको  
पुष्कर तीर्थ पण ते शिवाय वीजी जगोण नथी १२६

सर्वेपामेव शौचाना, मर्थ शौच विशिष्यते ॥

योऽर्थेषु शुचि स शुचि, नर्मदावारिजि शुचि ॥ १२७ ॥

अर्थ—सघली शुचिओमा अर्थशुचि विशेष ठे,  
माटे जे अर्थोमा शुचि थएलो ठे, तेने नर्मदाना पा  
णीथी शुचि थएलो जाणवो ॥ १२७ ॥

सवत्सरेण यत्पाप, कैवर्तस्य हि जायते ॥

एकाहेन तदामोति, अपृतजलसग्रही ॥ १२८ ॥

अर्थ—जे पाप एक वर्षे पाराधिने थाय ठे, तेज पाप  
एक दीवस अणगल पाणी पीनारने थाय ठे ॥ १२८ ॥

य कुर्यात्सर्वकर्माणि, वस्त्रपृतेन वारिणा ॥

स मुनि स महासाधु, स योगी स महाव्रती ॥ १२९ ॥

अर्थ—जे माणस वस्त्रथी गालेला पाणीथी सर्व  
कायो करे ठे, तेनेज मुनि महासाधु योगी तथा  
महा व्रतधारी जाणवो ॥ १२९ ॥

चित्त रागादिभिः क्लिष्टं, अस्वीक्यचनैर्मुलम् ॥

जीवघातादिभिः काय, सत्य गगा पराङ्मुखी ॥ १३० ॥

अर्थ—जेनु चित्त राग आदिकोधी क्लीष्ट थएलु ठे, तथा जेनु मुख जुठां वचनोधी अपवित्र थएलु ठे, तथा जेनी काया जीवहिंसा आदिकधी अशुचि थएली ठे, तेनाधी गगा उलटां मुखवाली रहे ठे ॥ १३० ॥

चित्त शमादिभिः शुद्ध, वदन सत्यज्ञापणै ॥

ब्रह्मचर्यादिभिः काय, शुद्धो गगाविनापि स ॥ १३१ ॥

अर्थ—जेनु चित्त समता अदिकधी शुद्ध थएलुं ठे, तथा जेनु मुख सत्य वचनोधी शुद्ध थएलु ठे, तथा जेनु शरीर ब्रह्मचर्यादिकधी पवित्र थएलु ठे, ते माणस गगा विना पण शुद्ध ठे ॥ १३१ ॥

जगम स्थावर चैत्र, द्विप्रिध तीर्थमुच्यते ॥

जगम रूपय स्तीर्थ, स्थावर तैनिपेक्षितम् ॥ १३२ ॥

अर्थ—जगम अने स्थावर एम वे प्रकारनु तीर्थ कहेवाय ठे, तेमा रूपियो ठेते, जगम तीर्थ ठे, तथा तेओए सेवेलु ते स्थावर तीर्थ ठे ॥ १३२ ॥

अहिंसा सत्यमस्तेय-ब्रह्मचर्यापरिग्रहा ॥

जैद्वयवृत्तिरता ये च, तत्तीर्थं जगम स्मृतम् ॥ १३३ ॥

अर्थ—अहिंसा, सत्य, चोरी नहीं करवी ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तथा जिह्वा वृत्तिमा जे लोको तत्पर थएला ठे एवा साधुओ जंगम तीर्थ कहेवाय ठे ॥ १३३ ॥

अगाधे विमले शुद्धे, सत्यशीलसमे हृदि ॥  
ज्ञातव्य जगम तीर्थं, ज्ञानार्जमदयापरं ॥ १३४ ॥

अर्थ—अगाध, निर्मल, शुद्ध, तथा सत्य, शील अने  
समतारूप हृदय होते ठेते, ज्ञान, आर्जव, अने दयामां  
तत्पर थएला माणसोए जगम तीर्थ जाणवु ॥ १३४ ॥

आचारमस्त्रातरगालितेन ।  
सत्यप्रयत्नश्मशीतलेन ॥  
ज्ञानाद्युना स्नाति च यो हि नित्य ।  
किं तस्य ऋयात्सखिलेन कृत्यम् ॥ १३५ ॥

अर्थ—आचाररूपी वस्त्रथी गालेला, तथा सत्यनो  
प्रयत्न अने क्षमार्थी शीतल थएला एवा ज्ञानरूपी  
पाणीथी जे हमेशा स्नान करेठे, तेने जलना स्नाननु शु  
प्रयोजन ठे ? (अर्थात् कड प्रयोजन नथी) ॥ १३५ ॥

इदं तीर्थमिदं तीर्थं, ये भ्रमन्ति तमोवृता ॥  
येषां नाम्ना च तीर्थं हि, तेषां तीर्थं निरर्थकम् ॥ १३६ ॥

अर्थ—आ तीर्थ, आ तीर्थ, एवी रीते जे माणसो  
अज्ञानथी आढादित थया थका तीर्थोमा जमे ठे,  
तथा जेथोने फक्त नामरूपज तीर्थ ठे, तेथोनु तीर्थ  
निरर्थक ठे ॥ १३६ ॥

न मृत्तिका नैव जल, नाप्यग्नि कर्मशोधनम् ॥  
शोधयति बुधा कर्म, ज्ञानध्याततपोजले ॥ १३७ ॥

अर्थ—बली हे युधिष्ठिर! माटी, पाणी तथा अग्नि पण कर्मरूपी मेलने धोवाने समर्थ नथी, तेथी माह्या माणसो तो, ज्ञान ध्यान अने तपरूपी पाणीथी कर्मरूपी मेलने धुए ठे ॥ १३७ ॥

अशुचि पापकर्मा य, शुद्धकर्मा यतिर्नयेत् ॥

तस्मात्कर्मात्मकं शांत्तं—मन्यशांत्तं निरर्थकम् ॥ १३८ ॥

अर्थ—अपवित्र, तथा पापकार्य करनारो एवो पण मुनि, ( ज्ञान, ध्यान अने तपथी ) शुद्ध कर्मवालो थाय ठे, माटे कर्मनु शुचिपणु अगीकार करवु, ते शिवायनु वीजु शुचिपणु निरर्थक ठे ॥ १३८ ॥

समता सर्वज्ञतेषु, मनोवाक्कायनिग्रह ॥

पापध्यानकषायाणां, निग्रहेण शुचिर्नयेत् ॥ १३९ ॥

अर्थ—सर्व प्राणीश्रोमा समता, तथा मन, वचन अने कायानो निग्रह, तथा आर्त, रौद्र ध्यान अने कषायोना त्यागथी प्राणी पवित्र थाय ॥ १३९ ॥

एवी रीते तीर्थनो अधिकार कस्यो

अनेकानि सहस्राणि, कुमारब्रह्मचारिणाम् ॥

दिव गतानि त्रिप्राणा, मवृत्त्वा कुलसततिम् ॥ १४० ॥

अर्थ—बली हे युधिष्ठिर! ब्राह्मणोना हजारो ब्रह्मचारी कुमारो पुत्रोत्पत्ति कर्या विना पण देवलोकमा गएला ठे. ॥ १४० ॥



यस्य चित्तं हवींशत, कृपया सर्जतुषु ॥

तस्य ज्ञानं च मोहं च, किं जटाञ्जलमचीवरैः ॥ १४१ ॥

अर्थ—वली हे युधिष्ठिर ॥ जेनु चित्त सर्व प्राणी-  
श्रोमां दयाधी जिजाण्णु ठे, तेने ज्ञान तथा मोह  
मले ठे, माटे जटां जश्म, अने वस्त्रधी शु थवानु ठे ?

अग्निहोत्र वने घास , स्वाध्यायो दानसत्क्रिया ॥

तान्येयतानि मिथ्या स्युर्यदि ज्ञावो न निर्मल ॥ १४२ ॥

अर्थ—वली हे युधिष्ठिर ! जो ज्ञाव निर्मल न होय  
तो अग्निहोत्र, वनवास, शास्त्राच्यास, दान, तथा उ-  
त्तम क्रिया ए सधळु निरर्थक जाय ठे ॥ १४२ ॥

घनेऽपि दोषा प्रचरन्ति रागिणाम् ।

गृहेऽपि पचेंद्रियनिग्रहस्तप ॥

अबुत्सिते कर्मणि य प्रवर्तते ।

निवृत्तरागस्य गृह तपोवनम् ॥ १४३ ॥

अर्थ—वली हे युधिष्ठिर ! रागी माणसोने तो वनमा  
पण दोषोनी उत्पत्ति थाय ठे, अने जे माणस घरमा  
रहीने पण पाचे इन्द्रियोने वशमा राखे ठे, ते तेनो  
तपज ठे, माटे जे उमत्त कार्यमा प्रवर्ते ठे, तथा जेणे  
रागनो त्याग करेलो ठे, तेने घर पण तपोवनज ठे १४३

न शब्दशास्त्राजिरतस्य मोहो ।

न चैत्र रम्यावसतिप्रियस्य ॥

न जोजनाद्यादनतत्परस्य ।

न लोकचित्तग्रहणे रतस्य ॥ १४४ ॥ -

अर्थ—वली हे युधिष्ठिर !। शब्दशास्त्रमां (व्याकरणमा) आसक्त थएखाने, तथा मनोहर स्थानक ठे प्रिय जेने एवा माणसने, तथा जोजन अने वस्त्रमां तत्पर थएखाने, तथा लोकोना मन रंजन करवामां तद्धीन थएखाने, कइ मोक्ष मखतो नथी ॥ १४४ ॥

श्वपाकीगर्जसञ्जत, परासरमहामुनि ॥

तपसा ब्राह्मणो जात- स्तस्माज्जातिरकारणम् ॥ १४५ ॥

अर्थ—वली हे युधिष्ठिर ! चांभालणीनां गर्जथी उत्पन्न थएखा एवा परासर नामना महा मुनि तपसार्थी ब्राह्मण थया, माटे तेमा जातिनु कइ कारण नथी १४५

कैवर्तीगर्जसञ्जतो, व्यासो नाम महामुनि ॥

तपसा ब्राह्मणो जात- स्तस्माज्जातिरकारणम् ॥ १४६ ॥

अर्थ—माठणनां गर्जथी उत्पन्न थएखा एवा व्यास नामना महामुनि, तपसार्थी ब्राह्मण थया, माटे तेमां पण जातिनुं कइ कारण नथी ॥ १४६ ॥

श्वमृगीगर्जसञ्जतो, ऋषिशृगो महामुनि ॥

तपसा ब्राह्मणोजात- स्तस्माज्जातिरकारणम् ॥ १४७ ॥

अर्थ—श्वमृगीना गर्जथी उत्पन्न थएखा एवा ऋषिशृग नामना महामुनि तपसार्थी ब्राह्मण थया, माटे तेमां पण जातिनुं कइ कारण नथी, ॥ १४७ ॥

मुशुकीगर्जसञ्जत, शुको नाम महामुनि ॥

तपसा ब्राह्मणो जात- स्तस्माज्जातिरकारणम् ॥ १४८ ॥

अर्थ—सुशुकीना गर्जथी उत्पन्न थएला एवा शुक्र नामना महामुनि तपसार्थी ब्राह्मण थया, माटे तेमा पण जातिनु कइ कारण नथी ॥ १४७ ॥

मनुकीगर्जसञ्जतो, माघथश्च महामुनि ॥

तपसा ब्राह्मणो जात- स्तस्माज्जातिरकारणम् ॥ १४८ ॥

अर्थ—डेरुकीना गर्जथी उत्पन्न थएला एवा मांड्रथ नामना महामुनि तपसार्थी ब्राह्मण थया, माटे तेमा पण जातिनु कइ कारण नथी ॥ १४९ ॥

उर्वशीगर्जसञ्जतो, वशिष्ठश्च महामुनि ॥

तपसा ब्राह्मणो जात- स्तस्माज्जातिरकारणम् ॥ १५० ॥

अर्थ—उर्वशीना गर्जथी उत्पन्न थएला एवा वशिष्ठ नामना महामुनि तपसार्थी ब्राह्मण थया माटे तेमा जातिनु कइ कारण नथी ॥ १५० ॥

अरणीगर्जसञ्जत , कवितश्च महामुनि ॥

तपसा ब्राह्मणो जात- स्तस्माज्जातिरकारणम् ॥ १५१ ॥

अर्थ—अरणीना गर्जथी उत्पन्न थएला एवा कवित नामना महामुनि तपसार्थी ब्राह्मण थया, माटे तेमा पण जातिनु कइ कारण नथी ॥ १५१ ॥

न तेपा ब्राह्मणी माता, संस्कारश्च न विद्यते ॥

तपसा ब्राह्मणा जाता, स्तस्माज्जातिरकारणम् ॥ १५२ ॥

अर्थ—हे युधिष्ठिर! एवी रीते ते ऋषिभ्योनी माताथो ब्राह्मणी नहोती, तथा तेमने संस्कार पण

बहोतो, तो पण तेश्रो तपसाथी ब्राह्मणो थया, माटे तेमा जातिनु कइं पण कारण नथी ॥ १५२ ॥

शील प्रधान न कुल प्रधानम् ॥

कुलेन कि शीलविरजितेन ॥

बहवो नरा नीचकुले प्रसूता ॥

स्वर्गं गता शीलमुपेत्य धीरा ॥ १५३ ॥

अर्थ-माटे हे युधिष्ठिर ॥ शील ठे ते उत्तम ठे, कइ कुलनु प्रधानपणुं नथी, केमके शील विनानां कुलनु शु प्रयोजन ठे ? कारणके, नीचकुलमां उत्पन्न थएला एवा पण घणा धीर पुरुषो शीलने अगीकार करीने स्वर्गं गएला ठे ॥ १५३ ॥

श्रुतिमां पण कब्यु ठे के,

स्तिन्यामप्लो जात, उष्ट्रक्या केशकपल ॥

अगस्त्योऽगस्तिपुष्पाच्च, कौशिक कुशमन्तरात् ॥ १५४ ॥

कविनात्कठिनो जात, शरगुह्माच्च गौतम ॥

डोणाचार्यस्तु कजशा, तित्तिरस्तित्तिरीसुत ॥ १५५ ॥

रंणुका जनय क्षाम, ऋषिशूरा रणे मृगी ॥

कैरत्यजनयक्षथाम, श्वपाकी च परासरम् ॥ १५६ ॥

विश्वामित्र च चाम्पाद्री, वशिष्ठ चैव उर्मि ॥

त्रिप्रजातिमुल्लाजाये, व्येते तावद्विजोत्तमाः ॥ १५७ ॥

अर्थ-अचल हाथणीथी, केशकपल उटणीथी, अगस्त्य अगस्तिना पुष्पथी, कुशनां ढगलाथी, कौशिक

कठिनऋषि कठिनथी, शरगुल्मथी गौतम, कलशथी  
 झोणाचार्य, तित्तिरीथी तित्तिरमुनि, रेणुकाथी राम,  
 हरणीथी ऋषिशृंग, माठणथी व्यास, चांमालणीथी  
 परासरमुनि तथा विश्वामित्र, अने उर्वसीथी वशिष्ठ  
 मुनि उत्पन्न थएल ठे, एवी रीते तेश्योने ब्राह्मणनी  
 जाति अने कुखनो अजाव होते ठते पण, तेश्यो उच्चम  
 ब्राह्मणो कहेवाएछा ठे ॥ १५४॥ १५५॥ १५६॥ १५७॥

क्षेत्र यत्र प्रहरणमधूर्त्वागल गोतुरग ॥

धेनुर्गत्री ऋषिणतरथी हर्म्यमन्यच्च चित्र ॥

यत्सारज जनयति मनो रत्नमालिन्य मुच्चै ॥

स्तादृग् दान मुगतिकृतये नैव देय जनेन ॥ १५८ ॥

अर्थ—आरज सहित, तथा जे मनरूपी रत्नने उचे  
 प्रकारे मलीनता उपजावे ठे, एवा क्षेत्र, यत्र, हृषियार,  
 स्त्री, हल, बलद, घोडो, गाय, गामी, धन, वृद्ध, महे-  
 ल, तथा बीजा पण विचित्र प्रकारनां साधनोनु दान  
 पुण्यने माटे माणसे देबु नहीं ॥ १५८ ॥

सुबीजमूपरे यच्च-क्षुप्त नैव प्ररोहति ॥

तद्वदत्त कुपात्रेषु, दान भवति निष्फलम् ॥ १५९ ॥

अर्थ—उखर झूमिमां वावेलु उत्तम बीज पण जेमउगलु  
 नथी, तेमज कुपात्रोने आपेलुं दान निष्फल जाय ठे

अपात्रे चापि यद्दान, दहत्यासप्तम कुखम् ॥

क्षुध हि ददशूकाय, विपमेव प्रजायते ॥ १६० ॥

अर्थ—बली कुपात्रप्रते दीधेखु दान सात कुवनो  
विनाश करे ठे, केमके सर्पने आपेलुं दूध, जेरज थाय ठे.  
यथा मम प्रियो ह्यात्मा, सुखमिञ्चति सर्वदा ॥

सर्वेपा मेव जीजाना, नित्यमेव सुख प्रियम् ॥ १६१ ॥

अर्थ—बली हे युधिष्ठिर! जेम मारो आत्मा मने  
बहालो ठे, तथा जेम हमेशा सुखने श्छे ठे, तेम स-  
घला जीवोने पण हमेशा सुख प्रिय ठे ॥ १६१ ॥

एवमात्मसमो ज्ञयात्, सर्वज्ञतेषु पार्थिव ॥

सर्वेपामेव जीजाना, नित्यमेव सुख प्रियम् ॥ १६२ ॥

अर्थ—एवी रीते हे युधिष्ठिर! सघला प्राणीओ-  
प्रते पोताना आत्मा सरखु थवु, केमके, सघला जी-  
वोने हमेशां सुख प्यारुं ठे ॥ १६२ ॥

पशुश्च ये तु हिसति, गृध्रा ब्रह्मेषु मानवा ॥

ते मृत्या नरकं याति, नृशसा पापकर्मणि ॥ १६३ ॥

अर्थ—द्रव्यनां लालचु थइने जे माणसो पशुनी  
हिंसा करे ठे, ते माणसो पापकार्यमां निर्दय थया थ-  
का मृत्यु पामीने नरके जाय ठे. ॥ १६३ ॥

यादृशी वेदना तीव्रा, स्वशरीरे युधिष्ठिर ॥

तादृशी सर्वजीजाना, सर्वेपा सुखमिञ्चताम् ॥ १६४ ॥

अर्थ—बली हे युधिष्ठिर! पोताना शरीरमां जेवी  
तीव्र वेदना थाय ठे, तेवीज सघला सुख श्छता जी-  
वोने पण थाय ठे ॥ १६४ ॥

सर्वजीवदयार्थं तु, ये न हिसति प्राणिन ॥

निश्चिता धर्मसंयुक्ता-स्तो नरा स्वर्गगामिन ॥ १६५ ॥

अर्थ-सर्व जीवोनी दया माटे जे माणसो प्राणी-  
ओसी हिंसा करता नथी, एवा धर्मीष्ट माणसो ग्व  
रेखर स्वर्गमा गमन करेते ॥ १६५ ॥

पृथ्वी रत्नसपूर्णा, ब्राह्मणेन्य प्रयञ्जति ॥

एकस्य जीवित दद्यात्, फलेन न सम जयेत् ॥ १६६ ॥

अर्थ-रत्नोथी जरेली पृथ्वी ब्राह्मणो प्रते आपे,  
अने एक जीवने जीवितदान आपे,ते घन्नेनु तुल्य फल  
नथी, अर्थात् जीवितदान सर्वथी श्रेष्ठ ठे ॥ १६६ ॥

जरूचीप सरल तु, दद्यान्मेरु सकाचन ॥

यस्य जीवदया नास्ति, तस्य सर्वं निरर्थकम् ॥ १६७ ॥

अर्थ-रत्नसहित जंबूद्वीप, तथा सुवर्ण सहित  
मेरु पर्वतनु दान आपे, पण जेने जीवदया नथी, तेनु  
ते सघल्लु निरर्थकज ठे ॥ १६७ ॥

अस्मिन् वसति रजश्च, मासे वसति केशव ॥

शुक्रे प्रसति ब्रह्मा च, तस्मान्मास न जह्येत् ॥ १६८ ॥

अर्थ-हारुकामां शीव, मासमां त्रिणु, तथा शुक्रमा  
ब्रह्मा वसे ठे, माटे मासजक्षण करवु नहीं ॥ १६८ ॥

तित्रसर्पपमात्र तु, माम यो जह्येन्नर ॥

स नियमात्तरक याति, यात्रचहदिजाकरौ ॥ १६९ ॥

अर्थ—बली हे युधिष्ठिर ! जे माणस एक तल अथवा सर्पवना दाणा जेटळु पण मास जक्षण करे ठे, ते माणस खरेखर चद्र अने सूर्य ज्यां सुधि ठे, त्या सुधि नरके जाय ठे ॥ १६९ ॥

अयाचकसुशीक्षाना, दीक्षिताना तपस्विना ॥

अहिसकाना मुक्ताना, कुरु वृत्ति युधिष्ठिर ॥ १७० ॥

अर्थ—बली हे युधिष्ठिर, याचना नही करनारा, उत्तम आचरणवाला, दीक्षित, तपस्वी, हिंसा नहीं करनार, तथा परिग्रहने ठोरुनारा एवा माणसोतुं तुं पोषण कर ? ॥ १७० ॥

निष्काचनस्य युक्तस्य, दीक्षितस्य तपस्विन ॥

ब्रह्मयुक्तस्य कौतेय, नैष्ठिकप्रतचारिण ॥ १७१ ॥

अर्थ—द्रव्य नहीं राखनार, योग्य, दीक्षित, तपस्वी, ब्रह्मचारी, तथा जिज्ञा मागी आजीविका चलावना-रनु पण, हे युधिष्ठिर ! तु पोषण कर ? ॥ १७१ ॥

अदीक्षितो ह्यमुक्तश्च, नैष्ठ्यं श्रुजति यो विज ॥

आत्मानं नरकं नेति, दातारं च न संशय ॥ १७२ ॥

अर्थ—दीक्षा विनानो, तथा परिग्रहधारी एवो जे ब्राह्मण जीव मागीने जोजन करे ठे, ते पोताने अने दातारने पण नरकमां लेइ जाय ठे, तेमा संशय नथी

व्रतिनो ब्राह्मणा ज्ञेया, दत्रिया शस्त्रपाणिन ॥

कृपिकर्मकरा वैश्या, शूद्रा प्रेषणकारका ॥ १७३ ॥



अर्थ—बली हे युधिष्ठिर ! जेश्रो व्रतधारी होय, ते-  
थोने ब्राह्मण जाणवा, जेश्रो हाथमा हथियार धा-  
रण करे, तेथोने क्षत्रीय जाणवा, तथा जेश्रो खेतीनु  
काम करे, तेथोने वैश्य जाणवा, तथा जेश्रो चाकरी  
करे तेथोने शुद्र जाणवा ॥ १७३ ॥

ब्रह्मचर्यतपोयुक्ता, समपापाणकाचना ॥

सर्वभूतदयायुक्ता, ब्राह्मणा सर्वजातिषु ॥ १७४ ॥

अर्थ—ब्रह्मचर्य तथा तपे करीने युक्त, तथा तुल्य ठे  
पापाण थने सुवर्ण जेमने एवा, तथा सर्व प्राणीथो  
प्रते दयावाला एवा, सर्व जातिथोमा ब्रह्माणो होय ठे  
शूरा वीराश्च विक्रान्ता, बह्वारजपरिग्रहा ॥

सग्रामकरणोत्सुकाः, हृत्रिया सर्वजातिषु ॥ १७५ ॥

अर्थ—शुरवीर, विक्राल, घणा थारज परिग्रहवा-  
ला तथा रणसधाममा उत्सुक एवा, सर्व जातिथोमा  
क्षत्रिथो होय ठे ॥ १७५ ॥

पण्डिता कुलजा दक्षा कलाकौशलजीविन ॥

कृषिकर्मकराश्चैन, वैश्यास्ते सर्वजातिषु ॥ १७६ ॥

अर्थ—पण्डित, कुलिन, काह्या, कलाना प्रबलथी थ्या-  
जीविका चलावनारा, तथा खेती करनारा एवा, सर्व  
जातिथोमा वैश्यो पण होय ठे ॥ १७६ ॥

के ब्राह्मणगुणा प्रोक्ता, कि तद्ब्राह्मण लक्षणम् ॥

एतदिदमि विज्ञातु, तन्नान् दिशतु मम ॥ १७७ ॥

अर्थ—हवे युधिष्ठिर पूठे ठे के, हे जगवन्! ब्राह्मणोनां गुणो कया कहेला ठे ? तथा तेना ब्रह्मणु लक्षण शुठे ? ते जाणवाने हु इहु तु, माटे ते आप वतावो ? ॥ १७७ ॥

यन्मा पृथसि कांतेय, ब्राह्मणाना तु लक्षणम् ॥

शृणु तत्कथयामि ते, जनाना हितकाम्यया ॥ १७८ ॥

अर्थ—हवे त्यारे जगवान कहे ठे के, हे कुताना पुत्र युधिष्ठिर ! जे तु मने ब्राह्मणोनु लक्षण पूठे ठे ते हुं तने लोकोना हितनी इच्छाशी कहुं तुं, ते साजल ? ॥ १७८ ॥

काल्यादिजिर्गुणैर्युक्तो, न्यस्तदग्ने निरामिष ॥

सर्वज्ञतेषु च दया, प्रोक्त ब्राह्मणलक्षणम् ॥ १७९ ॥

देवनागमनुष्येषु, तिर्यग्योनिगतेषु च ॥

मैथुन ये न सेवते, चतुर्थं ब्रह्मलक्षणम् ॥ १८० ॥

त्यक्त्वा कुटुम्बास तु, निर्ममो नि परिग्रह ॥

सदा चरति नि मग, पचम ब्रह्मलक्षणम् ॥ १८१ ॥

पचज्जलणसपूर्णं, इदृशो यो जनेद्बिज ॥

महात ब्राह्मण मन्ये, शेषा शृजा युधिष्ठिर ॥ १८२ ॥

अर्थ—क्षमा आदिक गुणोवालो, दडनीतिने दूर करनारो, मास जक्षण नहीं करनारो, तथा सर्व प्राणी श्रोप्रते दयावालो, देव, नाग, मनुष्य तथा तिर्यचना जवमां पण मैथुन नहीं सेवनारो, तथा कुटुम्बना वासने तजीने, ममता तथा परिग्रह रहित तथा कोशनां सग विनां विहार करनारो, एवी रीतना पांच लक्षणो

॥ ह्यणना जाणवा, एवी रीतना पाचे लक्षणोथी जे युक्त  
 होय, तेने हे युधिष्ठिर ! हु महान ब्राह्मण मानु वु, अने  
 थोथी जेथो उलटी रीतना, तेथोने हु शुद्ध मानु वुं-

रक्तीजवति तोयानि, अन्नानि पिशितानि च ॥

रात्रौ चोजनसक्तस्य, प्रासेन मासजक्षणम् ॥ १७३ ॥

अर्थ—वली हे युधिष्ठिर ! रात्रिने विषे पाणी रुधिर  
 तरखा होय ठे, तथा अन्न माससमान होय ठे, माटे  
 रात्रिचोजन करनारने मासजक्षणनु पाप लागे ठे

शुश्रुषणपरा मूर्खा, नीचकर्मोपजीविन ॥

सदा सर्वकलाहीना, शूत्रास्ते सर्वजातिषु ॥ १७४ ॥

अर्थ—चाकरी करनारा, मूर्ख, नीच कार्य करी आजी-  
 विका चलावनारा, तथा हमेशा सर्व कलाथोथी हीन  
 एवा शुद्धो पण सर्व जातिओमा होय ठे ॥ १७४ ॥

क्रूरश्चक्रुश्च पापाश्च, परद्रव्यापहारिण ॥

निर्दया सर्वज्ञतेषु, चान्द्रास्तु सर्वजातिषु ॥ १७५ ॥

अर्थ—क्रूर, जयकर, पापी, परनु ड्रव्य हरनारा सर्व  
 प्राणीओप्रते निर्दय, एवा चान्द्रो पण सर्व जाति-  
 ओमा होय ठे ॥ १७५ ॥

येषा जपस्तप शौच, द्वातिर्मुक्तिर्दयादम ॥

तै रायु ह्ये वत्स ब्रह्मस्थान त्रिधीयते ॥ १७६ ॥

अर्थ—बली द्वे वत्स । जेथोने जप, तप, पवित्रता, कृपा, निष्परिग्रहपण, दया, तथा इन्द्रियोनु दमवापणुं होय ठे, तेथो आयुष्यनो क्षय होते ठे मोक्षमां जाय ठे ॥ १७६ ॥

ज्ञानशुद्धा क्रियाशुद्धा शीलशुद्धाश्च ये विजा ॥

पद्मकर्मनिरताश्चैव, विजा पदप्रज्ञायका ॥ १७७ ॥

अर्थ—जे ब्राह्मणो ज्ञानधी, क्रियाधी तथा शीलधी शुरु थपला ठे, तथा जेथो खटकर्ममा रक्त ठे, ते ब्रह्मणो पोताना पदनी प्रज्ञावना करनारा ठे ॥ १७७ ॥

तप शीलसमायुक्त, ब्रह्मचर्यदृढव्रतम् ॥

निर्लोच निर्मल चैव, अतिथि जानीतेदृशम् ॥ १७८ ॥

अर्थ—तप, शील अने समतावाला, तथा ब्रह्मचर्य रूपी दृढ व्रतवाला, निर्लोची, अने ममता विनाना, एवा माणसने अतिथि जाणवो ॥ १७८ ॥

स्नानोपज्ञो गरहित, पूजाखकारप्रजितम् ॥

उग्रतप शमायुक्त मतिथि जानीतेदृशम् ॥ १७९ ॥

अर्थ—स्नान अने उपज्ञो विनाना, पूजा अने आज्ञापणे करीने रहित, उग्र तपवाला, तथा समतावाला, एवा माणसने पण अतिथि जाणवो ॥ १७९ ॥

हिरण्ये रत्नपुजे च, धनधान्ये तथैव च ॥

अतिथि त विजानीया यस्य लोचो न विद्यते ॥ १८० ॥

अर्थ—सुवर्ण, रत्नो समूह, धन तथा धान्यमां  
जेने लोचन होतो नथी, तेने पण अतिथि जाणवो १९०  
तिथिपर्वोत्सवा सर्वे, त्यक्ता येन महात्मना ॥

अतिथिं त विजानीया द्वेष मन्यागत विदु ॥ १९१ ॥

अर्थ—तिथि, पर्व अने सर्व उत्सवो, जे महात्माए  
तजेला ठे, तेने अतिथि जाणवो, अने वीजाने तो  
परोणो जाणवो ॥ १९१ ॥

यदा नु कुरते पाप, सर्वभूतेषु दारुणम् ॥

कर्मणा मनसा वाचा, ब्रह्म सपद्यते तदा ॥ १९२ ॥

अर्थ—ज्यारे सर्व प्राणीओ प्रते, मन, वचन अने  
कायाथी जयकर पाप करवामां आवतु नथी, त्यारे  
ब्रह्म उत्पन्न थाय ठे ॥ १९२ ॥

यदा सर्वं परित्यज्य, नि सगो नि परिग्रह ॥

निश्चितश्चचरेऋते ब्रह्म सपद्यते तदा ॥ १९३ ॥

अर्थ—ज्यारे सर्व तजीने, सग रहित, तथा परि-  
ग्रह रहित थयो थको, निश्चित थइने प्राणी धर्मने  
आचरे, त्यारे ब्रह्म उत्पन्न थाय ठे ॥ १९३ ॥

जीवारु मधु छुष्ट च, म्बेद्योच्छिष्ट न सशय ॥

वर्जनीय सदा विप्रं परल्लोकाज्जिह्विति ॥ १९४ ॥

अर्थ—जीवना इमावाबु, तथा महादुष्ट, एवु मध  
खरेखर म्बेद्योथी एतु थएबु जाणवु, माटे परल्लोकनां  
अर्थी एवा ब्राह्मणोए तेनो हमेशा त्याग करवो ॥ १९४ ॥

यो ददाति मधु श्राद्धे, मोहितो धर्मखिप्सया ॥  
स याति नरकं घोरं, सादकै सह लंपटं ॥ १९५ ॥

अर्थ—जे माणस मोहित थयो थको, धर्मनी इ-  
च्छाथी श्राद्धमा मधनु दान थापे ठे, ते लंपट एवा ला-  
नाराथो सहित जयकर नरकमा जाय ठे ॥ १९५ ॥

मेदमूत्रपुरीषाद्यं, रसाद्यंविधृत मधु ॥  
अदिलामुखश्रापे, रजस्य ब्राह्मणैर्मधु ॥ १९६ ॥

अर्थ—चरवी, मूत्र, तथा विष्टा आदिकना रसथी  
मेलवेलु तथा मारोना मुखथी करेलु एवु मध ब्रा-  
ह्मणोण जक्षण करवु नहीं ॥ १९६ ॥

नीक्षिवा वापयेद्यस्तु, मूलकं जक्षयेत्तु य ॥  
न तस्य नरकोत्तारो, यात्रच्चन्द्रदिवाकरा ॥ १९७ ॥

अर्थ—जे माणस गली वावे ठे, तथा कदमूलनुं  
जक्षण करे ठे, ते माणस चंद्रसूर्यनी स्थिति सुधि  
पण नरकथी निकली शकतो नथी ॥ १९७ ॥

वरं शुक्रं पुत्रमास, ननु मूलकजक्षम् ॥  
जक्षणान्नरकं गच्छेद्, वर्जनात्स्वर्गमाप्नुयात् ॥ १९८ ॥

अर्थ—हे सुधिष्टर ॥ पुत्रनु मांस खावु सारु, पण  
कदमूलनु जक्षण करवु नहीं, केमके, कदमूलना ज-  
क्षणथी नरकमा जवाय, अने तेना त्यागथी स्वर्गमां  
जवाय ठे ॥ १९८ ॥

यस्मिन् गृहे ध्रुव कद मूलम् पच्यते जनै ॥

श्मशानतुल्य तद्देशम्, पितृभिः परित्रितम् ॥ १९९ ॥

अर्थ—जे घरमां माणसो कदमूल पकावे ठे, ते घरने स्मशान सरसु जाणवु, अने तेवु घर पितृश्री श्री पण वर्जाएवु होय ठे ॥ १९९ ॥

यस्तु वृताककालिग तलकालावुजहक

अतकाले स मूढात्मा, नरकगो युधिष्ठिर ॥ २०० ॥

अर्थ—जे माणस वैताक (रीगणा) कालिग, तल, अने कालावुने जहाण करनारो ठे, ते मूढ माणस, हे युधिष्ठिर। अंतकाले नरकमा गमन करे ठे ॥ २०० ॥

इत्याचार्य श्री जयशेखरसूरिणोद्भूतो धर्म

सर्वम्वाधिकार समाप्त

श्री जिनाय नम ।

## कस्तूरी प्रकरणम् । २१६

( कर्ता श्री हेमचन्द्रायण )

कस्तूरीप्रकर कृपाकमलदग्गल्लस्थले पद्मपद-  
जात मातमगेजमुदररमे खड्ग स्मरधमने ॥

कल्याणद्वमसेचने घनचयो लाप्रण्यपष्टयबुर ।

वंशाना निचय पुनातु शुभन श्रीनाजिमूनोर्खसन् ॥ १ ॥

अर्थ—दयारूपी कमललोचनीना (स्त्रीना) गालपर  
कस्तूरिना समूह सरखो, सुखरूपी कमलना मुदर र-  
सप्रते ब्रमरोना समूह तुल्य, कामदेवनो नाश करवा-  
मा खड्ग समान, कल्याणरूपी वृद्धने सींचवामा वर-  
सादना समूह सरखो, तथा लावण्यरूपी वेदकीना  
अकुग सरखो, एवो श्री कृपजदेव प्रभुनो उलसाय-  
मान यतो केशोनो समूह जगतने पवित्र करो ?  
( प्रभुए दीक्षा लेती वेलाए लोच करतां थकां इं-  
जनी प्रेरणार्थी जे केशो वाकी रहेवा दीधा हता,  
तेनी अपेक्षार्थी कविनी था उत्प्रेक्षा ठे, ) ॥ १ ॥

वाग्देवीरचित्तित्तपतय कारुण्यपत्थापण-

प्रतिष्ठाप्रसिता प्रसुत्तिपदवस्ते सत् सतो भयि ॥



श्रामोद सरसीरुहामित्र मरुत्पूरं प्रथा प्राप्यते ।

वाचा विश्वमन्त्रासु यैर्जरुनुवामायुधमङ्गिगुण ॥ २ ॥

अर्थ—सरस्वती देवीना वरदानरूपी धनथी कुवेर सरखा थएला, तथा दयारूपी करियाणानी डुकान चलाववाने प्रविण थएला, एवा सत पुरुषो माराप्रते प्रसन्न आशयवाला थारु ? केमके, जलथी उत्पन्न थता कमलोनी सुगधि जगतमा जेम उलसायमान थता पवनना समूहोथी फेलावो पामे ठे, तेम ते आनदितसत पुरुषोथी मूर्खोनो पण गुण जगतमा फेलावो पामे ठे

अमृतमन्धिसता च दृशो सता ।

वमति चेतसि निश्चय एष न ॥

विबुधता पुरुषोत्तमतापि यत् ।

स्थितिमुपति नरे तदूरीकृते ॥ ३ ॥

अर्थ—अमार्गे एवो निश्चय ठे के, सत पुरुषोनी दृष्टिमा अमृत रहेलु ठे, तथा तेमना मनमा लक्ष्मी रहेली ठे, केमके तेनी समीप रहेवाथी माणममा पकितपणु ( देवपणु ) तथा पुरुषोत्तमपणु ( श्रीकृष्ण पणु ) स्थितिने पामे ठे ॥ ३ ॥

सौरन्यादिप्रसूनमोदनमिव स्वादप्रसादादिह ।

स्निग्धत्वादिप्रगोरसपिकयुक्तसोत्कंठकटादिव ॥

वाजिराजि ? आदिप्रौपधरसो / उर्व्याधिरोधादिव ।

श्लाघामेति ज ? - नितरा / पुण्यप्रज्ञावोदयात् ॥ ४ ॥

अर्थ—पुष्प जेम सुंगधिथी, जात जेम स्वादिष्टप  
णार्थी, गोरस जेम लिग्धपणार्थी, (चिकासथी) कोयल  
जेम मबुर कठथी, अश्वनी श्रेणी जेम वेगथी, तथा  
श्रौपधिरम जेम दुष्ट रोगना नागथी प्रशसाने पामे  
ठे, तेम आ जगतमा माणम पण पुण्य प्रतावना उ  
दयथी मनुष्योमा प्रगसा पामे ठे ॥ ४ ॥

तोर्यरेव पयोमुचा जत्रति यन्नीरंधनीर मर ।  
पार्दरेव नजोमणेर्जत्रति यल्लोक मदालोकमान् ॥  
तैल्लरेव जत्रेदजगुरतरज्योतिर्मणि मक्षन ।  
पुण्यरेव जत्रेदजगत्रिजत्रज्जाजिष्णुरात्मान तत् ॥ ५ ॥

अर्थ—जेम वरसादना पाणीउंथीज तलाव सपूर्ण  
पाणीवाहुं थाय ठे, तथा सूर्यना किरणोथीज जेम  
आ जगत् हमेशा प्रकाशित थाय ठे, अने तैलथी-  
ज जेम दीपक घरप्रते अखरु कातिथी देदीप्यमान  
थाय ठे, तेम आ जगतमा आत्मा पण पुण्योथीज  
अजग वैजवथी शोचनिक थाय ठे ॥ ५ ॥

न बहुधर्मविनिमित्तिकर्मठे ।  
मनुजजन्मनि ये सुकृत कृतम् ॥  
गृहमुपेयुपि तेर न्ने स्थित ।  
त्रिदशशास्त्रिणि प्राणितदायिनि ॥ ६ ॥

अर्थ—बहु धर्म करवामाटे योग्य, एवो (आ)  
मनुष्य जन्म पामीने पण जेउंए सुकृत कार्य नथी

कर्युं, तेऽए वांठित अर्थ आपनार एवु कल्पवृक्ष पोताने  
घेर प्राप्त थया ठता पण निर्धन रहेवा जेवु कर्युं ठे ॥६॥

जांग्ये निर्जरराजजोज्यमधुरे हावाहलोऽपि तै  
हुंग्ये म्निग्धरसे रसेन निदधे तराखनाख जलम् ॥  
क्षिप्तोच्चै शिगिरे च चदनरसे तै रात्मगुप्ता जर्मे  
यर्धमेऽनप्रधानता प्रदिधे स्वर्गापवर्गप्रदे ॥ ७ ॥

अर्थ—जे माणसे स्वर्ग अने मोक्ष देनारा एवा  
धर्ममा प्रमाद करेलो ठे, तेऽए ( खरेखर ) इन्द्रने  
जमवा लायक एवा मधुर जोजनमा केर नार्यु ठे,  
अने म्निग्ध रसवाला इंधमा स्वादनी इष्टार्थी हर-  
ताखनु पाणी रेड्यु ठे, तथा ते मूत्रोए ठमा चद-  
नरसमां उचे प्रकारे कांचनु फल नाखेलु ठे ॥ ७ ॥

माल स्वर्गमदा त्रिनत्ति ममिधे चूर्णाय चितामणि ।  
यहो प्रक्षिपति क्षिणोति तरणीमेकस्य शको कृते ॥  
दत्ते देवगर्भी म गर्दन्तप्रभूग्राहाय गर्दागृह ।  
य समारसुग्याय सूत्रितशिव धर्म पुमानुज्जति ॥ ८ ॥

अर्थ—जे निदवायोग्य पुरुष आ ससारसुखमाटे  
मोक्ष आपनार धर्मने तजीदे ठे, ते पुरुष (बलतणना)  
खाकनामाटे कल्पवृक्षाने ठेदे ठे, (थोमा) चुनामाटे

१ “वांच” एखे वनमा वाळोरना आकारनु थतु फल,  
जेनो स्पर्श करपाथी शरीरमा अत्यंत वाराजुज (सरज) थाय ठ-

चितामणि रत्नने अग्निमा नाखे ठे, एक सीलामाटे  
होनीने फोनी नांखे ठे, तथा गधेडी लेवा माटे का-  
मधेनुने आपी दे ठे ॥ ८ ॥

चूयाम प्रमदाकटाकृत्रिशिखरिञ्जा स्मरासगिन ।  
सत्येके च सहस्रश श्रितधना मन्त्रोच्चलोच्चाकुत्रा ॥  
एतदाननिदानमत्र सुकृत मत्या सृजति त्रिधा ।  
येऽत्यर्थं पुरुषार्थमन्यमनिश ते केऽप्यनद्वयेतरा ॥ ९ ॥

अर्थ—(आ जगतमा) युवान स्त्रीर्त्तनां कटाक्षोरु-  
पी वाणोथी विधाएला, अने काममा (स्पर्शेंद्रियना  
विषयमा) आसक्त थएला घणा माणसो ठे, तेम दोऊ  
सहित लोचमा आकुल थएला पण हजारोमाणसो  
ठे पण ते वनेनो ( काम अने धननु ) कारणचूत  
“धर्म” ठे, एवु जाणीने जे माणसो ( मन, वचन  
अने कायार्थी ) ते धर्म नामना पुरुषार्थने हमेगा  
सेवे ठे, एवा तो विरलाज होय ठे ॥ ९ ॥

मणिरिव रज पुजे कुजे प्रनेचरगह्वरे ।  
पुरमिय तरुघायानद्यामरावित्र निस्तरौ ॥  
जन्मिकुसुमारामे ग्रामे सजेत्र वचस्त्रिना ।  
कश्चमपि जत्रे व्हेशानेशे मति शुचिराप्यते ॥ १० ॥

अर्थ—धूत्रिना ढगलामा जेम मणि, वनवासी प्राणी  
र्त्तनी जयकर वनेला कुजमा ( जाडीमा ) जेम नगर,

वृद्धविनाना मारवाड देशमां जेम वृद्धनी घाटी ठाया,  
तथा मूर्खाश्रुपी पुष्पोने उत्पन्न करवामा वगीचा  
सरया गामरामा जेम विद्वानोनी सजा दुर्लभ ठे,  
तेम क्लेशना आवेशरूप एवा आ ससारमां (प्राणी  
ने ) शुद्ध बुद्धि पण दुर्लभ ठे ॥ १० ॥

हवे आ प्रकरणनु द्वारकाव्य कहे ठे

दानाय सुकृत कपायविजय पूजा च पित्रोर्गुरो  
देवाना विनय नय पिशुनतात्याग मता सगतिम् ॥  
हृद्युद्धि व्यमनहृतीद्विदयमाऽहिसादिधर्मान् गुणान् ॥  
रराग्य च विदग्धता च बुर चेतोक्तु विमुक्ति मन ॥ ११ ॥

अर्थ—हे प्राणी! जो मोक्षसुख योगववानु तारु मन  
होय तो दानादिक पुण्यना कार्य, कपायोनी जय, मात  
पिता, गुरु अने देवनी पूजा, विनय, न्याय, चुगळीनो  
त्याग, उत्तम माणसोनी सोवत, हृदयनी शुद्धता, (साते)  
व्यसनोनी त्याग, इन्द्रिजने दमवापण, दयादिक धर्म,  
गुणो, वैराग्य तथा चतुराशने तु धारण कर ? ॥११॥

तेश्रोमाथी प्रथम हवे दानप्रक्रम कहे ठे

रथातिं पुष्यति कौमुदीमिव शशी सूते च पृतात्मता  
मुद्योत शुक्तिमानियाति सुम्ब तोय तन्मित्रानिव ॥  
घातुर्य च चिन्तति याननय सौजाग्यशौचामिव  
क्षेत्रे नीजमियानघे विनिहित पात्रे वन धीवर्न ॥ १२ ॥

अर्थ—बुद्धिरूपी धनत्राता माणसोए उत्तम क्षेत्रमा  
वात्रेखां वीजनीपेठे पवित्र सुपात्रप्रतेदीधेबुं दान, चंद्र  
जेम चादनीने तेम कीर्तिने पोपे ठे, सूर्य जेम उद्योतने  
तेम पवित्र आत्मपणाने उत्पन्न करे ठे, रसाद् जेम पा-  
णीने तेम सुखने आपे ठे, तथा यौवनवय जेम सौ-  
भाग्यनी शोचाने तेम चतुराङ्गने एकठी करे ठे ॥१२॥

ये शील परिशीलयति क्षिति ते सति ज्यस्तग  
स्तप्यते ननु ये मुहुन्तरतपस्ते सति चानेकश ॥  
ते सति प्रचुराश्च जामुरतर ये ज्ञानमात्रिभ्रते ।  
ये दान प्रितरति जूरि करिवत्ते केचिदेवाग्रनां ॥ १३ ॥

अर्थ—जेठ मनोहर शीलने पाले ठे, तेवा आ पृथ्वी-  
मा घणाले ठे, तथा जेठ आकरा तपने तपे ठे, तेवाओ  
पण अनेक ठे, तेम जेठ देदीप्यमान जायने धारण करे  
ठे, तेवाले पण घणा ठे, पण जेठ हाथीनी पेठे घणु  
दान(मद)आपे ठे, तेवाले तो विरलाज होय ठे ॥१३॥

सजातात्मजमज्ञादिप्र महादेवीप्रमादादिप्र ।  
प्राप्तैश्वर्यपदादिप्र स्थिरतरश्चीजोगयोगादिप्र ॥  
खब्धस्वर्णरसायनादिप्र सदा सगादिप्र प्रेयमा ।  
देहीत्यङ्गयो श्रुतेरपिज्ञेयहाताप्रदालानन ॥ १४ ॥

अर्थ—दातर माणस “देही” (मने आपो ?) एवी  
रीतना ( याच कना ) वे अङ्गरो साजलगाथी पण जाणे

(घर) पुत्रनो जन्म थयो होय नहीं, जेम महा देवीनो प्रसाद मळ्यो होय नहीं, जेम ऐश्वर्यपदवी मळी होय नहीं, जेम स्थिर लक्ष्मीना जोगनो योग मळ्यो होय नहीं, जेम सुवर्णरसायन मळ्यु होय नहीं, तथा जेम बहालाशो नो मेलाप थयो होय नहीं, तेम ते प्रफुल्लित मुखवालो थाय ठे ॥ १४ ॥

धैर्यं धाम्नु दूरत प्रविशतु ध्यानं च धूमध्वजे ।

शौर्यं जर्जरता प्रयातु पटुता द्रुष्टाटवी टीकताम् ॥

रूपं द्रूपमुपेतु मर्धतु मतिर्विशोऽपि विध्वंसता ।

त्यागस्तिष्ठतु येन सर्वमचिरात्प्राहुरर्जवेदपथसत् ॥ १५ ॥

अर्थ—धीरजता जले डूर जाठ? ध्यान जले अग्निमा पमो? शूरता जले जर्जरित याथो? चतुराड जले जयकर जगला चाली जाठ? रूप जले कुवामा जड पमो? मति जले मूर्ठा पामो? वश जले नाश पामो? पण फक्त एक “दान” रहो? के जे दानथी अठता एवा पण सर्व पदार्थो तुरत प्रगट थाय ठे. ॥ १५ ॥

काव्यं काव्यकलाकलापकुशलान् गीतं च गीतप्रियान् ।

स्मेराढी स्मरपस्मरार्तिविधुरान् वार्ता च वार्तारतान् ॥

चानुय च चिर विचारचतुरास्मृप्रोति दान पुन ।

सर्वे न्योऽप्यधिक जगति युगपत्प्रीणाति यत्त्रिण्यपि ॥ १६ ॥

अर्थ—काव्यनी कलाना समूहमा कुशल थएलाउने काव्य खुशी करे ठे, गीत जेउने प्रिय ठे, तैजाउने गीत

खुशी करे ठे, कामदेवना तापनी पीनाथी व्याकुल  
 थण्णाथोने प्रफुल्लित लोचनवाली स्त्री खुशी करे ठे,  
 कथाना रसीआथोने कथा खुशी करे ठे, विचारवत  
 माणसोने चतुराई खुशी करे ठे, पण ते सर्वथी दान  
 अधिक ठे, केमके, ते एकीज बखते त्रणे जगतने  
 पण खुशी करे ठे ॥ १६ ॥

हवे शीलप्रक्रम कहे ठे

शीलादेव जत्रति मानमरत्मपत्तय पत्तय ।  
 शीलादेव जुत्रि जत्रति शत्राचृद्विस्फुर्तय कीर्तय ॥  
 शीलादेव पतति पादपुरत सञ्जकय शक्तय ।  
 शीलादेव पुनति पाणिपुटक मर्षकय निरुजय ॥ १७ ॥

अर्थ-शीलथीज मनुष्य तथा देवसवत्रिनी सप-  
 दाळ तथा चाकरो विगेरे मळे ठे, तेम शीलथीज चद्र  
 सरसी स्फुरायमान कीर्तिळ पृथ्वीमां फेलाय ठे, वली  
 शीलथीज सर्व उत्तम शक्तिळ आधीने पगे पडे ठे,  
 तेम शीलथीज सवली रुद्धि अने सिद्धिळ हस्तपुटने  
 पवित्र करे ठे, ( अर्थात् हाथमां आवे ठे ) ॥ १७ ॥

वाखन्य त्रितनोति यज्ञति यश पुष्णाति पुष्पप्रथा ।  
 सादर्य सजति प्रजा प्रथयति श्रेय श्रिय सिचति ॥  
 प्रीणाति प्रनुता धिनोति च धृति सूतं सुरांक स्थिति ।  
 कंठय सरनात्करोति शृजग शीज नृणा शीलितम् ॥ १८ ॥



अर्थ—सारी रीते पावेबु शील माणसोना प्रेमने  
विस्तारे ठे, यशने आपे ठे, पवित्र कीर्तिने पुष्ट करे  
ठे, सुदरता उत्पन्न करे ठे, कातिने फेजावे ठे, क-  
व्याणनी शोचाने सिचे ठे, ऐश्वर्यपणु आपे ठे, वै-  
र्यताने आपे ठे, देवलोकनी स्थिति उत्पन्न करे ठे  
तथा केवलज्ञानने तो हाथोहाथ आपे ठे ॥ १७ ॥

ताम्रध्यालवत्त च केसरिकुल ताम्रकुधा व्याकुल  
ताम्रगोमिजय जल च जलधेस्तावद्भूप जीपणम् ॥

तावच्चामयचौग्वधरणजीस्तावद्भवसत्यग्रयो ।

यावन्नैति जगज्जयी हृदि महाजू श्री शीलमन्नाधिप ॥ १८ ॥

अर्थ—जगतने पण जीतनारो एवो शीलरूपी महान  
मन्त्रराज ज्यासुधी हृदयमा आव्यो नथी, त्यासुधीज  
(मदोन्मत्त) हाथीनो, क्रोधातुर केसरी सिंहनो, सर्पनो,  
समुद्रना पाणीनो, रोगनो, चोरनो, वधननो, रणसग्राम  
नो तथा अग्निनो जय (प्राणीश्रोने) होय ठे ॥ १८ ॥

न्यस्ता तेन कुलप्रशस्तिरमला शीतद्युतेमरुजे

प्राम्यस्तेन नजस्वता सहचरश्चक्रे स्वकीर्तेर्जर

तेनालेसि निजाजिघानमनघ पित्रे च रोचिष्मत

काम कामितकामकामकलश य शीलमासेवते ॥ १९ ॥

अर्थ—इच्छित अर्थने देवामां कामकुञ्ज सरखुंशील जे  
माणसे सारी रीते सेवेबु ठे, तेणे पोताता कुलनी निर्मल

प्रशस्ति ( प्रशसापत्रं ) चद्रमंरुलमां दाखल करेली ठे  
 तथा तेणे पोतानी कीर्तिना समूहने वायुनो सोवती  
 करीने फेलातो कयों ठे, तेम तेणे पोतानु निर्मल नाम  
 सूर्यना विवर्मां लख्यु ठे, एम जाणवु ॥ २० ॥

न स्वर्ज्ञोऽयमिव त्यजति ऋदनात् म्वयोंपितस्तद्यशो ।

नैमोऽङ्गति तदह्निरेणुममरा मौलेश्च मालामिव ॥

सिद्धध्यानमिरोद्धति हृदये तन्नाम योगीश्वरा ।

शीखालकृत्तिमगसगतिमतीं ये जतय कुर्वते ॥ २१ ॥

अर्थ—जे प्राणीओ शीलरूपी आचूपणने अगपर  
 धारण करे ठे, तेना यशने देवागनाओ दिव्य जो-  
 जननी पेठे पोताना मुखशी तजतीज नथी, तथा तेना  
 चरणनी रजने देवो मुकुटनी मालानी पेठे तजताज  
 नथी, तेम तेना नामने योगीश्वरो सिद्धना ध्याननी  
 पेठे हृदयमा धारण करे ठे ॥ २१ ॥

हवे तपप्ररुम कहे ठे

नो ज्ञ्याञ्ज्वलनैर्विना रमन्तीपाको यथा कहिचित् ।

सजायेत यथा विना मृडुमृदा पिकु न कुञ्ज क्वचित् ॥

तनूना निचयादिना मुप्रमन न स्वाद्यथा जातुचि

त्रोत्पद्येत विनो कटेन तपमा नाशस्तथा कर्मणाम् ॥ २२ ॥

अर्थ—जेम अग्निविना रसोश्नो पाक कोइ पण वखते  
 यतो नथी, तथा जेम कोमल माटीना पिड विना कोइ

पण समये कुञ्ज वनी शकतो नथी, अने (सूत्रना)  
तांतणाथ्योनां समूहविना जेम कोड पण वेलाए उ-  
त्तम उर वनी शकतु नथी, तेम आकरा तप विना  
कमोनो नाश पण थड शकतो नथी ॥ २२ ॥

कुशलकमलमूर शीलसाळाबुपुर ।

विषयविहगपाग क्लेशखीडुताशम् ॥

मदनमुखपिधान स्वर्गमागकयान ।

कुरत शिष्यनिदान सत्तपोनिनिदानम् ॥ २३ ॥

अर्थ—हे प्राणीजं! कुशलरूपी कमलने (विकस्त्र  
करवामा) सूर्य सरखो, शीलरूपी वृद्धने (वधारवामा)  
पाणीना समूह सरखो, विषयरूपी पक्षिने (पकर-  
वामा) पाशसरखो, क्लेशरूपी वेळडीने (वालवामा)  
अग्नि सरखो, कामदेवना मुखने आठादित करनारो,  
स्वर्गमागं (जवामा) वाहनसरखो, तथा मोक्षना  
कारणरूप एवो तप तमो नियाणा रहित करो? ॥२३॥

मार्ग मनोरममपास्य यथाजिलाप-

महाविषेषु विचरत्सु तप सृष्टि स्यात् ॥

तत्तद्दमाय महनीयपदप्रदाय ।

तस्मिन् यतधर्मपहाय रसेषु मूर्ध्नाम् ॥ २४ ॥

अर्थ—ज्यारे इन्द्रिजंरूपी हाथीजं मनोहर (सरख)  
मार्ग तजीने स्वेच्छाचारी थया थका चाले ठे, त्यारे  
तेथोने (वश करवाने) “तप” ठे, ते अकुशरूप थाय

ठे, माटे मांझपद देनारा एवा ते इज्जिठना दमन माटे,  
रसोमां मूर्धा तजीने, ते तपने विषे यत्न करो ? ॥२४॥

नाथो युवानमिष प्राधिमिप्राधिपत्न्यो ।

विद्या विनीतमिष जानुमिप्राधयश्च ॥

वदत्य हमारहमिप्रेतुमिप्रेतुश्च ।

सन्नन्धय समुपयाति तपश्चरतम् ॥ २७ ॥

अर्थ—युवान पुरुषोप्रते जेम स्त्रीश्रो, समुद्रप्रते  
जेम नदीश्रो, विनयवतप्रते जेम विद्या, सूर्यप्रते जे-  
म किरणो, वृक्षप्रते जेम वेखडोश्रो, तथा चद्रप्रते  
जेम ताराश्रो, तेम तपसा करता माणसने उत्तम  
लडिधश्रो प्रात थाय ठे ॥ २५ ॥

हारंरिपारमपा प्रकरंरिप्राग ।

शाणेरिप्राखमनंरिप्रा जातरुपम् ॥

नृमोनेनेरिप्रा च नेत्रमिप्राजनंश्च

नेमंरिप्राहति तीत्रतपोजिरात्मा ॥ २६ ॥

अर्थ—खारार्थी जेम वस्त्र, पाणीना समूहथी जेम  
थग, सराणार्थी जेम शस्त्र, अग्निथी जेम सुवर्ण, मा  
र्जनथी जेम जमीन, तथा अजनर्थी जेम नेत्र, तेम  
तीत्र तपथी आत्मा निर्मल थाय ठे ॥ २६ ॥

हवे जावप्रक्रम कहै ठे

दत्तं येन विना घनेऽपि हि धने स्यादुत्सहस्तद्वय-

श्रीर्षे येन विनाजिकामनिमते शीले च जोगक्ष्य ॥

तप्ते येन विना च दुस्तरतप स्तोमे च कार्श्योंदय ॥  
कार्यस्तत्फलमिष्टुजि शुभ्रतरे जावेऽत्र जव्यैर्लय ॥ २७ ॥

अर्थ—जे जावविना घणा धननु दान देवार्थी पण ते दु से सहन थाय एवो (फोकट) खरचज ठे, तथा जे जावविना इष्टित अने निर्मल एवु ग्रीक्ष पालवा र्थी पण (केवल) जोगोनोज क्षय ठे, तथा जे जाव-विना आकरा तपनो समूह करवार्थी पण (केवल) कृशतानोज उदय ठे, माटे एधी रीतना अत्यत शुभ्र जावमा, ते ते कार्योंना फलनी इच्छावाला जव्य लो-कोए आसक्तपणु करवु ॥ २७ ॥

श्रीर्हानि दृढतामुर्पति दधता शील च जोगक्षय ।  
सङ्घेशः सृजता तपश्च पठता कठे जयेत क्वन्ता ॥ नारो,  
पूज्याना नमता च मानमश्नं दु खं वृते । धन्नतो ते क्वन्ता  
मत्सैव न कथ करोपि सुकरे जावे मनस्विन् मन ॥ २८ ॥

अर्थ—दान देवार्थी लक्ष्मीनी हानि थाय ठे शील पालवार्थी जोगोनो क्षय थाय ठे, तप करवार्थी क्लेश थाय ठे, जणवार्थी कठशोष थाय ठे, पूज्योने नमवार्थी माननी हानि थाय ठे, तथा वृत्त धारण करवार्थी दु ख थाय ठे, एवु मानीने पण हे मनस्वी । (बुद्धिवान् !)  
तु उत्तम जावमा मनने केम जोरुतो नर्थी ? ॥ २८ ॥

नीरेणैव सर सरोरुहमिवामोदेन सीताशुना ।  
तुंगीराम्बुजप्रधुनेत्र दिवस कुन्तीव दानाम्बुना ॥  
पुत्रेणैव कुज कुरगनयना जत्रैव धत्ते श्रिय ।

जावेन प्रचुरापि पुण्यपटुता प्रोद्धासमीता क्रिया ॥ २९ ॥

अर्थ—जलथी जेम सरोवर, सुगधिथी जेम कमल,  
चंद्रथी जेम रात्रि, सूर्यथी जेम दिवस, मदथी जेम  
हाथी, पुत्रथी जेम कुल, तथा जर्तारथी जेम स्त्री शो-  
जाने धारण करे ठे, तेम, घणी एवी पण क्रिया जा-  
नथी पुण्यनी पटुताना प्रोद्धासने पामे ठे ॥ २९ ॥

कैश्चिद्दाममदायि शीलममल चापालि कैश्चित्तप ।

कष्ट कैश्चिदधाय्यकारि त्रिपिने कैश्चिन्निवासोऽनिशम् ॥

कैश्चिद्भयानमधारि कैश्चिदनघश्चापूजि देवत्रजो ।

फलमापि चापरनस्तत्रानिस्फुजितम् ॥ ३० ॥

अर्थ—नीरुहसरोवरस्यैव सीताशुना, तुंगीराम्बुजप्रधुनेत्र दिवस, कुन्तीव दानाम्बुना, पुत्रेणैव कुज कुरगनयना, जत्रैव धत्ते श्रिय, जावेन प्रचुरापि पुण्यपटुता प्रोद्धासमीता क्रिया ॥ २९ ॥  
कैश्चिद्दाममदायि शीलममल चापालि कैश्चित्तप ।  
कष्ट कैश्चिदधाय्यकारि त्रिपिने कैश्चिन्निवासोऽनिशम् ॥  
कैश्चिद्भयानमधारि कैश्चिदनघश्चापूजि देवत्रजो ।  
फलमापि चापरनस्तत्रानिस्फुजितम् ॥ ३० ॥  
केटलाकोए निर्मल  
गाल पाद्व्यु, केटलाकोए तपनु कष्ट सहन कर्युं, के-  
टलाकोए हमेशां वनमा निवास कर्यो, केटलाकोए  
व्यान धर्युं, तथा केटलाकोए निर्मल देवसमूहने पू-  
ज्यो, पण ते सखलानुं फल तो वीजाश्रोने मद्यु,  
माटे तेमा जावनु प्रावह्य जाणवु ॥ ३० ॥

सिद्धाजन जनितयोगिजनप्रजात्र ।

जाव वदति त्रिभुवा निवहा नरीनम् ॥

१ “ निशीश्रिनी निशा निद्रुच, श्यामा तुगी तमा तमी ”  
इति नामनिधानम्

तप्ते येन विना च दुस्तरतप स्तोमे च काश्र्योदय ॥

कार्यस्तत्फलमिहृत्ति शुभतरे जायेऽत्र ज्वर्यस्य ॥ २७ ॥

अर्थ—जे जावविना घणा धननु दान देवार्थी पण ते छु खे सहन थाय एवो (फोकट) खरचज ठे, तथा जे जावविना इच्छित अने निर्मटा एवु शील पालवार्थी पण (केवल) जोगोनोज क्षय ठे, तथा जे जावविना आकरा तपनो समूह करवार्थी पण (केवल) कृशतानोज उदय ठे, माटे एवी रीतना अत्यंत शुभ जावमा, ते ते कार्यांना फलनी छ्यावाला जव्य लोकोए आसक्तपणु करवु ॥ २७ ॥

श्रीर्हानि ददतामुपैति दधता शील च जोगद्वय ।

सद्देशः सजता तपश्च पठता कठे जपेत व्रता ॥ २८ ॥  
पृथ्याना नमता च मानमथर्न छु ख घेत । यत्रतो ते कथा  
मर्त्ये न कथ करोपि सुम्ने जावे मनस्विन् मन ॥ २८ ॥

अर्थ—दान देवार्थी लक्ष्मीनी हानि थाय ठे शील पालवार्थी जोगोनो क्षय थाय ठे, तप करवार्थी क्लेश थाय ठे, जणवार्थी कठशोप थाय ठे, पूज्योने नमवार्थी माननी हानि थाय ठे, तथा वृत धारण करवार्थी छु ख थाय ठे, एवु मानीने पण हे मनस्वी । (बुद्धिवान् !)  
तु उत्तम जावमां मनने केम जोरुतो नथी ? ॥ २८ ॥

नीरेणैव सर सरोरद्दमिगामोदेन सीताशुना ।

तुंगीगाम्बुजवधुनेत्र दिवस कुञ्जीव दानाम्बुना ॥

पुत्रेणैव कुल कुरगनयना जत्रैव धत्ते श्रिय ।

जात्रेन प्रचुरापि पुण्यपटुता प्रोद्धासमीता क्रिया ॥ २९ ॥

अर्थ—जलथी जेम सरोवर, सुगधिथी जेम कमल,  
चद्रथी जेम रात्रि, सूर्यथी जेम दिवस, मदथी जेम  
हाथी, पुत्रथी जेम कुल, तथा जर्तारथी जेम स्त्री गो-  
त्राने धारण करे ठे, तेम, घणी एवी पण क्रिया जा-  
वथी पुण्यनी पटुताना प्रोद्धासने पामे ठे ॥ २९ ॥

कैश्चिहाममदायि शीलममद चापासि कैश्चित्तप ।

कष्टं कैश्चिदधाय्यकारि त्रिपिने कैश्चिन्निगामोऽनिशम् ॥

कैश्चिद्व्यानमधारि कैश्चिद्वनधश्चापूजि देवप्रजो ।

फलमापि चापरनरस्तज्ञावप्रिस्फुजिनम् ॥ ३० ॥

अर्थ—कैश्चिद्विद्वे न ज्ञान-रीधु, केटलाकोए निर्मल  
शील पादयु, केटलाकोए तपनु कष्ट सहन कर्यु, के-  
टलाकोए हमेशा वनमां निवास कयो, केटलाकोए  
व्यान धर्यु, तथा केटलाकोए निर्मल देवसमूहने पू-  
ज्यो, पण ते सवलानु फल तो बीजाथ्योने मध्यु,  
भाटे तेमा जावनु प्रावह्य जाणवु ॥ ३० ॥

सिद्धाजन जनितयोगिजनप्रजाप ।

जात्र वदति त्रिभुषा निग्रहा नवीनम् ॥

१ ' निशीथिनी निशा निद्रुच, श्यामा तुगी तमा तमी ”  
इति नामनिधानम्



सिद्धो ज्ञेन्मनसि सनिहिते यदस्मिन् ॥

पश्यन् जगति मनुजो जगतामदृश्य ॥ ३१ ॥

अर्थ—उत्पन्न करेल ठे योगीजनो प्रते प्रजाव जे एवा जावने, पश्चिना समूहो नवीन प्रकारनु (आश्चर्यकारक) सिद्धाजन कहे ठे, केमके ते जावरूपी सिद्धाजनने मनमा धारण करवाथी मनुष्य सिद्ध थड जेतोने जोतो थको (पोते तो) जगतोने अदृश्य थाय ठे

हवे क्रोधप्रकृत कहे ठे

स्कंधो युद्धमहीरहस्य कुमते सांधो निग्रधोऽहसा ।

योधो दुर्नयनपते कृतकृपारोधोऽग्रनोधो हृदाम् ॥

व्याधो धर्ममृगे वधो धृतिधिया गधो त्रिष्वीरधा

मधा दुर्गतिपञ्चतां ममुचित क्रोधो त्रिहातु सताम् ॥ ३ ॥

अर्थ—युद्धरूपी वृद्धना थडसरस्रो, दुर्बुद्धिना मे सरस्रो, पापोना कारण सरस्रो, अन्यायरूपी राज योद्धा सरस्रो, दयाने रोकनारो, हृदयने नहीं प्र करनारो, धर्मरूपी हरिणने मारवामां पाराधि सर धैर्य अने बुद्धिनो नाश करनारो, आपदारूपी वृद्ध

१ मा धारण अजन तो आत्ममा धारण कराय ठे, पण जावरूपी अजनने तो हृदयमा धारण करवाथी अदृश्य जगतन जोत्राय ठे मांड ते आश्चर्यकारक सिद्धाजन ठे

गध सरखो, तथा दुर्गतिमां पारुवाने श्रंध सरखो, एवो  
क्रोध उत्तम माणसोने तजवो लायक ठे ॥ ३२ ॥

वायुर्यथा जलमुच्चा ममिधा यथाग्नि ।

सिंहो यथा करटिना तमसा यथाक ।

हस्ती यथापनिरहा पयसा यथोष्ण ।

शक्तस्तथा प्रशमनाय शमो र्पाणाम् ॥ ३३ ॥

अर्थ—मेघनो नाश करवामा जेम वायु, काष्ठोनो  
नाश करवामा जेम अग्नि, हाथीओनो नाश करवामां  
जेम सिंह, श्रधकारनो नाश करवामा जेम सूर्य,  
वृद्धोनो नाश करवामा जेम हाथी, तथा जलोनो  
नाश करवामा जेम उनाखो समर्थ ठे, तेम क्रोधने  
नाश करवामा समता समर्थ ठे ॥ ३३ ॥

तप पूर पाथोमुचमित्र मरत्सहरति य ।

कृपाकेलि मुस्ताकुरमित्र वराह ग्नति य ॥

मुहज्ञान नाश हिममित्र पयोज नयति य ।

स कोप साटोप प्रविशति मता चेतमि किमु ॥ ३४ ॥

अर्थ.—पवन जेम वरसादने, तेम जे कोप तपना समू-  
हने हरे ठे, तथा रुक्मर जेम \*मुस्तना (मोथना) अकु  
राने तेम जे दयानी क्रीमाने उखेनी नाखे ठे, तथा  
घरफ जेम कमलने तेम जे मित्राइनो नाश करे ठे, एवो

\* “ दुरिंदो मेघनामा, मुस्ता मुस्तकमस्त्रियाम् ” इत्यमर

आटोप सहित कोप, शु सज्जनोना चित्तमां प्रवेश करी  
शके ठे ? (अर्थात् ते प्रवेश करी शकतो नथी) ॥३४॥

ते धन्या अजिबदनीयमिह तत्पादारविंदधय ।

ते पात्र सकज्जश्रिया जगति तत्कीर्तिर्नरीनर्ति च ॥

तन्माहात्म्यमसनिज सुरनरा सर्वेऽपि तत्किंकरा ।

ये कोपद्विपसिंहशावसदृश स्वाते शम विज्रति ॥ ३५ ॥

अर्थ—जे माणसो क्रोधरूपी हाथीने (हणवामां)  
सिहना वचां सरखी समताने मनमा धारण करे ठे, ते-  
उने धन्य ठे । तथा आ जगतमां तेना बन्ने चरणक  
मलो वदन करवालायक ठे, वली तेउ सघली लह्मी-  
ओना पात्र ठे, तथा तेनी कीर्ति आ जगतमा नाच्या  
करे ठे, वली तेनु माहात्म्य अतुल्य ठे, तथा सघला  
देवो अने मनुष्यो तेना चाकरो थइने रहे ठे ॥३५॥

घनगन्धिर्नव कोऽपि, कोपरप प्ररूपित ॥

आतर यस्तपोवित्त, जस्मसात्कुरते क्षणात् ॥ ३६ ॥

अर्थ—क्रोधरूपी दावानल तो कोइक नवीन प्रकार-  
नोज (आश्चर्यकारक) जणाएलो ठे, केमके जे अतरग  
तपरूप बनने (पण) क्षणवारमा वालीने जश्म करे ठे

हवे मानप्रक्रम कहे ठे

जात्यैश्वर्यवलश्रुतान्प्रयतपोरपोपलब्धिश्चित्त ।

गर्गं सर्वगुणैकपर्वतपनि मात्मन् कृत्या सर्वथा ॥

सग गङ्गति यत्र यत्र यदमौ तत्तद्विनागास्पद ।

प्रेत्य प्राणचृतो जगत्यजिमतप्राप्तिप्रहीणा कृणात् ॥ ३७ ॥

अर्थ—हे आत्मा ! सर्व गुणोरूपी पर्वतने ( जेद-  
वामा ) वज्र सरखा एवा जातिमद, ऐश्वर्यमद, बलमद,  
ज्ञानमद, कुलमद, तपमद, रूपमद, तथा धनादिकना  
प्राप्तिमदने तु सर्वथा प्रकारे आचर नहीं? केमके, उपर  
कहेली जे जे वावतोमा ते मदनो ( अहकारनो ) सग  
थाय ठे, ते ते वावतो प्राणीजने परजवमा अनिष्ट मखे  
ठे अने एवी रीते पोताने मनोहर लागती एवी प्रा-  
प्तिश्रोथी ते कृण वारमा रहित थऽ जाय ठे ॥३७॥

श्रौचित्यचारचरिताबुजशीतपाद ।

सत्कर्मकौशलकुचेलकजोरपादम् ॥

ससेव्यसेवनजनद्रुमसामयोनि ।

मान विमुच सुकृताबुधिकुजयोनिम् ॥ ३८ ॥

अर्थ—श्रौचित्यत्तारूप जे मनोहर आचरण, ते रूपी  
( सूर्यविकासि ) कमलनो ( नाश करवामा ) चंद्रसरखा,  
तथा उत्तम कार्यनी कुशलतारूपी ( चंद्रविकासि )  
कमलने ( नाश करवामा ) सूर्य सरखा, अने आच-  
रवालायक कार्यरूपी वनवृक्षने ( नाश करवामा )  
हार्थी सरखा, तथा पुण्यरूपी समुद्रने ( गोपवामा )  
अगस्ति ऋषि सरखा एवा मानने, हे प्राणी ! तु तजीदे?

त्रिपदा मद्ग गर्जयि मपर्व पर्वत स्मृत

प्राप्तुप्रत्युर्ध्वमुर्ध्वानो, यमारढा अधोगतिम् ॥ ३९ ॥

अर्थ—आपदाश्रोना स्थानक सरग्यो, एगो आ गर्व-  
रूपी पर्वत तो कोइ विचित्र प्रकारनो (आश्चर्यकारक)  
ठे, केमके उचु मस्तक राखीने (अकर रहनीने) ते पर्व  
तपर चढेला माणसो (जलटा) नीची गतिने पामे ठे ।

दष्टो येन जनो जहाति विनयप्राणान् प्रसिद्धिप्रदान् ।

यद्दष्टेन विवेकनीतिनयने समीप्य सखीयते ॥

यद्दष्टस्य च कीलकीलितमिव स्तब्ध वपुर्जायते ।

दर्प सर्पमिवातिजिह्वगहन कस्त स्पृशेत्कोपिद ॥ ४० ॥

अर्थ—जे अहकाररूपी सर्पना रुखवाथी, माणस  
पोताने कीर्ति आपनारा विनयरूपी प्राणोने तजे ठे,  
तथा विवेक अने न्यारूपी पोतानी आखो मीची जाय  
ठे, तथा जेना डखथी पोतानु शरीर जाणे खीलामा  
कीलित थइ गयु होय नहीं तेम थइ जाय ठे, एवा  
सर्प सरसा अत्यंत ऊरथी जयकर थएला अहका  
रने कयो पकित माणस स्पर्श करे ? ॥ ४० ॥

हवे मायाप्रक्रम कहे ठे

दत्त उका इय विधाय सुराशया ये ।

मीनानिवासिद्धजनान् प्रतिवचयति ॥

तं सौहदादमलकीलिततापयोदा

दात्मा प्रपचचतुरोऽचतुरंरवचि ॥ ४१ ॥

अर्थ—जे दुर्बुद्धियो कपट करीने वगलाओ जेम मत्स्योने तेम सर्व जनोने ठगे ठे, ते मूर्खांए निर्मल कीर्तिरूपी लताप्रते वरसाद सरखी मित्राऽथी प्रपचमा चतुर एवा पोताना आत्माने उग्यो ठे ॥४१॥

मायामिमा बुटिलशीलविहारविज्ञा ।

मान्यमहे हृदि जुजगजधू ननीनाम् ॥

दष्टोऽनया स्मितसरोजसहोदरास्यो ।

मोह नयंघदितरान्मधुर भ्रुवाण ॥ ४१ ॥

अर्थ—कुटिल शीलना ( दुराचारना ) विहारमा चतुर एवी मायारूपी सर्पणीने श्रमो हृदयमा विचित्र प्रकारनी (आश्चर्यकारक) मानीए ठीए, केमके जेनाथी करणाएलो माणस विकस्वर थएला कमल सरखा मुख वालो थयो थको, तथा मीठा मीठा वचनो बोलतो थको ( उलटो ) वीजाने मोहमा नांखे ठे ॥ ४१ ॥

विश्रंज जुजगीर जीविततनु व्याहति या देहिना ।

या सौहार्दमपाकरोति शुचिता स्पर्शोऽशुचीनामित्र ॥

या कौटिल्यरुक्षा कलामित्र विधो पुष्णाति पद्म सित-

स्ता निर्मोकमित्रोरग हस्तगति माया न को मुचति ॥ ४३ ॥

अर्थ—जे माया ( कपट ) सर्पणी जेम जीवितने, तेम माणसोना विश्वासने हण्णे ठे, तथा अशुचि पदार्थोनोंो स्पर्श जेम पवित्रताने, तेम जे मित्राऽने दूर करे

त्रिपदा मद्ग गर्जय-मपर्व पर्वत स्मृत

प्राप्तुःप्रत्युर्ध्वमुर्ध्वानो, यमारुढा अधोगतिम् ॥ ३९ ॥

अर्थ—आपदाश्राना स्थानक सरसो, एवो आ गर्वरूपी पर्वत तोकोइ विचित्र प्रकारनो (आश्चर्यकारक) ठे,केमके उचु मस्तक राखीने (अकम रहीने) ते पर्वतपर चडेला माणसो (जलटा) नीची गतिने पामे ठे ।

दद्ये येन जनो जहाति विनयप्राणान् प्रसिद्धिप्रदान् ।

यदृष्टेन त्रिकनीतिनयने समीप्य सस्थीयते ॥

यदृष्टस्य च कीलकीलितमित्र स्तब्ध वपुर्जायते ।

दर्प मर्षमिमातिजिह्वगहन कस्त स्पृशेत्कोविद ॥ ४० ॥

अर्थ—जे अहकाररूपी सर्पना रुखवाथी, माणस पोताने कीर्त्ति आपनारा विनयरूपी प्राणोने तजे ठे, तथा विवेक अनेन्यारूपी पोतानी आंखो मीची जाय ठे, तथा जेना डखथी पोतानु शरीर जाणे खीलामा कीलित थइ गयु होय नहीं तेम थइ जाय ठे, एवा सर्प सरसा अत्यंत जेरथी जयकर थएला अहकारने कयो पन्तित माणस स्पर्श करे ? ॥ ४० ॥

हवे मायाप्रकम कहे ठे

दत्त वक्रा इव त्रिधाय दुराज्ञया ये ।

मीनानिमाखिलजनान् प्रतिवचयति ॥

तै साहूदादमखकीलिततापयोदा

दात्मा प्रपचचतुरोऽचतुरैरचि ॥ ४१ ॥

अर्थ—जे दुर्बुद्धिओ कपट करीने वगळांओ जेम मत्स्योने तेम सर्व जनोने ठगे ठे, ते मूर्खोए निर्मल कीर्तिरूपी लताप्रते वरसाद सरखी मित्राइधी प्रपचमां चतुर एवा पोताना आत्माने उग्यो ठे ॥४१॥

मायामिमा कुटिलशीलप्रिहागप्रिज्ञा ।

मान्यमहे हृदि शुजगमधू नवीनाम् ॥

दष्टोऽनया स्मितसरोजसदोदरास्यो ।

मोह नयेद्यदितरान्मधुर भुवाण ॥ ४२ ॥

अर्थ—कुटिल शीलना ( छुराचारना ) विहारमा चतुर एवी मायारूपी सर्पणीने अमो हृदयमा प्रिचित्र प्रकारनी (आश्चर्यकारक) मानीए ठीए, केमके जेनाथी कयाएलो माणस प्रिकखर थएला कमल सरखा मुख वालो थयो थको, तथा मीठा मीठा वचनो घोळतो थको ( उलटो ) चीजाने मोहमा नारये ठे ॥ ४२ ॥

प्रिश्रज शुजगीर जीप्रिततनु व्याहति या देहिना ।

या साहार्दमपाकरोति शुचिता म्पशाऽशुचीनामिप ॥

या कौटिल्यकला कलामिप प्रिधो पुपुणाति पद्म सित

स्ता निर्मोकमिपोरग श्रुतगतिं माया न को मुचति ॥ ४३ ॥

अर्थ—जे माया ( कपट ) सर्पणी जेम जीवितने, तेम माणसोना विश्वासने हूणे ठे, तथा अशुचि पदाथॉनो स्पर्श जेम पवित्रताने, तेम जे मित्राइने छूर करे



ठे, अने शुक्र पद्म जेम चंद्रनी कलाने, तेम जे कु-  
टिलताने (वरुपणाने) पोपे ठे, एवी (शुभ्र) गतिने  
अटकावनारी मायाने, सर्प जेम (पोतानी) कांच-  
लीने, तेम कोण ठोरुतो एथी ? ॥ ४३ ॥

ये काँटिद्यकलाकलापकुशलास्ते मत्यनेके द्विर्ता ।

ये हार्यार्जपर्ययीर्यसदन ते केचिदेव ध्रुवम् ॥

खन्यते हि पदे पदे फलजरैर्नम्रा दरिद्रद्रुमा ।

सप्रीणन् शुवनानि पेशलफलैरदृपो हि कटपद्रुम ॥ ४४ ॥

अर्थ—कपटनी कलाना समूहमां कुशल एवा तो आ  
पृथ्वीमां अनेक लोको ठे, पण मनोहरएवी श्रार्जवताना  
उत्तम वीर्यना स्थानरूप तो विरलाज होय ठे, केमके,  
फलोना समूहोथी नमेला तुष्ट वृक्षो तो पगले पगले म-  
ले ठे, पण पोताना उत्तम फलोथी त्रणे जगतोने खु-  
शी करनार कटपट्टा तो अदृपज होय ठे ॥ ४४ ॥

उमाया इत्र मायाया , सर्पक मुच मुच रे ॥

ईश्वरोऽपि नरो नून, यत्नगादू जीमता नजेत् ॥ ४५ ॥

अर्थ—हे प्राणी! पार्वतीनो जेम, तेम मायानो सग तु  
ठोमीज दे ? केमके जेना संगथी ( पद्मे पार्वतीना  
सगथी ) ऐश्वर्यवानने पण ( पदे महादेवने पण )  
त्रयकरपणु ( तीमपणु ) धारण करवु पड्युठे ॥ ४५ ॥

## हवे लोचप्रक्रम ठे

नाश यो यशसा करोति रजसा घातोऽनिलानामिष ।  
 त्रास यो महसा तनोति वयसा पात शराणामिष ॥  
 शोभा यो वचसा हिनस्ति पयसा वृष्टिर्धनानामिष ।  
 ल्यक्त्वाकृत्यकरींशुजशरज लोच शुजयुर्जय ॥ ४६ ॥

अर्थ—जे लोच पवनोनो समूह जेम रजोनो, तेम यशोनो नाश करे ठे, तथा वाणोनो पन्वु जेम जीद-  
 गिने, तेम जे (पोताना) तेजने त्रास आपे ठे, तथा  
 मेघनीवृष्टि जेम पाणीने (नोलुं करे ठे) तेम जे, वच-  
 ननी शोभाने हणे ठे, तथा जे करवायोग्य कार्यरूपी  
 हार्थीना कुजस्थलने भेदवामां सिंहसमान ठे, एवा  
 लोचने तजीने हे प्राणी । तुं कव्याणयुक्त था १ ॥४६॥

कि ध्यानैर्मुखपद्ममुद्रणार्चण किं चेंद्रियाणाजय-  
 रघैस्तपसा पुन प्रतपनै कि भेदसा शोपणै ॥

कि वाचा जनितश्रमै परिचयै किं ह्येशयुर्कर्मै-  
 श्वेहोन्नोऽखिलदोषपोषणपदुर्जागतिं चित्तेति ॥ ४७ ॥

हे प्राणी ! सघला दोषोने पोषण करवामां समर्थ  
 तथा डु खना स्थानकरूप एवो लोच जो चित्तमां जाग  
 तो रह्यो ठे, तो पठी मुखरूपी कमलने मुद्रित करवामां  
 समर्थ, एवा ध्यानथी शु थवानु ठे ? तेम इन्द्रियोने जी-  
 तवार्थी पण शु थवानु ठे ? तेम इष्टाने रोधनार तथा

चरवीने ( शरीरना पुष्टपणाने ) शोपनार एवा तपो  
 तपवार्थी पण शु थवानु ठे ? तेम श्रमयुक्त एवा व-  
 चनोना परिचयथी पण शु थवानु ठे ? तथा क्लेशो  
 युक्त एवा व्रतोथी पण शु थवानु ठे ? ॥ ४७ ॥

स स्थैयकनिकेतन स सुजटश्रेणिषु चूडामणि ।

स प्रागदृश्यपरानुज्ञावसुजग स ध्यानधुर्धुर्वह ॥

स श्रेष्ठ स च पुण्यमान् न च शूचि स श्लाघनीय सता ।

येनागण्यगुणास्त्रिद्विकलजो लोजो चृश स्तजित ॥ ४८ ॥

अर्थ—असरयाता गुणोणी श्रेणिरूप वेलनीन  
 ( नाश करवामा ) हाथी सरया, एवा लोजने जे  
 माणसे विशेषे करीने अटकाव्यो ठे, ते माणस स्थि-  
 रताना एक स्थानकरूप ठे, ते सुजटोनी पक्तिउमा  
 अग्रेसर ठे, मोटाडना उत्कृष्ट जावथी मनोहर थ-  
 एलो ठे, ध्याननी धोसरीने धारण करवामा समर्थ  
 ठे, पुण्यवान अने पवित्र ठे, तथा ते उत्तम माण-  
 सोने प्रशसा करवा लायक ठे

मैत्रीं निमुचति मुहूर्त्तिनय विनेय ।

सेया च सप्तकजन प्रणय च पुत्र ॥

नीतिं नृपो व्रतमृषिश्च तपस्तपस्वी ।

लोचाजिचूतहृदय कुलजोऽपि लज्जाम् ॥ ४९ ॥

अर्थ—लोचथी पराजव पामेलु ठे हृदय जेनु एवो  
 मित्र मित्राडने तजे ठे, शिष्य विनयने तजे ठे, चाकर

सेवाने तजे ठे, पुत्र नम्रताने तजे ठे, राजा नीतिने तजे ठे, मुनि व्रतने तजे ठे, तपस्वी तपने तजे ठे, तथा एवो कुलीन माणस पण बळ्जाने तजे ठे ॥४९॥

लोनाजोजाखिशीतद्युतिरहिमरुचि पुण्यपाथोजपुजे ।

शुद्धध्यानकसौध प्रगुणगुणमणिश्रेणिमाणिक्यरसानि ॥

श्रेयोपद्व्यालनाल कलिमलकमळारामसहारइस्ती ।

तृष्णाकृष्णाहिमत्रो निशतु हृदिसतामेप सतोपपोप ॥ ५० ॥

अर्थ—लोजरूपी (सूर्य विकासी) कमलोनी श्रेणि-  
नो (नाग करवामा) चंद्र सरसो, पुण्यरूपी कमलना  
समूहने ( विकस्वर करवामा ) सूर्य सरसो, शुद्ध  
ध्यानना एक मेहेल सरसो, उत्तम गुणोरूपी माणि-  
नी श्रेणिओने (उत्पन्न करवामा) मणिक्यनी खाण  
सरसो, कढ्याणरूपी बेलडीने (प्रफुल्लित करवामां)  
क्यारा सरसो, क्लेश अने मलीनतारूपी कमलना  
वगीचानो नाग करवामा हाथी सरसो, तथा तृ-  
ष्णारूपी कृष्णसर्पने ( वग करवामा ) मत्र सरसो,  
एवो आ सतोपनो पोप ( पुष्टि ) सज्जनोना हृद-  
यमा दाखल थाओ ? ॥ ५० ॥

हवे पितृप्रकृत कहे ठे

तेनायादि यश प्रसिद्धिपटह प्राकारि यात्रोत्सव

स्तीर्थाना च

हृदय प्राणोदि पापप्रथा ॥

श्रेय श्रेणिरवापि वशसदने चारोपि धर्मध्वजो ।

येनापृजि पदद्वयी हितवती पित्रो पत्रिन्नात्मनो ॥ ५१ ॥

अर्थ—जे माणसे पवित्र एवा मातपितानां हितकारी वदने चरणोने पूज्या ठे, तेणे (आ जगतमा पोताना) यशानो जाहेर पडो वज्रभाव्यो ठे, तीर्थोनी यात्रानो उत्सव करेलो ठे, सज्जनोना हृदयने श्रानदित कर्यु ठे, पापोना विस्तारने दूर कर्यो ठे, कल्याणनी परपरा मेलवी ठे, तथा तेणे पोताना कुलरूपी घरपरधर्मध्वज श्रारोपण कर्यो ठे, ( एम जाणवु ) ॥ ५१ ॥

लक्ष्मीस्तत्र पयोनिधात्रिव सखिञ्चेणि समेति स्वय ।

जोगास्तत्र वसति शाखिशिखरावासे त्रिहगा इव ॥

पृजास्फातिमुपैति तत्र सखिले वीथीय पाथोरहा ।

नक्तिर्यत्र पवित्रपुण्यपरयो पित्रोरनुष्ठीयते ॥ ५२ ॥

अर्थ—पवित्र पुण्यमा तत्पर एवा मातपितानी ज्यां नक्ति कराय ठे त्या, समुद्रमा जेम नदीथोनी श्रेणि, तेम लक्ष्मी पोतानी मेलेज आवे ठे, वली वृद्धानी टोचरूपी श्रावासमा जेम पक्षिथो, तेम त्या जोगो ( श्रावीने ) वसे ठे, तथा पाणीमा जेम कमलोनी श्रेणि, तेम त्या मान विस्तारने पामे ठे ॥ ५२ ॥

न स्नानरपि तीर्थपृतपथसा शुद्धेश्च सिद्धात्मनो ।

नो जापरपि नापि चारचरितर्नापि श्रुताना श्रमै ॥

न त्वागैरपि सपदा जयति सा नापि व्रताना व्रजै-  
र्चा पित्रो पदपूजनैः सुजगयो शुद्धिर्चुश जन्तते ॥ ५३ ॥

अर्थ—सातपिताना मनोहर चरणोनी पूजाथी  
(प्राणीने)जे अत्यंत शुद्धि आय ठे, तेवी शुद्धि तीर्थोना  
पवित्र जलोना स्नानोथी पण थती नथी, सिद्ध प्र-  
भुना शुद्ध जापोथी पण थती नथी, मनोहर आच-  
रणोथी पण थती नथी, सिद्धांतो (सातखवाना) श्र-  
मोथी पण थती नथी, लक्ष्मीना वानथी पण थती न-  
थी, तथा व्रतोना समूहोथी पण थती नथी ॥५३॥

विष्णु स्वर्गतरंगिणी प्रकटिता तद्भागले भक्त्ये ।

दु स्वस्य प्रविशेश वेशमनि मन कामप्रदा स्वर्गवी ॥

प्रादुर्भावमुपेयिवान्मरुचुरि क्षोणीरुह स्वर्गिणा ।

यत्पित्रो प्रविधीयते प्रतिदिन त्तकि शुक्तास्मिन् युगे ॥५४॥

अर्थ—आ कलिकालमा पण हमेशां मात पितानी  
शुद्ध त्तकि जे करवामा आवे ठे, तेथी हु एम जाणु  
तु के, जंगलना प्रदेशमा देवगगा प्रगट थइ ठे, तथा  
मनना इच्छित अर्थने देनारी कामधेनुए दरिद्रिना  
घरमा प्रवेश कयो ठे, तथा मारवारुनी चूमिमा क-  
ल्पवृक्षोनी उत्पत्ति थइ ठे । । ॥ ५४ ॥

यत्प्रसाद्वशत करिखीला, पृतरप्रतिमितोऽप्युपयाति ॥

पादयो प्रविधीत न पित्रो , किं तयो सततय मय्यास्मिन् ॥

अर्थ—जे मातपितानी कृपाथी, ( जन्म समये ) पूरा सरसो पण पुत्र, (शौचन समये) हाथी समान लीलाने प्राप्त थाय ठे,तेवा मातपिताना चरणोनी सेवाने, ते पुत्र शामाटे अगीकार न करे? (अर्थात् करेज )

हवे गुरुप्रक्रम कहे ठे

कि पाथसा मथनयत् कुरपे सुमेधु ।

बंधो मुधंय विविध निरुर क्रियाणाम् ॥

वस्तुप्रकाशनपदु, प्रकटप्रजागो ॥

दीप्रप्रदीप्त इय चेद् गुनराहतो न ॥ ५६ ॥

अर्थ—देदीप्यमान दीपकनी पेठे वस्तुओने प्रकाश करवामा समर्थ, तथा प्रगट प्रजाववाला, एवा गुरूने, हे वधु ! जो ते अगीकार कर्या नथी, तो सुखनी इष्टाथी जलना मथननी पेठे फोकट क्रीयाओनो समूह तु शामाटे करे ठे ? ॥ ५६ ॥

न ध्वस प्रिदधाति यस्तनुमता वृते न ज्ञापा मृषा ।

न स्तेय वितनोति न प्रकुरुते जोगाश्च वक्रचुयाम् ॥

न स्वर्णादिपरिमहग्रहिलता धत्ते च चित्ते क्वचित् ।

ससेव्यो गुरुरेय दोषत्रिमुख्य ससारपारेष्ठुजि ॥ ५७ ॥

अर्थ—जे गुरु जीवोनी हिंसा करता नथी, मृषावाद बोलता नथी चोरी करता नथी,स्त्रीओना जोगो जोगयता नथी,तथा मनमां कोइ पण वसतेसुवर्णादिकना

परिग्रहनी लोलताने धारण करता नथी, एवा निदोष  
गुरुने ससार तरवानी इष्टावाला मनुष्योए सेववा ५९

ये व्यापारपरायणा प्रणयिनीप्रेमप्ररीणाश्च ये ।

ये धान्यादिपरिग्रहाग्रहगृह सर्वाजिलापाश्च ये ॥

ये मिथ्यावचनप्रपचचतुरा येऽहनिश जोजिन

स्ते सेव्या न जमोदधौ कुगुरव सन्निष्पोता इव ॥ ५७ ॥

अर्थ—जेश्रो व्यापारमा तत्पर रहेला ठे, स्त्रीश्रोना  
प्रेममां प्रवीण थया ठे, धान्यादिक परिग्रहना स्थानक  
तुल्य ठे, सर्व वस्तुश्रोना लालचु ठे, मिथ्यावादना प्रपं-  
चमा चतुर ठे, तथा जेश्रो रातदहामो जोजनमां आस-  
क्त ठे एवा कुगुरुश्रोने आ जवरूपी समुद्रमा (बुका-  
रवाने) ठिडवाला बहाण तुल्य (जाणीने) सेववाज नर्ही

ये विश्वासपद च ये प्रतिजुमो निर्माणशर्मर्पणे ।

ये चाधोगतिदुर्गमार्गगमनद्वारप्रवेशार्गला ॥

धर्माधर्महिताहितप्रकटनप्राप्तप्रमोदाश्च ये ।

ते सेव्या जमनारिधौ सुगुरमो निश्चिन्विपोता इव ॥ ७९ ॥

अर्थ—जेश्रो विश्वासना स्थानकरूप ठे, मोक्षसुख  
आपवामा शाक्षिजूल ठे, नीच गतिना दुर्गम मार्गमा  
गमन करवाना द्वार प्रते प्रवेश करवामा जोगल  
समान ठे, तथा जेश्रो धर्म, अधर्म, हित, अहित विगेरे  
प्रगट करवार्थी आनद मेलवनारा ठे, एवा उत्तम गुरु-



श्रोने जवरूपी समुद्रमां ठिडरहित (अखंरु) वहा-  
ण तुल्य जाणीने सेववा ॥ ५९ ॥

चेहानशीलतपसा फलमाप्तुमीहा ।  
स्वर्गापवर्गपुरयो पथि चेधियासा ॥  
वात्रा च चेत्सुकृतद्रु कृतयोविवेके ।  
सेव्य समाधिनिधिरेप गुरुस्तदाय ॥ ६० ॥

अर्थ—जो दान, शील अने तपना फलने मेलव-  
वानी इच्छा होय, अने स्वर्ग तथा मोक्ष नगरना मार्गमा  
जवानी जो इच्छा होय, तथा पुण्य पापनो विवेक (तफा-  
वत) जाणवानी जो इच्छा होय, तो समाधिना जन्मर-  
रूप ते सुगुरुने उत्तम माणसोप सेववा ॥ ६० ॥

हवे देवप्रक्रम कहे ठे

ज्योतिर्जालमिवाङ्गिनीप्रियतम प्रीतिर्न त मुंचति ।  
श्रेय श्रीर्नवतीह तत्सहचरी ज्योत्स्ना सुधाशोरिव ॥  
सौजाग्य तमुपैति नाथमग्ने सेनेव त काहति ।  
स्वर्नह्माब्धिमुक्ता वशं तरुण योऽर्चा विधत्तेऽर्हताम् ॥६१॥

अर्थ—जे माणस श्री अरिहंत प्रजुनी पूजा करे ठे,  
तेने, सूर्यने जेम ज्योतिनो समूह तेम प्रीति ठोरुती  
नथी, तथा चादनी जेम चडनी, तेम कढ्याणनी लक्ष्मी  
तेनी सहचरी थाय ठे, तथा राजाप्रते जेम सेना, तेम

सौजाग्य तेनी समीप आवे ठे, तथा युवान पुरुषने  
जेम खी, तेम स्वर्ग अने मोक्षनी लक्ष्मी तेने इछे ठे ६१

स श्लाघ्य कृतिना तति सुकृतिना त स्तौति तेनात्मनो ।

वशोऽशोचि नमति योजितकरास्सं प्रजा चक्षुजाम् ॥

तस्मान्नप्रथित परोऽस्ति जुवने जागति चित्तातिहत् ।

कीर्तिस्तस्य वसति जोगनिग्रहास्तस्मिञ्जिन योऽर्चति ॥६२॥

अर्थ—जे माणस जिनेश्वर प्रजुने पूजे ठे, ते कृतार्थ  
पुरुषोमा (पण) बखाणवालायक ठे, तथा पुण्यवतोनी  
श्रेणि तेनी स्तुति करे ठे, वली तेणे पोतानु कुल शो-  
जाव्यु ठे, तेम तेनी पासे राजाओना समूहो हाथ  
जोमीने रहे ठे, वली तेना समान आ पृथ्वीमां कोइ  
पण वीजो माणस प्ररयात थएलो नथी, तेम चित्तनी  
पीमाने हरनारी एवी तेनी कीर्ति जागृत थाय ठे, तथा  
तेनामा जोगोना समूहो (आवीने) वसे ठे ॥ ६२ ॥

तस्माद्दूरमुपति छु खमखिल सिद्धादिवेजप्रजो ।

त्रिघ्नौघश्च विजेति सर्पनिकर कसारियानादिव ॥

त्रिपात्पंकजिनीपत्तेरिव निशा नश्यत्यनर्हा गति ।

पृज्यते जिनमूर्तय प्रतिदिन यद्वाप्ति सम्फूर्तयः ॥ ६३ ॥

अर्थ—जे मनुष्यना घरमा स्फुरायमान एवी जिननी  
मूर्तिओ हमेशां पूजाय ठे, ते माणस पासेथी, सिंहथी  
जेम हाथीओनो समूह, तेम सघळुं छु ख दूर जाय ठे,  
तथा गरुडथी जेम सर्पोनो समूह, तेम तेनाथी विघ्नो

समूह करतो रद्दे ठे, तथा सूर्यथी जेम रात्रि, तेम तेनाथी डुराचरण तो नासतुज फरे ठे ॥ ६३ ॥

प्रेधाराकारा व्यसनशिखरिण्युत्सवने ।

वसत् सकेतस्त्रिदिवशिप्रसपत्तियुवते ॥

जनाजोर्धा पोत सुकृतकमलाना च सरसी ।

जिनेद्राणामर्चा प्रथितमहिमाना च सदनम् ॥ ६४ ॥

अर्थ—जिनेद्र प्रजुओनी पूजा (साते) व्यसनोरूपी पर्वतने (जेदवामां) वज्रनी धारा सरखी ठे, उत्सवरूपी वनने (विकस्वर करवामा) वसत ऋतु सरखी ठे, देवलोक अने मोक्षनी सपदारुप युवान स्त्रीने (वोलाववामां) सकेत सरखी ठे, जवरूपी समुद्रने (तरवामां) नाव सरखी ठे, पुण्यरूपी कमलोने उत्पन्न करवामा तलाव सरखी ठे, तथा विस्तार पा-  
मेला महिमाना स्थानक समान ठे ॥ ६४ ॥

न भ्रू साटोपकोपा न च करयुगल चापचक्रादिचिन्ह ।

काताकातश्च नाको न च मुग्गकमल सप्रकोपप्रसादम् ॥

यानासीना न मूर्तिर्न च नयनयुग कामकामाजिराम ।

हास्योत्फुर्त्ता न गङ्गा मज्जय जत्रजिदो यस्य देव ससंब्य ॥६५॥

अर्थ—जययुक्त जवने जेदनारां एवां जे देवनी जुकुटी आटोप सहित कोपवाली नथी,जेना वझे हाथो च पचक आदिकथी चिहित थाने, खोल

स्त्रीथी शोजितो थयो नथी, जेनु मुखकमल कोप के  
प्रसादवाहुं नथी, जेनी मूर्ति वाहनपर वेठेली नथी,  
जेनी वने आखो कामनी श्वाथी मनोहर थएली  
नथी, तथा जेना गालो हास्यथी प्रफुल्लित थया न-  
थी, ते देवज सेववा योग्य ठे ॥ ६५ ॥

हवे विनयप्रक्रम कहे ठे

केनाकारि प्रशस्या शशिनिधयलिमा वहिणा च प्रन्हें ।

वहं चित्र विचित्र जलरुहपटले सारमारन्यसपत् ॥

दुग्धे स्तैग्ध्य सितायामसममधुरिमा पद्मपाणौ प्रजाते ।

नैर्मल्य सानुकृद्य पयसि च विनय पुसि सद्यज्ञजाते ॥६६॥

अर्थ—चंद्रमा प्रगसनीक श्वेतता कोणे करी ठे?

तथा मयूरना मनोहर पीठामा विचित्र चित्र कोणे

वनाव्यु ठे? तेम कमलोना समूहमा मनोहर सुग-

विनी सपदा कोणे वनावी ठे? दूधमा चिकाश कोणे

करी ठे? साकरमा अत्यंत मीठाश शोणे वनावी ठे?

सूर्यमा प्रताप कोणे वनाव्यो ठे? तथा पाणीमां अ-

नुकुल निर्मलता कोणे करी ठे? तेम उत्तम कुलमा

उत्पन्न थएला पुरुपमा विनय कोणे वनाव्यो ठे?

( अर्थात् ते सयलां स्वान्नाविकज ठे. ) ॥ ६६ ॥

धिष्याना गगनो पयोनिधिरपामज्जो जत्रधुस्त्रिपा ।

देवानां त्रिदिव नृणा वसुमती मिध्याचक्ष कुज्जिनाम् ॥

आराम पृथ्वीरुहा कुमुदिनी प्रेयान् कलाना यथा ।

कासार सरसीरहा च विनय स्थान गुणाना तथा ॥ ६७ ॥

अर्थ—जेम ताराश्रोनु स्थानक आकाश ठे, पाणीनु स्थानक समुद्र ठे, कातिश्रोनु स्थानक सूर्य ठे, देवोनु स्थानक स्वर्ग ठे, मनुष्योनु स्थानक पृथ्वी ठे, हाथी श्रोनु स्थानक विध्याचल ठे, वृद्धोनु स्थानक वगीचो ठे, कलाश्रोनु स्थानक चद्र ठे, तथा कमळोनु स्थानक जेम तटाव ठे, तेम (सर्व) गुणोनु स्थानक विनय ठे

नस्वर्णाचरणैत्रिचृपितवपु सग्निर्न च त्राजितो ।

नो मुक्ताफलहारहारिहृदयो नो दिव्ययासोवृत ॥

नो रपोपचितो न मिधुरपरस्क्धाधिरदश्च तत् ॥

सौजाग्य समुपति यद्विनयिता ज्ञपाजिराम पुमान् ॥ ६८ ॥

अर्थ—विनयरूपी ज्ञापणथी मनोहर थएलो(माणस) जे सौजाग्यने पामे ठे, ते सौजाग्यने सुवर्णना आज्ञपणोथी शोजिता शरीरवालो पण पामतो नथी, तेम पुष्पमालाश्रोथी ज्ञापितथएलो पण ते सौजाग्यने पामी शकतो नथी, वली मोतीना हारोथी मनोहर हृदयवालो पण ते सौजाग्यने पामी शकतो नथी, तथा दिव्य वस्त्रोवालो पण ते सौजाग्यने पामी शकतो नथी, तेम रूपवंत माणस पण ते सौजाग्यने पामी शकतो नथी, तथा हाथीना मनोहर स्कंधपर चडेलो माणस पण ते सौजाग्यने पामी शकतो नथी

अन्यैर्गुणैरलमलकरणं नराणा ।  
 यद्यस्ति चेद्विनयमरुनमेकमगे ॥  
 आयाति नायकमिव ध्रजिनीजना यत् ।  
 सर्वे गुणा स्वयमिदं हृदये वहन्तम् ॥ ६९ ॥

अर्थ—फक्त एक विनयरूप आञ्जुपणज जो अगपर धारण कर्युं होय, तो पठी बीजा गुणोरुपी आञ्जुपणोनी मनुष्योने कऽ जरुर नथी केमके हृदयमा ते विनयने धारण करनार माणसनी पासे, सेनापति प्रते जेम सेनाना माणसो तेम सर्वे गुणो पोतानी मेलेज आवी पहोचे ठे ॥ ६९ ॥

प्रेमपात्र प्रजायते, विनीता पशोऽपि हि ॥  
 तस्माद्विनय एवाय, स्त्रीकार्यं कार्यकोपिदं ७० ॥

अर्थ—विनयवाला पशुश्रो पण प्रेमना पात्ररूप याय ठे, ( अर्थात् बहुज वहाला लागे ठे, ) माटे ( पोताना ) कार्यमा चतुर एवा माणसोए ते विनयनोज स्त्रीकार करवो ॥ ७० ॥

हवे न्याय प्रक्रम कहे ठे

प्राणा यातु सुरेन्द्रचापस्त्रय सपत्तयश्चाचिरा ।  
 मचारा पितृपुत्रमित्ररमणी मुख्या समा बुद्बुदं ॥  
 तारण्यादिवपुर्गुणा गिरिनदी वैगंकपारिप्लवा ।  
 कीर्ते केलिगृह तु नीतिरनितानगश्चिर तिष्ठतु ॥ ७१ ॥

अर्थ—(वर्षाकालमा यता) इंद्रधनुष्य सरस्वी (च पल) कांतिवाला प्राणो जले चाढ्या जाओ? चचल सपदाओ पण जले चाढी जाओ? परपोटा सरखा पिता, पुत्र, मित्र, स्त्री आदिक सचारो जले चाढ्या जाओ, तेम पर्वतमांथी निकलती नदीना वेग सरखा चंचल एवा शरीरना तारुण्य आदिक गुणो पण जले चाढ्या जाउ? पण कीर्तिने क्रीमा करवाना वनसरखो नीतिरूपी स्त्रीनो सग फक्त लावा काल सुधी रहो?

यथोपायविना निम्ना-वनीमेति नदीवह ॥

स्वय नयप्रतोऽन्यर्ण, तथान्येति श्रिया जर ॥ ७२ ॥

अर्थ—जेम नदीनो प्रवाह उपायविनाज नीची जमीनप्रते जाय ठे, तेम लक्ष्मीनो समूह पण न्यायवत माणसनी पासे पोतानी मेलेज जाय ठे ॥ ७२ ॥

सवधी प्रणयं सर कुपलये सेना च रंगदूहयं ।

स्त्रीवाहुर्बल्यं पुरी च निखयैर्नृत्य च ताताल्यं ॥

गधर्पश्च रयं सजा सहृदयैरात्तव्रतो वाङ्मयं ।

शिस्यौघो त्रिनयं कुटा च तनयं राज्ञाति जूपो नयै ॥७३॥

अर्थ—जेम संवधि प्रीतिथी, तलाव कमलोथी, सेना उठलता घोणाओथी, स्त्रीनो हाथ चुडीओथी, नगरी मेहेलोथी, नृत्य “ ताता थड ” इत्यादिक तानोथी, घोमो वेगथी, सजा विद्वानोथी, मुनि शास्त्रोथी, शि-

प्योनो समूह विनयोथी तथा कुल जेम पुत्रोथी  
शोत्रे ठे, तेम राजा न्यायोथी शोत्रे ठे. ॥ ७३ ॥

नीति कीर्तिवधुविलाससदन नीति प्रसिद्धेधुरा ।

नीति पुण्यधराधिपप्रियतमा नीति श्रिया सगम ॥

नीति सज्जतिमार्गदीपकक्षिका नीति सखी श्रेयसा ।

नीति प्रीतिपरपराप्रसविनी नीति प्रतीतेपदम् ॥ ७४ ॥

अर्थ—नीति ठे ते कीर्तिरूपी स्त्रीने विलास करवानु  
घरठे, प्रसिद्धिने धारण करनारी ठे, पुण्यरूपी राजानी  
(वहाली) स्त्री ठे, लक्ष्मीनो संग करावनारी ठे, स-  
ज्जतिना मार्गमां दीपकनी कक्षिका सरखी ठे, कल्या-  
णोनी सखी ठे, प्रीतिनी परंपराने उत्पन्न कर्नारी  
ठे, तथा ते विश्वासनु स्थानक ठे. ॥ ७४ ॥

पृज्योपास्ति रनादरोऽधमनरे नो वचना धमिणाम् ।

सत्या वाक् पुरत प्रजोरनुचिनत्यागोऽनुरागो निजै ॥

सगं साधुषु नित्यकृत्यकरण स्नेह सहजस्विज्जि-

दीनानाश्रजनेषु चोपकरण न्याय्योऽयमध्या सताम् ॥ ७५ ॥

अर्थ—पूज्योनी सेवा, नीच माणसमा श्रनादर, धर्मी  
माणसोने नहीं ठगवापणु, शेठनी समीपे सत्य वाणी,  
अनुचित(आचरणोनी)त्याग, सगाश्रोनी साथे प्रीति,  
साधुश्रोनी सोवत, नित्यकर्मोनु करवापणुं, प्रतापी-  
जनी साथे स्नेह, तथा दीन श्रने श्रनाथो प्रते उपकार  
एवी रीतनो स



## हवे पैशून्य प्रकृतम कहे ठे

चेत्पापापचय चिकीर्षसि रिपोर्मूर्ध्नि क्रमां धित्ससि ।

क्लेशध्वसमञ्जीप्तसि प्रवसन सर्वागसा दित्ससे ॥

दु कीर्तिं प्रजिहीर्षसि प्रतिपद प्रेत्यश्रिय क्षिप्तमे ।

सर्वत्र प्रविधेहि तत्प्रियसखे पैशून्यशून्य मन ॥ ७६ ॥

अर्थ-हे प्रियमित्र! जो तु पापोने नाश करवाने इच्छतो होय, शत्रुना मस्तकपर पगो भुक्वाने ( अर्थात् शत्रु-जैनो नाश करवाने) इच्छतो होय क्लेशानो विध्वंस करवाने इच्छतो होय, सर्व अपराधोने दूर करवाने इच्छतो होय, पगळे पगळे अपकीर्तिने हरवाने इच्छतो होय, तथा पुनर्जवमा जो लक्ष्मी (मिलवाने) इच्छतो होय; तो सर्व जगोए तु (तारा)मनने चुगलीथी रहित कर?

नाश्रौ नीररह न सर्पलपने पीयूषपुर प्रजा ।

ऋतुर्नान्युदयश्च पश्चिमगिरौ वल्ली न च व्योमनि ॥

न स्थय पवने मरौ न मरतामूर्त्तिरह स्याद्यथा ।

दौर्जन्ये यशसा तथा नहि जग सोमत्विषा सोदर ॥ ७७ ॥

अर्थ-जेम अग्निमा कमल, सर्पनी जी जमां अमृतनो समूह, पश्चिम गिरिपर सूर्यनो उदय, आकाशमा वेलक्ष्मी, पवनमा स्थिरता, तथा मारवाकृमा कल्पवृक्ष होतु नथी, तेम दुर्जनतामा चद्र समान (उज्वल) यशनो समूह खरेखर यतो नथी ॥ ७७ ॥

तत्पत्तिमनुद्यम प्रकटयन् कीर्तिं च कुर्वन् क्वि ।  
 प्राणान् प्राणञ्जिता हरश्च सुकृत नृत्य वितन्वस्तृषाम् ॥  
 आरोग्यं च गिलन्नपथ्यमशनं प्रिया च निद्रा दधत् ।  
 काहल्येप यदीदृते सुजगता पशून्यमासूत्रयन् ॥ ७८ ॥

अर्थ—जे माणस चुगली करतो थको सौजाग्यप  
 णाने इष्टे ठे, ते माणस उद्यमविना संपदाने इष्टे ठे,  
 ककास करतो थको कीर्तिने इष्टे ठे, प्राणीश्रोना प्राणोने  
 हरतो थको पुण्यने इष्टे ठे, लज्जाने धरतो थको नाच-  
 वाने इष्टे ठे कुपथ्य भोजन करतो थको निरोगीपणाने  
 इष्टे ठे, तथा निद्रा लेतो थको विद्याने इष्टे ठे (अर्थात्  
 ते सघड्डु असन्नवित एटले न वने तेवु ठे) ॥ ७८ ॥

धर्मं धुनोति त्रिधुनोति धिया समृद्धि ।  
 इत्याषा सिनोति च हुनोति दयाप्रियासम् ॥  
 चिता चिनोति च तनोति तनूप्रताप ।  
 क्रोधं धिनोति च नृणां पिशुनत्वमेतत् ॥ ७९ ॥

अर्थ—चुगलीपणु माणमोना धर्मने नाश करे ठे,  
 बुद्धिनी समृद्धिने हूर करे ठे, कीर्तिने गली जाय ठे,  
 दयाना विलासने हुजावे ठे, चिता उपजावे ठे, शरीरने  
 ताप थापे ठे, तथा क्रोधने वधारे ठे. ॥ ७९ ॥

सांजाग्यादिन सुदरी  
 मुद्योगादिन स. स. येवरीधि श्रिया  
दिमिद्धि पुन ॥

पीयूषादिव नीरजत्वमचिरात् पृजा च पुण्यादिव ।

स्फुर्जकीतिजरो नर पिशुनतात्यागाहुपागञ्जति ॥ ८० ॥

अर्थ—सौजाग्यथी जेम सुंदरी, उत्तम विनयथी जेम विद्या, उद्यमथी जेम लक्ष्मीनी श्रेणि, साहसथी जेम महामत्रादिकनी सिद्धि, अमृतथी जेम तुरत निरोगीपणुं, तथा पुण्यथी जेम मोटाइ मले ठे, तेम चुगलीना त्यागथी माणसने स्फुरायमान कीर्तिनो समूह प्राप्त थाय ठे ॥ ८० ॥

हवे सत्सगप्रक्रम कहे ठे

यत्पकोऽपि नरेन्द्रजालफलके कस्तूरिकाजावजाइ ।

काचोऽप्याजरणेपु चूपसुदृशा हीरोपमा याति यत् ॥

यत्काकोऽपि रसाक्षशालशिखरे ताद्याहतामश्नुते ।

तत्सगान्महता जप्रत्यपि गुणहीना गुणाना गृहम् ॥ ८१ ॥

अर्थ—राजाना ललाटस्थलमा कादव पण जे कस्तूरीना जावने जजनारो थाय ठे, तथा राणीशोना आश्रूणोमा काच पण जे हीरानो उपमाने प्राप्त थाय ठे, तेम आवाना वृद्धनी टांचपर रहेलो कागमो पण जे कोयलपणाने जजे ठे, ते सघळु उत्तमना सगथी थण्डु ठे, माटे एवी रीते गुणहीनो पण उत्तमना सगथी गुणोना स्थानकरूप थाय ठे ॥ ८१ ॥

पापापापहिताहितप्रियतमाप्रेयोऽजिधेयेतर

ध्येषाध्येयशुजाशुजप्रकटनञ्जेके विवेके रति ॥

यूना चेतसि कादिशिकहरिणीनेत्रेय चेव प्रिया ।

तत्मत्सगमजगरगरसिका सेरधमात्मप्रिया ॥ ७२ ॥

अर्थ—अज्ञग रंगमां रसिक तथा आत्मा ठे प्रिय जे-  
मने एवा हे प्राणीजी युवानोना मनमां दिड्मूढ यएली  
हरिणी सरखी आखोवाली स्त्री, जेम प्रिय ठे, तेम  
तमोने पाप, धर्म, हित, अहित, प्रिय, अप्रिय, अ-  
जिधेय, अनजिधेय, ध्येय, तथा शुभ अने अशुभ-  
नाश्रतरने जाणवाना विवेकमां जो खुशी होय, तो  
तमो सज्जनोनी संग अंगीकार करो ?

कीर्ति कदलयत्यर्घं दलयति प्रह्लादमुद्गासय

त्यायास निरण्जि बुद्धिपिजय सूते निशेते रिपून् ॥

श्रेय सचिनुते च धधुरधिय धत्ते पिधत्ते जय ।

किं किं कल्पयतेव नैव तनुते मद्य सता सगति ॥ ७३ ॥

अर्थ—सज्जनोनी सोवत कीर्तिनु मूल नाखे ठे, पापने  
दली नांसे ठे, हर्षने उपजावे ठे श्रमने रोके ठे, बुद्धिना  
विजवने उत्पन्न करे ठे, शत्रुजने नाश करे ठे, कल्याणने  
एकतु करे ठे, मनोहर बुद्धि आपे ठे, तथा जयने  
आछादित करे ठे, एवी रीते सज्जनोनी सोवत क-  
ल्पवल्लीनी . . . . . शु शु (उत्तम) कार्य नथी-क-  
रती ? . . . . . उत्तम कार्यों करे ठे )

सगात्सता प्रथितबुद्धिसमृद्धिमिद्धे-  
रश्चै पद समुपयात्यपमाननीया ॥

यत्सूत्रतनुमपि सौरजसारपुष्प

सगाद्गृहति मुकुटेषु नराधिनाथा ॥ ७४ ॥

अर्थ—विस्तार करेल ठे बुद्धिनी सपदानी सिद्धि जेणे  
एवा सत्सगथी नीच पण उची पदवीने पामे ठे, केमके  
सुगधयुक्त उत्तम पुष्पोनासगथी सुतरना तांतणानेपण  
राजाळ (पोताना) मुकुटोमा धारण करे ठे ॥ ७४ ॥

दत्ते चेद्भसना पति फलचृतामायुश्च पाथ्योजजू ।

स्थंयं निर्जरजूधर सुरगुर्गीं कौशल चातुलम् ॥

सर्वज्ञत्वमुमापतिश्च रजनीराज कला पेशला ।

स्तोतुतास्तदय क्षमेत महता ये सगत स्युर्गुणा ॥ ७५ ॥

अर्थ—सज्जानोना सगथी जे गुणो उत्पन्न थाय ठे, ते  
गुणोनी स्तुति करवाने तो, जो शेषनाग पोतानी  
जीजो आपे, ब्रह्मा आयुष्य आपे, मेरूपर्वत स्थिरता  
आपे, सुरगुरु वचनोनु अतुल्य कौशल आपे, महादेव  
सर्वज्ञपणु आपे, तथा चंद्र जो पोतानी मनोहर क-  
लाळ आपे, तोज तेनी स्तुति थड शके ॥ ७५ ॥

हवे मन शुद्धिप्रक्रम कहे ठे

चेद्वाचो निषिकारा यदि शमनिचृते नेत्रपत्रे पत्रिणे ।

गाने सध्यानमुद्रा यदि यदि च गतिर्मदमदप्रचारा ॥

क्रोधादीना निरोधो यदि यदि च वनेऽप्रस्थिति प्रीतिपूर्णा ।

क्लेशावेशप्रवेशञ्चिदिह हृदि तदा स्वैरमन्येति शुद्धि ॥ ७६ ॥

अर्थ.—हे प्राणी! जो, वाणी विकार रहित होय, नेत्रो समतायुक्त होय पवित्र एवा गात्रपर (मुखपर) उत्तम ध्याननी मुझा होय, गति मंदमंद प्रचारवाली होय, क्रोधादिको नो निरोध होय, तथा प्रीतिपूर्वक जोवनमा स्थिति होय तो क्लेशना आवेशना प्रवेशने वेदनारी (मननी) शुद्धि पोतानी मेलेज हृदयमा प्राप्त थाय ठे

अस्मां जस्मान्यग किमु किमुत ज्माम् विभुवन ।

जटाटोप कोऽय किमु उपरिद निप्रिसनम् ॥

कचालोच कोऽय प्रचुरतपसा कि च तपन ।

न चेन्नत शुद्धि सुकृतमफलीकारकरणम् ॥ ७७ ॥

अर्थ—जो पुण्यने सफल करवाना कारणरूप एवी मननी शुद्धता न होय तो शरीरे जश्म चोलवार्थी शु थवानु ठे ? तेम पृथ्वीपर लोटवार्थी पण शु थवानुं ठे ? जटानो आटोप धारण करवार्थी शु थवानु ठे ? शरीरने वस्त्र रहित राखवार्थी शुं थवानु ठे ? वालोनो लोच करवार्थी शुं थवानु ठे ? तथा घणा तपो तपवार्थी पण शु थवानुं ठे ? ( मननी शुद्धि विना सघलु निष्फल ठे. ) ॥ ७७ ॥

स्वैर भ्रमन् जगति चित्तनिशाकरोऽय ।

यैर्यत्रितः नुकृत्यमनोहमत्रै ॥

तेषामशेषमुग्धपोषिणि सिद्धिसौधे ।

वास सदा समजनिष्ट समाधिजाजाम् ॥ ८८ ॥

अर्थ—समताने जजनारा एवा जे माणसोए, जग  
तमां स्वेष्टाचारथी भ्रमण करता एवा चित्तरूपी राक्ष  
सने पुण्यना कार्योंरूपी मनोहर मंत्रोए करीने यत्रि  
करेलो ठे, ते माणसोनो सर्व सुखोने पोषण करना  
एवा मोक्षरूपी मेहेलमां हमेशा वास थएलो ठे ॥८८॥

विना मन शुद्धिमशेषधर्म

कर्माणि कुर्वन्नपि नैति सिद्धम् ॥

दृग्भ्या विना कि मुकुर करेण ।

वहन्नपीक्षत जन स्वरूपम् ॥ ८९ ॥

अर्थ—मननी शुद्धिविना सर्व धर्मकार्योने करतो  
एवो पण प्राणी मोक्षमा जइ शकतो नथी, केमके हा  
थमा आरीसो पकनीने फरतो, एवो पण प्राणी आ  
खोविना पोतानु स्वरूप जोइ शकतो नथी ॥ ८९ ॥

दृती मुक्तिमृगीदृशो यदि मन शुद्धि विधातु रति

स्तत्स्वर्ण रमणीजने च हृदय रक्ष्य प्रतुन्यत्ससे ॥

एतद्धोत्रजराजिह्वतहृदये न स्वार्थसार्थप्रथा ।

प्राहुर्जाविमुपैति शवररुहा रोह शिजायामिव ॥ ९० ॥

अर्थ—हे मीत्र । मुक्तिरूपी स्त्रीने (वश करवामा  
इती समान, एवी मननी शुद्धिने धारण करवानी जं  
तने क्षमा होय, तो सुवर्ण अने मनोहर एवी स्त्रीम

लोजातां एवा (तारा)हृदयनु तारे रक्षण करवु जोइए;  
केमके, लोचना समूहथी पराजव पामेलां हृदयमां,  
शिलामां जेम कमलोनुं उगवु तेम, आत्मार्यना स-  
मूहना विस्तारनी उत्पत्ति थती नथी.

इवे द्यूतप्रक्रम ( जुगारनु प्रक्रम ) कहे ठे

जक्ति जनक्ति विनय विनिहति तृष्णा ।

पुष्पाति तर्जयति वर्यमजर्यरीर्यम् ॥

पूजा पराजयति नीतिमपाकरोति ।

द्यूत विदूरयत तद्व्यमनाध्वसूतम् ॥ ९१ ॥

अर्थ—हे प्राणीउं । जे जुगार जक्तिने तोकीपाडे ठे,  
विनयने नाश करे ठे, तृष्णाने पुष्ट करे ठे, मनोहर  
तथा निविह एवा वीर्यनी तर्जना करे ठे, पूजानो  
(कीर्तिनो)पराजव करे ठे, तथा नीतिने दूर करे ठे, एवा  
दु खना मार्गने उत्पन्न करनारा जुगारने तमो दूर करो  
वध्या घान्नि ग्रधू विधाय स कुधीधुर्य- सुतानीहते ।

ऊपापातमुपेत्य पर्वतपते प्राणान् स च प्रेप्स्यति ॥

सञ्चिन्नामधिष्ठ्य नानमुदधे कूल च काक्षत्यमां ।

कृत्वा नैतनकौतुक प्रचुरते चित्तस्पृहा यो जन् ॥ ९२ ॥

अर्थ—जे मूर्ख माणस जुगारनु कौतुक करीने धननी  
इष्टा करे ठे, ते कुबुद्धिनो सरदार माणस घरमा वंध्या  
स्त्री राखीने पुत्रोने इष्टे ठे, मेरुपर्वतपरथी ऊपापात



करीने ते प्राणोनी इछा राखे ठे, तथा ठीङ्गवाला वाहा-  
णमां वेसीने ते किनारे पहोचवानी इछा करे ठे ॥ ९२ ॥

घ्रातृन् नृत्तराजिनृत्त इव यद्भ्रुव्यो दृशा नेष्टते ।

नक्षोक्ति शृणुते न च ज्वरितवद्यदत्तचित्त पुमान् ॥

लज्जामुज्जति मद्यमूर्च्छित इवासश्च यत्र द्रुत ।

द्रुत त्रित्तिविनाशन त्यज सखे तन्मूर्खमन्त्रीमित्र ॥ ९३ ॥

अर्थ—जे जुगारमा आसक्त थएलो माणस, जाणे  
नृतोना समूहथी पराजव पामेलो होय नहीं जेम, तेम  
चाडउने तो आंखेथी जोतो पण नथी, तेम ते जुगा-  
रमा रहेला चित्तवालो माणस ताप चढेलानी पेठे  
सेवकना वचनने पण साजलतो नथी, वली तेमां लीन  
थएलो माणस मदिराथी मूर्च्छित थएलानी पेठे तुरत  
लज्जानो पण त्याग करे ठे, माटे हे मित्र! मूर्खनी मित्रा-  
इनीपेठे धननो नाश करनारा, एवा जुगारते तु ठोनीदे

यत्रापदा वृद्धमुपैति वृषि ।

कदस्तरुणामित्र वारिन्मौ ॥

त्यजति तत्कि न मनीषिमुखा ।

द्रुत दुराकृतमनूतमाय ॥ ९४ ॥

अर्थ—जे जुगारमा, जलवाली जमीनमां जेम वृद्धोनु  
मूख, तेम डु खोनो समूह वृद्धि पामे ठे, एवा डुष्ट  
आशयवाला, तथा उत्तमजनोथी नहीं स्तुति कराएला  
जुगारने, हे पण्डितमुखो ! तमो केम तजता नथी ?

स्थान शून्यगृह प्रिटा महचरा स्निग्धश्च वेश्याजन ।  
 पार्षद्या परमोपिण परिजना कादवरिपायिन ॥  
 व्यापारश्च परप्रियापरिचय ख्यातिश्च त्रिचव्ययो ।  
 येषा द्यूतकृता कथामपि कथं कुर्यात्सम तै सुधी ॥ ९४ ॥

अर्थ—जे जुगारीश्रोनु स्थानक तो उज्जान घर  
 होय ठे, जेश्रोना सोवतीश्रो तो लफगाउं होय ठे,  
 वेश्यास्त्रीउं जेउंनी स्नेही होय ठे, लोकोने ठगनारा  
 माणसो जेउंनी पासे वेसनारा होय ठे, मदिरापान  
 करनारा जेउंनो परिवार होय ठे, परम्त्रीना परिचय-  
 रूप जेश्रोनो व्यापर होय ठे, तथा धनना नाशरूपी  
 जेउंनी रघाति होय ठे, एवा जुगारीउंनी साथे उत्तम  
 बुद्धिवाने वात पण जामाटे करवी जोइए? ॥ ९४ ॥

हवे मासप्रक्रम कहे ठे

नि क्णेष्विष्य गीतिरीतिरफजा सद्भ्यानधारेयता ।  
 कारण्यस्य कथा वृथा मृगदशा दृकेतिरधेष्विव ॥  
 निर्जोषेष्विष्य वस्त्रेपरचना वेदग्ध्यबुद्धिर्मुधा ।  
 मासास्वादिषु देहिषु प्रणयिता व्यर्था लतेवाग्निषु ॥ ९५ ॥

अर्थ—वहेरा माणसो प्रते जेम गायननी रचना,  
 तेम मांस जक्षण करनाराश्रोमां ध्याननु धोरेयपणुं  
 निष्फल ठे, वली आंधलाउं प्रते जेम स्त्रीउंना कटा-  
 द्दोनी क्रीडा, तेम तेउं प्रते करेली दयानी कथा पण  
 निष्फल ठे, वली मुरुदाउं प्रते जेम वद्वानूपणनी

रचना, तेम तेजमां रहेली चतुराशनी बुद्धि पण नि-  
प्फल ठे, तथा अग्निमा जेम वेळडी, तेम तेज प्रते  
स्नेहजाव राखवो ते पण वृथा ठे ॥ ९५ ॥

हित्वा हारमुदारमौक्तिकमय तैर्धौयतेऽहिर्गले ।  
त्यक्त्वा क्षीरमनुष्णधामधन्य मूत्र च तै पीयते ॥  
मुक्त्वा चदनमिष्टुकुदविशद तैर्नृतिरन्यग्यते ।  
सत्यज्यापरजोग्यमद्भुततर यैरामिष जुज्यते ॥ ९६ ॥

अर्थ—जे माणसो वीजां अत्यंत मनोहर जोजनने  
तजीने मांसनु जक्षण करे ठे, तेज मोतीश्रोना म-  
नोहर हारने तजीने गळामा सर्पने नाखे ठे, चड-  
सरखा सफेद झूधने तजीने तेज मूत्र पीए ठे, तेम  
चड तथा मोलर सरखा निर्मल चदनने तजीने ते-  
श्रो शरीरपर राख चोळे ठे ॥ ९६ ॥

स्व ज्वालाजटिलेऽनले स वहले क्षिप्येहते शीतता ।  
मुत्सगे जुजग निधाय मत्रिष स प्राणित काशति ॥  
कीर्ति काम्यति चाकृशा कृपणतामासूय्य स त्रस्तधी  
र्य कर्तुं करणामचीप्स्यति जगो जग्ध्या पक्ष प्राणिनाम् ॥९७॥

अर्थ—जे बुद्धिविनानो मूर्ख माणस प्राणिश्रोनुं  
मांस जक्षण करीने दया करवाने इष्टे ठे, ते माणस  
ज्वालाश्रोथी व्याकुल थएला मोटा अग्निमा पोताना  
शरीरने फेंकीने ठरकने इष्टे ठे, तथा खोलामा केरी

सर्पने राखीने ते जीवितने इछे ठे, तेम अत्यत कृ-  
पणपणुं राखीने ते कीर्तिने इछे ठे ॥ ए५ ॥

चैतन्य त्रिपन्नकणादिव मंधो पानादिव प्राज्ञता ।  
विद्यालम्य समागमादिव गुणप्रामोऽजिमानादिव ॥  
शील स्त्रीजनसंस्तयादिव मन क्लेशादिव ध्यानधी-  
देवार्चाशुचितादिपुण्यमखिल मासाशनान्नश्यति ॥ ए६ ॥

अर्थ—जेम केरना नक्षत्राथी चैतन्य, मदिरापान-  
नथी डाहापण, आलसना समागमथी विद्या, अजि-  
मानथी गुणोनो समूह, स्त्रीश्रोना (अगोपागनी )  
प्रशसाथी शील, तथा मनना क्लेशथी जेम ध्याननी  
बुद्धि, तेम मासजक्षणाथी देवपूजा तथा पवित्रपणा-  
दिकथी (उत्पन्न थएलु) सर्व पुण्य नाश पामे ठे ॥ ए६

पारदारिकनरः परपत्नीं, तस्करश्च परकीयत्रिचूतिम् ॥

नोचुमिच्छति यथेह तथा सा, मामिपोपचितमामिपबुद्ध ॥ ए७

अर्थ—जेम परस्त्रीनो लालचुमाणस पारकी स्त्रीने  
इछे ठे, तथा चोर जेम परना धनने इछे ठे, तेम  
मासजक्षणाथी बुद्ध थएलो माणस मासथी पुष्ट थ-  
एला ( पशुने ) इछे ठे. ॥ ए७ ॥

हवे मद्यप्रकम कहे ठे

स्वामित्व समुपैति किकर्नर प्रेष्यत्वमेति प्रचु ।

शत्रु सोदरता, मुपैति नजते प्रत्यथिता सोदर ॥

जायात् जननी प्रयाति जननीजाय च जायाजनो ।

धर्मध्वसधुराधुरीणमधुन पानान्निचूतात्मनाम् ॥ १०० ॥

अर्थ—धर्मना नाशरूपी धोंसरीने धरवामा बलद स मान एवा मद्यपानथी पराज्व पामेल ठे आत्मा जेठनो एवा माणसो चाकरने शैठरूप लेखेठे, शैठने चाकररूप लेखे ठे, शत्रुने जाइ लेखे ठे, अने जाइने शत्रु लेखे ठे, तथा पोतानी माताने पोतानी स्त्रीतरिके लेखे ठे, अने पोतानी स्त्रीने पोतानी माता तरिके लेखे ठे ॥१००॥

ददात्यदेय च दधात्यधेय ।

गायत्यगेय च पिवत्यपेयम् ॥

जयत्यजेय च नयत्यनेय ।

न किं सुरापानकर करोति ॥ १०१ ॥

अर्थ—मदिरापान करनारो माणस नहीं देवाला-यक वस्तु दीए ठे, नहीं धारण करवा लायक धारण करे ठे, नहीं गावाजोग गाय ठे, नहीं पीवा लायक पीए ठे, नहीं जीत करवा लायकने जीते ठे, तथा नहीं लेइजग लायकने लेइ जाय ठे, माटे एवी रीते मदि-रापान करनार माणस शु कार्य नथी करतो ? (अर्थात् सघबु अयोग्य कार्य करे ठे ) ॥ १०१ ॥

यञ्जाम्यति गृहे गृहे विवसना यच्चत्वरे शेरते ।

यद्भूमौ निपतत्यमुद्भितमुखा यच्चारटति स्फुटम् ॥

यक्षीथीषु प्रिशति कोशितदृशो जटपत्यजटप्य च य-  
द्यद्ग्राह च रदति मूढमतयस्तन्मद्यविस्फुर्जितम् ॥ १०२ ॥

अर्थ—(मदिरापान करनारा मूढ बुद्धिवाला माणसो)  
जे घरे घरे जटक्या करे ठे, नम्र थड्ने चोवटामां  
सुइ रहे ठे, खुद्धा मुखो राखीने पृथ्वीपर पडे ठे,  
प्रगट रीते बराडा पाडे ठे, आखो वीचीने गलीश्री-  
मा प्रवेश करे ठे, नहीं बोलवालायक (अपशब्दो)  
बोले ठे, तथा जे अत्यंत रड्या करे ठे, ते सधनु  
मद्यपाननुं परिणाम ठे ॥ १०२ ॥

व्याधीनामग्धि पद च त्रिपदामुन्मादमाद्यक्षिया ।  
धामाधन्यगिरा गुहामयशसा स्थान मनि चैनसाम् ॥  
आधार च युधा क्रुधा परिपद सजोगञ्जमि त्रिया ।  
मुचाचारत्रिचारचाररचनानिर्गारिणीं वारणीम् ॥ १०३ ॥

अर्थ—डु खोनी सीमासरखी, आपदाओना स्था-  
नसरखी, उन्माद अने प्रमादनी बुद्धिना धाम सरखी,  
खराव वचनोनी गुफासरखी, अपयशना स्थानक स-  
रखी, पापोनी खाण सरखी, लकाइना आधार सर-  
खी, क्रोधनी सजा सरखी, जयोनी संगमजूमिसरखी  
तथा आचारना विचारनी मनोहर रचनाने अटका-  
वनारी एवी मदिराने, हे मित्र ! तु तजी दे? ॥१०३॥

मतिकमलिनीनाग ऋग छरुहहविर्जुज ।  
 प्रकटितदयादैन्यं सैन्य प्रमादमहीपते ॥  
 व्यसनपयसा सिधु बधु कपायधरास्पृशा ।  
 परिहर सुरापान यान विपत्पुरवर्त्मनि ॥ १०४ ॥

अर्थ—बुद्धिरूपी कमलिनीनो ( नाश करवामां )  
 हाथी समान, कुतर्करूपी अग्निप्रते चोकनासमान,  
 प्रगट करेल ठे दयाप्रते दैन्यत्ताव जेणे एवा, प्रमाद-  
 रूपी राजाना सैन्य सरखा, आपदारूपी पाणीना स  
 मुद्ग सरखा, कपायरूपी प्राणीर्जना वधुसरखा, तथा  
 छु सरूपी नगरना मार्गमां वाहन सरखा एवा सु-  
 रापानने, हे प्राणी ! तु तजी दे ? ॥ १०४ ॥

हवे वेश्याप्रक्रम कहे ठे

यद्यक्ल विटकोटिक्लनिपतक्षिष्टीयनाना घटी ।  
 यद्यहश्च जनगमादिजनतापाणिप्रहारास्पदम् ॥  
 यज्ञात्र बहुवाहुदरुनिविभ्रकोनीकृतिभ्रशित ।  
 प्रमेतासु दधाति धायकशिलातुड्यासु वेद्यासु क ॥ १०५ ॥

अर्थ—जे वेश्याश्रोनु, मुख, क्रोमो गमे लफगा-  
 र्जना मुखमांथी पडता थुकनी कुकी सरखु ठे, तथा  
 जेठनी ठाती चाराल आदिकना हाथोथी हणाएली  
 ठे, तथा जेश्रोनु थग घणा माणसोना . वाहुदरुना  
 आदिगनथी शिथिल थइ गयु ठे, एवी धोवीनी शीला-

सरस्वी वैश्यालमा कयो माणस प्रेमने धारण करे ?  
( अर्थात् कोइ पण धारण न करे ) ॥ १०५ ॥

रत्येयासममायक पशुपति पुत्र्येव जृमिचृत ।

शच्येग्राप्सरमापति मुररिपु पुत्र्येन पाथोनिधे ॥

रोहिण्येव सुधामरीचिरवने पुत्र्येन पौलस्त्यजिद् ।

वाहुन्या परिरन्यते गणिकया त्रितेहया दुष्टयपि ॥ १०६ ॥

अर्थ - कामदेव जेम रतीथी, महादेव जेम पार्वतीथी,  
इन्द्र जेम इन्द्राणीथी, विष्णु जेम लक्ष्मीथी, चंद्र जेम  
रोहिणीथी, तथा राम जेम सीताथी आलिगन कराय  
ठे, तेम कुष्टी पण गणिकाथी (फक्त) धननी इष्टाए  
करीनेज वझे हाथोथी आलिगन कराय ठे ॥१०६॥

यासु व्रजन् याति जन कदाचि

ज्ञाम्या च प्रातर्यपि मोहमूढ ॥

अनेकलोकै प्रतिसेवितासु ।

कि तासु वेश्यासु रति शुजाय ॥ १०७ ॥

अर्थ-जे वैश्यालं प्रते गमन करनारो माणस कोइ  
वखते तो वेहेन तथा माताप्रते पण मोहथी मूढ यइ  
जाय ठे, एवी अनेक लोकोथी सेवाएली ते वैश्यालं-  
मा ( करेली ) प्रीति शु कल्याणकारी निवडे ठे ?  
( अर्थात् नथीज नीवडती ) ॥ १०७ ॥

धन प्रीति धनमपि च रूप निरुपम ।

धन धनमपि च बुद्धिनिग्वधि ॥



धन देवो यासा घनमपिच यासा गुररिह ।

विधत्ते वेश्यासु प्रणयमिह कस्तासु मतिमान् ॥ १०८ ॥

अर्थ—जे वेश्याश्रोने प्रीति, निरूपम रूप, मनोहर  
आचार, अत्यंत बुद्धि, देव तथा गुरु पण धनज ठे, एवी  
वेश्याजमां कयो बुद्धिवान माणस आ जगतमां प्रेम  
धारण करे? (अर्थात् कोइ पण न करे) ॥ १०८ ॥

मास्र स्मर स्मरनरेश्वरस्थिनीना ।

तासा पणाबुजदशा हि दशा विखासान् ॥

यद्भूपदीपकखिकासु मनोहरासु ।

स्नेहदयासु बहव शखजीजवन्ति ॥ १०९ ॥

अर्थ—हे प्राणी ! कामदेवरूपी राजानी सेना समान,  
एवी ते वेश्याजना आंखोना कटाक्षोनुं तु स्मरण नहीं  
कर? केमके जे वेश्याजनां स्नेहने क्षय करनारी (ते-  
खने क्षय करनारी) रूपरूपी मनोहर दीवानी शिखा  
जमा घणा माणसो पतंगीश्रानी क्रीडाने प्राप्त थाय  
ठे (अर्थात् ठेवटे मृत्यु पामे ठे) ॥ १०९ ॥

हवे पापर्धि ( शिकारनु ) प्रक्रम कहे ठे

तेज्य स्वापदपेटकै महसुरै सर्वरपित्रस्यते ।

तै सार्धं जपणा प्रमति विपदा पूराङ्गप्रोन्मुखा ॥

विध्यते विविधायुधैश्च पशान् पुण्यै सम तै समे ।

ये मूढा अटनीमटन्ति विकटा प्रारब्धपापर्द्धय ॥ ३१० ॥

अर्थ—धारण करेल ठे शिकारनु व्यसन जेठण, एवा

जे मूढ माणसो (शिकारमाटे) जयकर जंगलमां ज-  
टक्या करे ठे, तेथोथी वनवासी प्राणीथो सहित  
सघळां सुखो पण त्रास पामे ठे, वली तेथोनी सा-  
थेज वेगवाला कुतराळ सहित दुःखना समूहो पण  
जम्या करे ठे, वली विविध प्रकारना आयुधवाला  
एवा तेथो पशुथोनी साथे (पोताना) पुण्योने पण  
वीधी नाखे ठे ॥ ११० ॥

सपर्क नरकं कलिं च कुशलैर्वर मता सगमं ।

प्रीतिं नीतिर्नरै रथं परिचय प्रेमापदा प्रापणं ॥

उद्देग विनयैर्नयैरमिलन चेदीहसे हे सखे ।

सत्वव्रातजयकर बुर तदा साटोपमाडोटनम् ॥ १११ ॥

अर्थ—हे मीत्र! जो तु नरकसाथे सगम करवाने,  
पुण्यसाथे क्लेश करवाने, सज्जनोनी सोवतसाथे वैर  
करवाने, जयना समूहसाथे प्रीति करवाने, पापोनी  
साथे परिचय करवाने, दुःखदायक वस्तुजसाथे प्रेम  
करवाने, विनयसाथे उद्देग करवाने, तथा न्यायसाथे  
नहीं मलवाने इष्टतो होय, तोज प्राणीजना समूहने  
जय करनारा एवा शिकारने घाटोपसहित कर ? १११

आश्रदा वनवासिनाममुमता गीतानि तेषामसृक् ।

कुट्या कुकुमहस्तका अनुचरा कुरा शुना राशय ॥

जनुव्रातपखान्धो रसवती यस्मिन् मृगव्यामहे ।

श्वन्नस्त्री गयुजि कस्तत्र गच्छेत् सुधी ॥ ११२ ॥

अर्थ—जे शिकाररूपी ( विवाहना ) महोत्सवमां वनवासी प्राणीजना आक्रदरूपी गीतो ठे, तेथोना रुधीरथी जराएलां खावोचीआठरूपी कुकुमना हाथा उं (ठापा) ठे, ज्यां क्रूर कुतराजना समूहो सोवतीउं (जानैया) ठे, वली अहो ! ज्यां प्राणीजना समूहना मांसनी रसोइ ठे, तथा ज्यां नरकरूपी स्त्री आवीने शिकारीजने आखिगन करे ठे, एवा ते महोत्सवमां कयो उत्तम बुद्धिवान माणस जाय?(अर्थात् न जाय )

ये नीर विपिनन्ति निर्जरजय कुजे च ये शेरते ।

ये धाशनन्ति तृणानि काननक्षुवि त्राम्यन्ति येऽहनिशम् ॥

ये च स्वैरिहारमारमुखिता निर्मन्तवो जन्तवो ।

हत्वा तान् मृगयासु क समजद्वयत्रेषु नाच्यागत ॥११३॥

अर्थ—जे विचारा निरपराधी ( वनवासी ) पशुजं जरणजनु पाणी पीए ठे, जाकीमां सुइ रहे ठे, घासो खाय ठे, वननी जूमिमा हमेशां ज्रमण करे ठे, एवी रीते जेजं स्वेष्टाचारी मनोहर विहारथी सुखी थए-ला ठे, तेथोने शिकारमां हणीने, कयो माणस नर-कनो परोणो थयो नथी ? ॥ ११३ ॥

जावान् घ्नता यत्र नज्जोऽनुचूगान् ।

जत्रयार्थं समुपैति हानिम् ॥

आखोटकं पेटकमापदा क ।

कौतूहलेनापि करोति धीमान् ॥ ११४ ॥

अर्थ—जे शिकारमा, खेचर, जलचर, अने थलचरने  
हणनारा शिकारीजना त्रणे पुरुषार्थी हानि पामे ठे,  
एवा डु खना समूहसरखा शिकारने क्रीडामात्रथी  
पण कयो बुद्धिवान आचरे ? (अर्थात् नज आचरे) ११४

हवे चौरिकाप्रक्रम कहे ठे

प्रहारो यद्यथाद्यं स्तदनु शिरसो मुक्नमथो ।

सरारोपाटोप स्तदनु च जगद्गालिसहनम् ॥

तत शूलारोहो ज्वति च ततो दुर्गतिगति

विचारितच्चौर्याचरणचरित मुचति न क ॥ ११५ ॥

अर्थ—जे चोरी करवाथी प्रथम तो लाकमी आदि  
कथी मार पडे ठे, पठी मुस्तक मुडावबु पडे ठे, पठी गधे  
डापर वेसबु पडे ठे, पठी जगतनी गालो सहन करवी  
पडे ठे, पठी शूलिपर चरबु पडे ठे, तथा तेथी ठेवटे  
दुर्गतिमा उपजबु पडे ठे, एवी रीतना चोरीना आच-  
रणना हवाल विचारिने, तेनो कोण त्याग न करे ? ११५

नृणा प्राणा बाह्या यदनघयशो यद्यदमल ।

कुजाचारो यच्चानुपममहिमा यच्चगरिमा ॥

कज्ञाना यत्केलिर्यदसमतमा रूपरचना ।

धन तर्घरात्त निसिलमपि तै सहस्रमिदम् ॥ ११६ ॥

अर्थ—जे धन माणसोना बाह्य प्राणो ठे, निर्दोष यज्ञ  
ठे, चार ठे, अनुपम महिमा ठे, मोटाइ ठे,

कलाञ्जनी क्रीना ठे, तथा जे अतुल्य रूपनी रचना ठे,  
एवु परधन जेठए चोरेखु ठे, तेठए सघलु हरेखु ठे

वैर विश्वजनैरकारि कलह कीर्त्या च लोकद्वयी ।

कृत्यैर्मत्सर उत्सवैश्च विरह सौख्यैरसूयोदय ॥

प्राणै रप्रियता प्रियैरखपन झोहश्च धर्मेन्द्रया ।

विश्रजेन हठश्च तैरतिशठै यैश्चौरिका निर्ममे ॥ ११७ ॥

अर्थ—जे अत्यत दुष्टोए चोरी करेली ठे, तेशोए  
जगतना लोको साथे वैर करेखु ठे, कीर्तिसाथे क्लेश करे-  
लो ठे, घने लोकोना कार्यासाथे मत्सर करेलो ठे, उ  
त्सवो साथे विरह करेलो ठे, सुखो साथे अदेखाडनो  
उदय करेलो ठे, प्राणोसाथे अप्रीति करेली ठे, स्नेहीञ्च  
साथे अवोला कर्या ठे, धर्मनी झुठा साथे झोह करेलो  
ठे, तथा विश्वास साथे हठ करेलो ठे ॥ ११७ ॥

तन्कीर्तिं कुमुदेन्दुबुन्दकाक्षिकाकर्पूरपूरोपमा ।

तत्स्फुति परमप्रमोदविलसत्पाधिच्यपाथ प्रपा ॥

तन्मूति स्मरपार्थिवस्मयशशिस्वर्जाणुरुद्ब्राजते ।

चाँय यैर्मुमुचे लसद्गुणगणारामैकदाजानलम् ॥ ११८ ॥

अर्थ—जेठए उलसायमान थता गुणोना समूहरूपी  
वगीचाने (वाखवामा) दावानल सरखी चोरीने तजे-  
ली ठे, तेठनी कीर्ति, चद्रविकासी कमल, चद्र, डोल-  
रनी कक्षी, तथा कपूरसरखी उज्जल ठे, तथा तेठनी  
स्फुर्ति, उत्कृष्ट हर्षथी फेलावो पामलु जे पवित्रपणुं

तेरूपी पाणीनी परब सरखी ठे, तेम तेथोनी मूर्ति,  
कामदेवरूपी राजाना (रूपना) गर्वरूपी चंद्रने (ग्रस्त  
करवामां ) राहुसरखी शोणे ठे ॥ ११७ ॥

श्रीकीर्तिविस्फुर्तिलताम्बुगाह ।

दौर्जग्यदैर्न्याम्बुजसप्तवाहम् ॥

विश्रजधाराधरगन्धवाह ।

विमुच चौर्य दुरितप्रवाहम् ॥ ११९ ॥

अर्थ-अपकीर्तिना फेडावारूपी वेलमीने (वृद्धि  
करवामां) वरसाद सरखी, दुर्जग्यपणु तथा दरिद्र-  
तारूपी कमलने (विकस्वर करवामां) सूर्य सरखी,  
अने विश्वासरूपी मेघने (नाश करवामां) पवन स-  
रखी, तथा पापोना प्रवाह सरखी, एवी चोरीने, हे  
प्राणी ! तु तजी दे ? ॥ ११९ ॥

हवे परस्त्रीप्रकस कहे ठे

नो हास्य सुरतप्रपचचतुर नालिगन निर्जर ।

नैवोरोजसरोजयुग्मल्लुठत् पाणिं प्रमीलामलम् ॥

नो विनाधरचुपन स्थिरतया बुर्यात् पुमान् प्रेयसी

मन्येषा रमयन्निकामचकित कामीति काम्या न ता ॥१२०॥

अर्थ-कामी माणस परस्त्रीनी साथे विलास करतो  
थको ते समये अत्यंत वीकनो भायों, तेणीनी साथे स-  
जोगना योग्य एवु हास्य करी शकतो नही  
तेणीने. नालिगन करी शकतो नही.

स्तनरूपी कमलना युग्मपर (बरोबर) हस्ताक्षेप करी शकतो नथी, (अत्यंत सुखथी) सारी रीते आंगो वींची शकतो नथी, तेम स्थिरताथी तेणीना विंवसरखा होठनु चुवन पण लेइ शकतो नथी, माटे तेवी पर-  
स्त्रीने (जोगववानी) इछाज करवी नहीं ॥ १२० ॥

पौराणा पुरत प्रपच्य महिमा दत्त पितृन्या स्वय ।

यो दत्त्वा स्वकर करेण च धृत सप्तार्चिणा साक्षिकम्

त हित्वा पतिमीहते यदितर या कामिनी कामिन ।

तन्नून कथमात्मसाद्भवति सा स्वच्छदसचारिणी ॥ १२१ ॥

अर्थ—जे पतिने नगरना लोकोनी समीपे महो-  
त्सवपूर्वक मावापे पोते आपेलो ठे, तथा जेने, पो  
तानो हाथ तेना (पतिना) हाथमा आपीने अग्निनी  
साक्षिण वरेलो ठे, एवा पतिने तजीने जे स्त्री वीजा  
कामी पुरुषने इछे ठे, ते स्वच्छदाचारी स्त्री खरेखर  
“पोतानी” शीरीते आय ? ॥ १२१ ॥

पूर्णाऽप्यन्यपराजवैकतमसा यत्नगतो अस्यते ।

प्रादुर्भूतकक्षकपककक्षित मुश्लोकशीतद्युति ॥

नीचाचारिण्यौ महानिज जवेदापातमात्रप्रिये ।

कोऽस्मिन् स्वैरविहारकारिणि सुधी प्रीत परस्त्रीजने ॥ १२२ ॥

अर्थ—जे परस्त्रीना संगथी प्ररयात अने सपूर्ण पण  
चक्र अन्यना (राहुना) पराजवरूपी कारथी ग्रस्त

थायठे, तथा उत्पन्न थएला कलंकरूपी पंकथीठवाएलो  
थयो ठे, माटे नीचना आचारनी विविमा जेम सज्जन,  
तेम एवी दुःखदायक तथा स्वेष्टाचारी परस्त्रीमां कयो  
उत्तम बुद्धिवान माणस प्रीतिवालो थाय ? ॥१२१॥

घोषेषु स्थितिमीहते स विमतिर्मुक्त्वा मराणा पुरीं ।

त्यक्त्वा मदरमेदिनीमयकरान्तुत्सातुमुत्कथ्य स ॥

पालु धावति मुक्तनिर्मलजल स ग्राममार्गोदकम् ।

त्यक्त्वात्मप्रमदा परप्रियतमा य सेवितु काङ्क्षति ॥ १२३ ॥

अर्थ—जे माणस पोतानी स्त्रीने तजीने परस्त्रीने  
सेववाने इष्टे ठे, ते बुद्धिविनानो माणस देवतानी नग-  
रीने गोडीने गोकुलमां (गायोना टोळामां) रहेवानुं  
इष्टे ठे, तथा (सुवर्णमाटे) मंदराचलनी जूमिने तजीने  
उकरमा खोदवाने इष्टे ठे, तेम निर्मल जल तजीने  
गामरानी गटरनु पाणी पीवाने ते इष्टे ठे ॥१२३॥

निजागनामगमनगरगा

दन्येषु प्रावत्सु यथात्मकोप ॥

तथा परंपामिति मन्यमाना-

स्त्यजन्ति सत परकीयपत्नी ॥ १२४ ॥

अर्थ—जेम अन्य माणसो, कामदेवना रगथी पोता-  
नी स्त्रीना संगमने इष्टे ठे, पोताने जेम क्रोध चडे  
ठे, तेम परने पण चडे, एवु विचारता थका सज्जन  
प्ररूपी त्याग करे ठे ॥ १२४ ॥



## हृवे इन्द्रियप्रक्रम कहे ठे

सारगान् भ्रमरानिजाश्च शलजान् मीनाश्च मृत्युगतान् ।

कर्णघ्राणशरीरनेत्ररसनाकामै प्रकामोत्सुक ॥

दृष्टा शिष्टपथप्रवृत्तिविपिनश्रेणीसमुत्पाटने ।

साटोपद्विपमिन्द्रियव्रजमिम धीमान् विधत्ते वशम् ॥ १२५ ॥

अर्थ—कान, नाशिका, स्पर्श, नेत्र तथा जीजना रसथी, (अनुक्रमे) हरिणो, भ्रमरो, हाथीउं, पतंगीश्चांउं, तथा माठलाउंने मृत्यु पामेला जोइने, उत्तम मार्गनी प्रवृत्तिरूपी वननी श्रेणिनो नाश करवामा उद्धत थएला हाथीसरखा, आ इन्द्रिउंना समूहने, बुद्धिवान माणस अत्यंत उत्सुक थइने वशमा राखे ठे ॥१२५॥

दृजाजोरहिणीविकाशनत्रिधां योऽज्जो जिनीवद्धजो ।

यो लापथ्यक्लाक्लापजलधौ पीयूषपादोपम ॥

य स्पर्धाप्रसुधारहासिजलदो यश्चोत्पथप्रस्थितौ ।

पारीणश्च तमुधुर विपयिणा व्रात जयन् जज्ञाक् ॥ १२६ ॥

अर्थ—जे इन्द्रिओनो समूह कपटरूपी कमलनीने विकस्वर करवामा सूर्यसमान ठे, तथा लपटतानी कलाना समूहरूपी समुद्रने (बुद्धि करवामा) चद्रसमान ठे, तेम जे स्पर्धारूपी वृद्धोनी पक्तिने (उगामवामा) वरसाद समान ठे, अने उन्मार्गना प्रस्थानमा जे पारंगामी ठे, एवा उद्धत इन्द्रिउंना समूहने जीततो थको प्राणी कल्याणने जजनारो थाय ठे ॥ १२६ ॥

स प्राज्यैर्ज्वलनैधिना रसवतीपाक चिकीर्षु कुधी  
 स्त्यक्त्वा पोत मगाधगाधितरण दोन्यां विधित्सुश्च स ॥  
 बीजाना वपनैत्रिनेह्वति स च क्षेत्रेषु धान्योक्तम् ।  
 योऽक्षाणा विजयैरिना स्पृहयति ध्यान विधातुं शुभम् ॥२१॥

अर्थ—जे माणस इंद्रिजना जीतवा विना शुभ ध्यान  
 धरवाने इष्टे ठे, ते कुबुद्धि माणस देदीप्यमान अग्नि  
 रिना रसोऽपाक करवाने इष्टे ठे, तथा बहाणने तजीने  
 हाथोधी अगाध समुद्र तरवाने इष्टे ठे, तेम बीज वा-  
 व्याविना ते क्षेत्रोमा धान्यनी उत्पत्तिने इष्टे ठे ॥२१॥

रागक्षेपविनिर्जयाम्बुजप्रने य पक्षिनीना पति ।  
 कृत्याकृत्यत्रिनेकाननपथोराहप्रमाहश्च य ॥  
 य सद्बोधत्रिरोधजधरशिर शत्रुप्रहारोपम ।  
 साम्योद्धाममय तमिद्रियजय कृत्या ज्ञानान्त्वान् ॥ २० ॥

अर्थ—जे इंद्रिजनो जय, रागक्षेपना जयरूपी कम-  
 लोना वनने (विकस्वर करवामां) सूर्यसमान ठे, तथा  
 जे कृत्याकृत्यना विवेकरूपी वनने (वृद्धि करवामां)  
 वरसादना प्रवाहतुद्वय ठे, तेम जे उत्तम बोधना विरो-  
 धरूपी पर्वतना शिखरने (जेदवामां) वज्रना प्रहार-  
 तुद्वय ठे, एवा समताना उद्धासवाला इंद्रिथोना जयने  
 करीने, हे प्राणी। तु आनदित था ? ॥ २१० ॥

विद्वामो बहुशो त्रिचारवचनैश्चेतश्चमत्कारिण ।

शूरा सति-मूहसशश्च समरव्यापारवज्रादरा ॥

दातारोऽपि पदे पदे धनधनै कटपट्टुकट्टपा कलौ ।

ते केऽपीन्द्रियतस्करैरपहृत येषा न पुण्य धनम् ॥ २२९ ॥

अर्थ—(आ जगतमा) विचारपूर्वक वचनोए करीने चित्तमां आश्चर्य उपजावनारा घणा विद्वानो ठे, तेम रणसंग्रामरूपी व्यापारमां आदरवाला थएला एवा शूराउ पण हजारो गमे ठे, तेम घणां धनथी आ कलिकालमां कटपट्टुक सरखा पगले पगले दान देनाराथो पण घणा ठे, पण जेश्योनु पुण्यरूपी धन इन्द्रियोरूपी चोरोए चोरेलु नथी, एवा तो विरलाज होय ठे ॥१२९॥

हवे दयाप्रकम कहे ठे

शत्रुस्यैव सुरद्विपो मधुरिपोरेवारुजाना पति ।

श्रीदस्यैव च पुष्पकं पशुपतेरेवोदूचूमाणि ॥

स्कदस्यैव जुजगनुगणपतेरेवोडुरो वाहन ।

धन्यस्यैव शिवाध्वनि प्रदिदिता यान कृपा कोप्रिदै ॥१३०॥

अर्थ—उडनुज जेम ऐरावण हाथी, विष्णुनुज जेम गरुड, धनदनुज जेम पुष्पकविमान, महादेवनुज जेम चलद, कार्तिकेयनुज जेम मयूर, तथा गणपतिनुज जेम उदर वाहन ठे, तेम मोक्षमार्गप्रते (जवामा) कोइ धन्य माणसनुज दयारूपी वाहन होय ठे, एम पमितोए कहेलु ठे ॥ १३० ॥

गान्धिर्यं जलधेर्धनं धनपतेरैश्वर्यमेके कृणात् ।

सौंदर्यं स्मरत श्रियं जलशयादायुश्च दीर्घं ध्रुवात् ॥

सौजाग्यं शुभं मश्विनीसुतयुगाच्चक्ति च सत्या सुता-  
ह्लात्वा तं विदधे विधिविधिमनाश्चक्रेकृपा योऽंगिषु ॥ १३० ॥

अर्थ—जे माणसे प्राणीओ प्रते दया करेली ठे, तेने  
विधिमा ठे चित्त जेनुं एवा ब्रह्माए समुद्रमांथी गंजीर-  
ताने, कुबेरपासेथी धनने, महादेवपासेथी ऐश्वर्यने,  
कामदेवपासेथी सुदरताने, विष्णुपासेथी लक्ष्मीने, ध्रुव  
पासेथी दीर्घ आयुष्यने, अश्विनीपुत्रोपासेथी मनोहर  
सौजाग्यने, तथाव्यासपासेथी शक्तिने लेइने वनावेलो ठे

नानामौक्तिकरुहेमविद्रुममणिद्युन्नाहय गोमय ।

द्रुग्ध द्रुग्धपयोधिहारिलहरिशुभ्र यश सचयम् ॥

त्रिंश्व विश्वजनेहनीयमहस स्वर्गापवर्गोदय ।

या यच्चत्यनिश दयामग्गरी मा रक्षयतामक्षयम् ॥ १३१ ॥

अर्थ—जे दयारूपी कामधेनु, हमेशां नाना प्रकारना  
नोती, सुवर्ण, परवालां, मणि तथा धनरूपी गोमयने  
(वाणने) आपे ठे, तथा क्षीर समुद्रना मनोहर मो-  
जां सरखा श्वेत यशना समूहरूपी दूधने आपे ठे,  
बली जे जगतमां मनोहर प्रजाबवाला एजा स्वर्ग  
अने मोक्षना उदयरूप वत्सने ( बाठरमाने ) आपे  
ठे, एवी दयारूपी कामधेनुनु जेम तेनो विनाश न

अस्ताप्रेस्दय रवे स लवणान्माधुर्यमास्यादहे ।

पीयूष च कुहोरनुष्णकिरण हानि कुपथ्याद्गुजाम् ॥

पावित्र्य श्वपचाद्दिन च रज्जने दीक्षा श्रिया सग्रहात् ।

काताराक्षगर च काक्षति यथाद्यो धर्ममिन्द्रत्यधी ॥ १३३ ॥

अर्थ—जे बुद्धिविनानो माणस(प्राणीश्रोता)पधर्मी

धर्मने इष्टे ठे, ते अस्ताचलप्रतेथी सूर्यना उदयने इष्टे

ठे, लवणमाथी मीठाशने इष्टे ठे, सर्पना मुखमाथी

जेरने इष्टे ठे, अमावास्याथी चंद्रने इष्टे ठे, अपथ्य जो-

जनथी रोगोनी हानिने इष्टे ठे, चाडालथी पवित्रप-

णाने इष्टे ठे, रात्रीथी दिवसने इष्टे ठे, लक्ष्मीना सग्र-

हथी दीक्षाने इष्टे ठे, तथा ते वनमाथी नगरने इष्टे ठे

धर्माणा निधिरास्पद च यशसा सज्जोगर्जमि श्रिया

मास्थान महसा च ज्वरत्रिपदा यान जयाज्जोनिधौ ॥

स्वध सन्मतिपीरुधा प्रियसखी स्वर्गापजर्गश्रिया ।

धन्याना दयिता दयास्तु दयिता ह्येशरशोर्परलम् ॥ १३४ ॥

अर्थ—धर्मोना ज्वरारूप, यशोना स्थानकरूप, ल-

क्ष्मीर्जनी सयोगर्ज्जरूप, प्रजावोनी सत्तारूप, सुरयो-

नी ज्वररूप, जवरूपी समुद्रप्रते वहाणरूप, उत्तम

बुद्धिरूपी वृद्धोना स्वधरूप, तथा स्वर्ग अने मोक्षल-

क्ष्मीनी वहाली सखीरूप एवी दयारूपी वहाली स्त्री

धन्यपुरुषोने थार्ज ? वीजा ह्येशोथी सयु ॥ १३४ ॥

१ डीपजावरेजनिरपि

## हवे सत्यप्रक्रम कहे ठे

कीर्ता कज्जलकूर्चक हलमुख विश्वासविश्वातले ।

नानानर्थकदर्थनापनघन कौलीनकेलिगृहम् ॥

प्रेमप्रौढपयोदपूरपवन सन्मानमुस्ताकुरे ।

कोल कोत्रसदाशयोऽद्भुतमतिर्जापा मृषा जायते ॥ १३५ ॥

अर्थ—कीर्तिप्रते काजलना कूर्चक (पांठी) सरखा, विश्वासरूप पृथ्वीतलप्रते हलसरखा, नाना प्रकारना अनर्थोनी कदर्थनारूप वनप्रते मेघ सरखा, दुष्ट कार्योंने क्रीडा करवाना घरसरखा, प्रेमरूपी निविन वरसादना समृद्धप्रते पवन सरखा, तथा सन्मानरूपी मोथना अंकुराप्रते कोलसरखा ( मुश्रर सरखा ) एवा जूठा वचनने, जलसायमान आशयवाली थएली ठे बुद्धि जेनी एगो कयो माणस बोले ? (अर्थात् न बोले) १३५

सिंदूर करिमूर्ध्नि मदिरमणिगेंहे च देहेऽसुमा ।

स्ताराण्य चक्रचक्रुपि द्युतिपतिव्योम्नि विजेशो निशि ॥

प्रासादे प्रतिमाखिके च तिलक जूपा यत्रा जायते ।

कीर्ते केलिगृह तथा तनुमता वक्त्रे वच सूनृतम् १३६

अर्थ—जेम हाथीना मस्तकपर सिंदूर, घरमां दीपक, शरीरमा जीउ, स्त्रीमां तारण्य, आकाशमा सूर्य, रात्रीण चक्र, देवालयमा प्रतिमा, तथा जेम ललाटमां तिलक जोत्तारूप थाय ठे, तेम कीर्तिने क्रीडा करवाना घर-

समान एवु सत्यवचन प्राणिश्रोना मुखमां चूपण-  
रूप थाय ठे ॥ १३६ ॥

हानिमेति ददता धनमुच्चै ।  
शीलतो जवति जोगवियोग ॥  
जायते च तपसा तनुकार्श्यै ।  
हीयते किमपि नानघनाक्यै ॥ १३७ ॥

अर्थ-घणु दान देवार्थी धननी हानि थाय ठे, जील  
(पालवार्थी)जोगोनो वियोग थाय ठे, तप (तपवार्थी)  
शरीर डुवलुं थाय ठे, पण सत्य वचन बोलवार्थी तो  
कंइ पण नुकशान यतु नथी ॥ १३७ ॥

अग्नि शाम्यति मुचति प्रचुरपामौञ्जत्यमोघो रुजा ।  
यात्यस्त विकटा घटा करटिनामाटीकते नान्तिकम् ॥  
शैथिल्य समुपैति सिधुररिपु सर्पोऽपि नोत्सर्पति ।  
घाग दूराडुपयाति दस्युरण्जिः सत्य उचोजडपताम् ॥ १३८ ॥

अर्थ-सत्य वचन बोलनाराश्रोप्रते अग्नि शात थाय  
ठे, समुद्र द्दोजने तजे ठे, रोगोनो समूह नाश पामे ठे,  
हार्थीश्रोनी जयकर श्रेणि तेनी समीप आवती नथी,  
सिंह शिथिल थइ जाय ठे, सर्प पण तेनी नजदीक  
आवतो नथी, तेम तेनार्थी चोर अने रणसग्रामनी  
वीक तो तुरत दूर चाली जाय ठे ॥ १३८ ॥

तस्मादैरमुपैति दूरमुरगश्रेणि सुपर्णादिव ॥  
धेशो नश्यति जास्करादिव तमस्तस्मादकस्मान्नव ।

तस्माद्भीस्तुहिनादिवाबुरहिणी संजायते नश्वरा ।

सत्योज्ज्वलि गीर्यदीयवदनाद् गगेव गौरीगुरो ॥ १३९ ॥

अर्थ—हिमाचलमांथी जेम गगा, तेम जेनां मुख-  
माथी सत्य वाणी निकले ठे, तेनी पासेथी, गरुथी  
जेम सपोनी श्रेणि, तेम बेर दूर जाय ठे, तथा सूर्य-  
थी जेम अंधकार, तेम तेनाथी अकस्मात थएलो क्लेश  
नाशी जाय ठे, अने हिमथी जेम कमलिनी तेम  
तेनी पासेथी जय तो नष्टज थाय ठे ॥ १३९ ॥

हवे अदत्तप्रक्रम कहे ठे

अप्रेमपकरहिणीपतिपूर्वशैल ।

धर्मार्थकामकमलाकरशर्वरीशम् ॥

स्वर्गापरगपुरमार्गनिरोधयोध ।

स्तेय निराबुरत कीर्तिलताकुन्जारम् ॥ १४० ॥

अर्थ—अप्रीतिरूपी सूर्यना (उदयमाटे) पूर्वाचल  
समान, तथा धर्म अर्थ अने कामरूपी कमलोना वनने  
(नाश करवामां) चद्रसमान, अने स्वर्ग तथा मोक्ष-  
रूपी नगरीना मार्गने रोकवामां सुजट समान, तेम  
कीर्तिरूपी वेलनीने (कापवामा) कुन्जारसमान एवी  
चोरीने, हे प्राणी तु हूर कर ? ॥ १४० ॥

कीर्ति हति खलश्च बालमिलन माहात्म्यमगमहा-

व्याधिर्दुस्तनय, कुल च त्रिमल चिता मनश्चारताम् ॥



स्त्रीशील स्मरलपटश्च कपट पुण्य गुणाक्षीचता ।

मत्त्येवित्तमदत्तमात्तमिह वै सर्वं हत तैरिदम् ॥ १४१ ॥

अर्थ—दुर्जन माणस कीर्तिनो नाश करे ठे, मूर्खसाथेनो मेलाप मोटाडनो नाश करे ठे, (मरकी आदिक) महारोग शरीरनो नाश करे ठे, कुपुत्र निर्मल कुलनो नाश करे ठे, चिता माननी मनोहरतानो नाश करे ठे, कामातुर थएलो (माणस) स्त्रीना शीलनो नाश करे ठे, कपट पुण्यनो नाश करे ठे, तथा नीचपणुं गुणोनो नाश करे ठे, पण जे माणसोए आ जगतमां चोरी करीने धन मेलव्यु ठे, तेश्योए ते सर्वनो नाश कर्यो ठे, ( एम जाणवु ) ॥ १४१ ॥

शुक्रजोच्चै विपम विप विपचृता तै कामित जीवित ।

तैरब्धेरतुल निपीय सखिल तृष्णादयोऽजीप्सित ॥

द्विष्टया कुन्तमुस च तैर्नयनयो करुहति काक्षिता ।

वैरादाय परधिमात्मसदने पृत्ति श्रियामीहिता ॥ १४२ ॥

अर्थ—जेश्योए परनु धन चोरीने पोताना घरमां लक्ष्मीनी पूर्णता इछेदी ठे, तेश्योए सर्पोनु आकरु जेर रूव खाइने जीवितने इछ्यु ठे, तेम तेश्योए समुद्रनु पाणी रूव पीने पोतानी तृपानो नाश इछ्यो ठे, तथा तेश्योए जालानी श्रणि आंखोमां नांखीने (ति-सरजनो नाश इछ्यो ठे ॥ १४२ ॥

स्त्रीणा हार इजातिपीनकुचयो काचीव काचीपदे ।

गङ्गे पत्रलतेन कङ्कलमिगालकारकृच्चक्षुषो ॥

रेणुर्जमिप्रिज्ञपण चरणयो पुण्यात्मना जायते ।

ऽन्येषा त्रित्तमदत्तमत्र जहता पुसा प्रदासापहम् ॥ १४३ ॥

अर्थ-स्त्रीशोना अति कठिन एवां स्तनोपर जेम

हार, केरुपर जेम कढोरो, गालपर जेम वहरी (पील)

तथा आंरोमा जेम काजल अलंकाररूप थाय ठे, तेम

प्रशंसाने पात्र एवा नहीं दीधेला (अदत्त) परना ध-

ननो त्याग करनारा पवित्र माणसोना चरणोनी रज

( समस्त ) पृथ्वीना अलंकाररूप थाय ठे ॥ १४३ ॥

अदत्तादानमाहात्म्य- महो वाचामगोचरम् ।

यदर्थमाददानाना- मनश्चोऽन्येति सद्गति ॥ १४४ ॥

अर्थ-( कवि कहे ठे के, ) अहो ॥ चोरीनु मा-

हात्म्य वचनोने पण अगोचर ठे केमके, चोरोनु

अर्थ ( धन ) लेनाराशोना घरमां उलटो अनर्थ

आवे ठे ए आश्चर्य ठे ॥ १४४ ॥

हवे ब्रह्मप्रक्रम कहे ठे

दोर्न्या ये जलधेस्तरन्ति मल्लिख पद्न्या नत्र प्रागणे ।

ये त्राम्यन्ति च धारवाणरहिता कुर्वन्ति ये चाहम् ॥

ये छुष्टामटनीमटन्ति पटपस्ते सन्ति सख्यातिगा

स्ते केचिच्चलचक्षुषा परिचयैश्चित्त यदीय शचि ॥ १४५ ॥

अर्थ-जेठ वने हाथोथी समुद्रना पाणीने तरे ठे  
 तथा जेठ आकाशमां पगोथी ब्रमण करे ठे, तेम जेठ  
 वरुतर अने वाणोविना रणसंग्राम करे ठे, अने जेठ  
 चालाक थया थका जयंकर जगलमा जटके ठे, एव  
 तो असंख्याता माणसो ठे, पण जेथोनु चित्त चलाय  
 मान चहुथोवाली स्त्रीथोना परिचयथी पण पवित्र  
 रहेलुं ठे, एवा तो विरलाज होय ठे ॥ १४५ ॥

खयोतैरिव जानुमाश्च जपणै कुञ्जीव जजक्षिप ।

सारगैरिव केसरी मखशुजा जतैय दैत्यव्रज ॥

सौपर्णैय इोरगैश्च मरुता स्तोमैरिवस्वगिरि-

र्न स्त्रीजिविजिदे यदीयहृदय शूराय तस्मै नम ॥ १४६ ॥

अर्थ-पतंगीआश्रोथी जेम सूर्य, कुतराजंथी जेम  
 इन्द्रनो हाथी, हरिणोथी जेम केसरी सिंह, दैत्योन  
 समूहोथी जेम इन्द्र, सर्पोथी जेम गरुड तथा पवनन  
 समूहोथी जेम मेरुपर्वत, तेम जेनु हृदय स्त्रीथोथी जे  
 दायु नथी, तेवा शूरा पुरुषप्रते नमस्कार थाओ? ॥ १४६ ॥

गुह्य दुर्जनचेतसीव सलिल मूर्झांवि धात्रीचृतो ।

युज्जोर्व्यामिव कातर कलिमल स्वाते मुसाधोरिव ॥

दोर्गत्य धरणीरहीन मरुता जेजे न चेतोबुजे ।

स्थैर्य यस्य मृगीदृशा बिलसित धन्याय तस्मै नम ॥ १४७ ॥

अर्थ-दुर्जनना चित्तमा जेम गुह्य वात, पर्वतना शि  
 खरपर जेम पाणी, समरांगणमां जेम कायर, उत्तम मु

नीना मनमां जेम क्लेशनो मेल, तथा वृद्धोमां जेम  
पवनोनुं उरुतपणु स्थिर रहेबुं नथी, तेम जेनां चि-  
त्तरूपी कमलमां स्त्रीश्रोत्रो विलास स्थिर रहेलो न-  
थी, एवा धन्य पुरुषप्रते नमस्कार थाश्रो ? ॥ १४९ ॥

भ्रूजगजोगैर्लसदतरालै

नेलीदृशा देहसदर्पसप ॥

सम्भ्यानदीप समियाय शाति ।

तस्मै नमः सयमिकुजराय ॥ १४७ ॥

अर्थ-अदर उलसायमान यता चुकुटीना जगरुपी  
फणावाला, एवा स्त्रीश्रोत्रो शरीररुपी उन्नत सर्पोण  
करीने, जेनो उत्तम ध्यानरुपी दीपक ठरी गण्डो  
नथी, एवा सयमीश्रोमां अग्नेस्तर सरखा पुरुष प्रते  
नमस्कार थाश्रो ? ॥ १४७ ॥

इचे परिग्रहप्रक्रम कहे ठे.

ज्योत्तारजराज्जिततरणी वार्द्धाविवोद्रीपणे ।

ससारे सपरिग्रहा तनुजुपा राजिनिमज्जत्यथ ॥

तत्काहन्ति परिग्रह जपतपश्चारित्रपाविज्यधी ।

शुचध्यानविधौ विधुतुदममु मोक्तु विमुक्तौ रता ॥१४९॥

अर्थ-जयकर समुद्रमां घणा जारना समुहथी  
सुबुसुबु थपला वाहणी पेठे, था संसारमां परिग्रह;  
युक्त, एवी माणसोनी श्रेणि नीचे नीचे (नरकादिक

गतिमां ) सुवे ठे, तेथी मुक्तिरूपी स्त्रीमा आसक्त थ-  
एला प्राणीओ जप, तप, चारित्र, पवित्रता, बुद्धि,  
अने शुद्ध ध्यानरूपी चंद्रने (असवामां) राहु सरखा  
ते परिग्रहने ठोरुवाने इठे ठे ॥ १४ए ॥

प्रद्वेषवधु कर्षहकसिधु ।

प्रमादपीन बुमताधनीन ॥

आरुत्यहेतु धृतिधूमकेतु ।

परिग्रहोऽय दुरितद्रुतोऽयम् ॥ १५० ॥

अर्थ—द्वेषना वधुसरखो, क्लेशना समुद्रसरखो  
प्रमादधी पुष्ट थएलो, कुमतमां दोरी जनारो, उद्ध-  
तपणाना हेतुरूप, तथा धीरजप्रते धूमकेतु सरखो  
आ परिग्रह पापोथी उपद्रवयुक्त थएलो ठे ॥ १५० ॥

पित्रोरूपास्तिं सुकृतानुशास्ति ।

प्राज्ञं प्रसग गुणवत्सु रगम् ॥

परिग्रहप्रेरितचितवृत्ति

जहाति चैतन्यमिप्र प्रमीत ॥ १५१ ॥

अर्थ—मृत्यु पामेलो प्राणी जेम चैतन्यने, तेम प-  
रिग्रही प्रेरणेली ठे चित्तनी वृत्ति जेनी, एवो माणस  
मावापनी सेवाने, पुण्योनी शिखामणने, विद्वानो  
साथेनां सगने, अने गुणवानो प्रतेना चित्ताजिहा-  
यने पण तजे ठे ॥ १५१ ॥

नादित्यादपर प्रतापनपदुर्नाब्धे परस्तोयमान् ।  
 नैवान्य परमानतश्च चटुलो दुष्टो न मृत्यो पर ॥  
 नैवान्नेरितर ह्युधाह्युजितधीर्धौर स्मराक्षेतरो ।  
 दोषाढ्यान्न परिग्रहात्परमधस्थान तथा सर्वथा ॥ १५२ ॥

अर्थ—जेम सूर्यथी वीजो कोइ प्रतापी नथी, समु-  
 द्रथी वीजो कोइ पाणीवालो नथी, पवनथी वीजो कोइ  
 चचल नथी, मृत्युथी वीजो कोइ दुष्ट नथी, अग्निथी  
 वीजो कोइ जुराजरो नथी, तथा कामदेवथी जेम  
 वीजो कोइ चोर नथी, तेम झूपणोथी जरेला एवा  
 परिग्रहथी वीजुं कोइ पण पापोनु स्थानक नथी ॥ १५२ ॥

धर्मध्यानमधीग्यस्तरुमिष प्रोत्सपि कष्टपानिख ।  
 प्रीति पकजिनीमिष द्विपपतिनिर्मूलमुन्मूलयन् ॥  
 प्रावीण्य च पयोजिनीपनिमिष स्वर्नाणुराग्रादयन् ।  
 श्लाघामेति परिग्रह किमु कला कादवरीपानन्त ॥ १५३ ॥

अर्थ—उलसायमान थतो एजो कष्टपांतकालनो पवन  
 जेम वृद्धाने, तेम धर्मन्यानने चखित करतो, मढोन्मत्त  
 हाथी जेम कमखिनीने, तेम प्रीतिने मूलमाथी उखेकी  
 कहाडतो, तथा राहु जेम सूर्यने, तेम पकिताडने आठा-  
 दित करतो, एवो परिग्रह, मदिरापाननी पेठे शु प्रश-  
 साने पामे ठे? ( अर्थात् नथी पामतो. ) ॥ १५३ ॥

## हवे गुण प्ररुम कहे ठे

तुवेपु चापेपु च मौक्तिकेपु ।

गुणाधिरोपान्महिमामुदीक्ष्य ॥

कार्यं कदर्यै रिव काचनेपु ।

यत्तो गुणेष्वेव मनस्विमान्यै ॥ १५४ ॥

अर्थ—तुवनांश्रोमा, मनुष्योमां, अने मोतीजमां गुणोना ( दोरीना ) आरोपणथी ( यता ) महिमाने जोइने, लोकी माणसो जेम इव्योमां, तेम पडितोमां अग्रेसर एवा माणसोए गुणोमाज प्रयत्न करवो ॥ १५४ ॥

दौर्जन्यसङ्गे मनुजे वसन्तो ।

गुणा जघेयुर्नहि गौरवाय ॥

गुणाधिरोप परपीरुनाय ।

कदापि चापेप्सिच किं न दृष्ट ॥ १५५ ॥

अर्थ—दुर्जनताथी जरेला मनुष्यमा रहेला गुणो पण गौरवपणामाटे थइ शकता नथी, केमके, धनुष्योमां रहेलो गुणनो (दोरीनो) आरोप परनी पीडा माटे थाय ठे, एवु, ( हे प्राणी ! ) तें शु कोइ दहामो जोयु नथी ? ॥ १५५ ॥

वेपव्यूतिविशदयसनादेव साध्यातिमेध्या ।

विद्या ह्या स्वमतित्रिजवादेवसन्त्यातिसन्त्या ॥

त्रिंशत्पञ्चवति च बहोरूढमादेव दिव्या ।

वस्त्रप्रज्ञोद्यमपरिचयं प्राप्यते नो गुणौघ ॥ १५६ ॥

अर्थ—पवित्र एवी वेपनी रचना निर्मल वस्त्रथीज थइ शके ठे, तेम मनोहर अने शौचनिक एवी विद्या पोतानी बुद्धिना वैजवथीज मली शके ठे, अने दिव्य एवी धननी प्राप्ति अत्यंत उद्यम करवाथीज थाय ठे, पण ते वस्त्र, बुद्धि अने उद्यमना परिचयोथी गुणो-नो समूह प्राप्त थइ शकतो नथी. ॥ १५६ ॥

पापाणसमान्यपि मौक्तिकानि ।

यत्सन्नमास्त्रोल्लोचनानाम् ॥

वह स्थलेऽक्षकरणीजयन्ति ।

तेषा गुणाना महिमा महीयान् ॥ १५७ ॥

अर्थ—जे गुणना ( दोरीना ) सक्रमणथी, चपल नेत्रोगाली ( स्त्रीशोना ) हृदयस्थलमां पापाणना टुकनाथो पण मोतीरुपे थइ थाचूपण तरिके थाय ठे, तेवा गुणोनो महिमा मोटोज ठे ॥ १५७ ॥

जाति शारदशर्वरीश्वररूचा सांदर्यसहारिणी ।

बुद्धि र्वंद्ममान याद्भ्रमयसरिन्नाथप्रमाथाधिराद् ॥

रूप दर्पकदर्पसर्पणचूत्प्रत्यर्थितुल्य पुन-

स्ताद्गौरवनाजन जयति नो याद्गुणाना गण ॥ १५८ ॥

अर्थ—जेरो गुणोनो समूह गौरवना जाजनरूप थाय,



ठे, तेवी, शरद ऋतुना चड्ढनी कातिओनी सुदरताने  
हरनारी जाति पण थती नथी, तेम अतुद्वय एवा  
विद्यारूप समुड्ढने (मथन करवामा) मंथाचल सरखी  
वुड्ढि पण थती नथी, अने कामदेवना अहंकाररूपी  
सर्पने गरुड समान एवु रूप पण तेवी रीतना गौर-  
वना जाजनरूप थतु नथी ॥ १५७ ॥

हवे वैराग्यप्रक्रम कहे ठे

ग्रामीणेष्विव नागरोऽर्ककुसुमस्तोमेष्विपालिर्युगा ।

मातगो मस्मेदिनीष्विव मृगो दग्धेषु दात्रेषु च ॥

चक्रश्चदिरदीधितिष्विव शमीगजष्विवाजश्वरो ।

नो जोगेषु रतिं करोति हृदय वैराग्यजाजा इचित् ॥१५८॥

अर्थ—गांमनीआजंमा जेम नगरनो रहेवासी, आक-  
नाना पुष्पोमा जेम युवान जमरो, मारवाकनी जूमि-  
ओमा जेम हाथी, दावानलथी सलगेला(वनोमा) जेम  
हरिण, चड्ढना किरणोमा जेम चक्रवाक तथा अग्निमा  
जेम जलचर प्राणी, तेम वैराग्यवत माणसोनु हृदय  
कोइ पण जोगोने विपे आनदने मेलवतु नथी ॥१५८॥

यद्वावति न दुर्जगामिव बधू प्रोचुगपीनस्तनीं ।

यत्स्त्रिह्यति न तस्करैरिव मदा मुत्सुदरे सोदरं ॥

नो मुह्यति च पन्नगेष्विव मणिहारेष्वपारेषु च ।

योगोद्योगनियोगिन प्रशमिनस्तत्साम्यलीलायितम् ॥ १६० ॥

अर्थ—योगना उद्योगमां जोमाएवा समताघंत मा-  
णसो,जे, दुर्जागिणीनी पेठे, उचा अने कठीन स्तनो-  
वाली स्त्रीने इच्छता नथी, तथा चोरोसाथे जेम, तेम  
हमेशा हर्षवत जाइथो साथे पण खेह करता नथी,  
अने सपोमा जेम तेम घणा एवा मणिथोना हारोमा  
पण जे सोह पामता नथी, ते सघळुं समतानु ( वै-  
राग्यनु ) माहात्म्य ठे ॥ १६० ॥

यत्ससारसरोजसोमसदृश यदजदीपद्युता ।

सर्प सूर्पकशत्रुदर्पदजने यच्चञ्चूनामणि ॥

यत्सद्रुष्विन्द्रधृनिोदमदा यत्साम्यमजीवन ।

वैराग्य लसदात्मने प्रियसुहृत्तद्देहि देहि प्रियम् ॥ १६१ ॥

अर्थ—जे वैराग्य मसागरुपी कमलने ( नष्ट कर-  
वामा ) चड सरखो ठे, कपटरुपी दीपकनी कातिने  
( हूर करवामा ) सर्प सरखो ठे, कामदेवना अहंका-  
रने दलवामा महादेव सरखो ठे, उत्तम बुद्धिरुपी  
स्त्रीने क्रीणाष्टह सरखो ठे, समताने जीवामनारो ठे,  
आत्माप्रते प्रिय मित्र सरखो ठे, तथा जे वैराग्य  
प्राणीथोने हितकारी ठे, एगो वैराग्य मने आपो ?

यत्कात्ताकेलिकुठ यदमृतमधुरे जोजने जग्नजाव ।

यन्मात्र्यामोदमद यदघननिनदे राधवृदे सनिजम् ॥

यत्सद्रूपस्वरूपे क्लृणसुखत्रिमुख यत्क्लृणे क्लीणकाश ।

यदीत्ते वीतवाठ हृदय मिदमञ्जुत्तधिरक्तवचिन्हम् ॥ १

अर्थ—(प्राणीओनु) हृदय जे स्त्रीओनी किनामा कुठित थयु ठे, अमृत सरखां मधुर चोजनमा चाव रहित थएलुं ठे, पुष्पोनी सुगधिमा मंद थएलु ठे, उत्तम नादोवाला वाजित्रोना समूहमा उत्कठा विनानु थयु ठे, उत्तम रूपने जोवामा मलतां कृष्णिक सुखथी विमुख थएलु ठे, महोत्सवमा वाठा रहित थयु ठे, तथा धनमां पण जे श्वा रहित थयु ठे, ते लघलु वैराग्यनु लक्षण ठे ॥ १६१ ॥

हेमते हिमप्रातरेद्धितयने वस्त्रैविनायत्स्थिति-  
 श्रींप्मे ज्रीप्मखराशुक्कशरज पुजेषु शय्या च यत् ॥  
 यद्वर्षासु गिरेर्गुहासु वसतिश्चैकाकिना योगिना ।  
 तद्दुर्ध्याननिवधनं रविजित वैराग्यविस्फुजितम् ॥ १६२ ॥

अर्थ—हेमत ऋतुमा ठमा वायुथी जरेला वनमा वस्त्रो विना जे स्थिति, श्रींप्म ऋतुमा प्रचड सूर्यना कीरणोथी तपेला रीतीना ढगलमा जे शयन करबु, तथा वर्षा ऋतुमा पर्वतनी गुफाओमा जेरहेबु, ते सघलु एकाकी रहेता योगियोनु दुर्ध्यानना निवधनोथी नहीं जीताएलु एबु वैराग्यनुंज महात्म्य ठे ॥ १६३ ॥

हवे विवेक प्रक्रम कहे ठे

पाव्याना करणं कृत मुरुचिरैर्वाचा प्रपचै सूत ।  
 पूर्णं वाहुमलैरत्रच तपसा पूरं प्रसिद्धयकुरै ॥

एकदृष्टेकजाप्रमोदप्रिपणि मव्यो विनेक ससे ।

सर्वा येन विनेकुनेर रजनि श्रेणिगुणाना मुधा ॥ १६४ ॥

अर्थ—हे मित्र ! काव्यो करवाथी सयुं, मनोहर  
चचनोना प्रपचोथी सयुं, जुजाना वलोथी सयुं तथा  
कीर्तिना अंकुरा सरखा तपोना समूहोथी पण सयुं,  
पण फक्त एक उत्तम माणसोना हर्षनी कुकान  
सरखो एवो विवेकज सेववो, केमके ते विवेकविना  
चडविना जेम रात्रि, तेम ते गुणोनी सघली श्रेणि  
फोकटज ठे ॥ १६४ ॥

यस्मिन् रम्यरुचैर्यदा बुमुदिनीचतुर्जनेत्सन्नर ।

सप्राप्त्यै त्रिबुधेश्वरैरिह गमा य सेव्यते रत्नजू ॥

येनोद्यत्कतिहारिणी गुणमणिश्रेणिश्च विश्रास्यते ।

दत्ते फस्य हरे रिवप न रमा उदग्ध्य कुग्घोदधि ॥१६५॥

अर्थ—जे विवेकरूपी क्षीर समुद्रमा मनोहर काति-  
वाला यशरूपी चडनी उत्पत्ति थाय ठे, तथा रत्ननी  
जूमिरुप एवो जे विवेकरूपी समुद्र महान पकितोए  
करीने (इंद्रोए करीने) कीर्तिनी ( पाणीनी ) प्राप्ति-  
माटे सेवाय ठे, तथा जेमार्थी उत्पन्न थती केटलाक  
मनोहर गुणोरूपी मणिओनी श्रेणि मेलवी शकाय  
ठे, एवो ते विवेकरूपी क्षीरसमुद्र, विष्णुने जेम तेम  
कोने लक्ष्मी आ, (अर्थात् सर्वने आपे ठे)

वैराग्य सुजग तदेव यशसा राशि म एवोह्वसन् ।  
 स्फुति सैव शुजा च मैत्र च गुणश्रेणिर्मनोहारिणी ॥  
 ध्यान धन्यतम तदेव प्रचसामोघस्त एवानघ  
 स्तारास्विष्टुरमदन्नदन्नवन यत्रांचिती चचति ॥ १६६ ॥

अर्थ—ताराश्रोमां जेम चद्र, तेम अत्यत पूजानां  
 स्थानकरूप एवो जेमां विवेक शोची रह्यो ठे, तेज वैरा-  
 ग्य मनोहर जाणवो, तेज यशोनो समूह उलसायमान  
 जाणवो, तेज कीर्ति शुज जाणवी, तेज गुणोनी पक्ति  
 मनोहर जाणवी, तेज ध्यानने वधारे धन्य जाणवु, तथा  
 तेज वचनोनो समूह पण निर्मल जाणवो ॥ १६६ ॥

धर्माशुर्ग्रहधोरणीष्विन्द्र करित्रातेष्विन्द्रराजण ।

कल्पद्रु पृथिवीरहेष्विव फणिश्रेणिष्विन्द्राहीश्वर ॥

स्व शैलो धरणीधरेष्विन्द्र हयस्तोमेष्विन्द्रोच्चै श्रवा ।

जाति रयातिगृह गुणेषु विलसन्नेको विन्देकोदय ॥ १६७ ॥

अर्थ—ग्रहोनी श्रेणिश्रोमा जेम सूर्य, हाथीश्रोना  
 टोलाश्रोमा जेम ऐरावण, वृद्धोमा जेम कल्पवृक्ष,  
 सर्पोनी श्रेणिश्रोमा जेम शेषनाग, पर्यतोमा जेम  
 मेरु, तथा घोडाश्रोना समूहोमा जेम उच्चै श्रवा (इ-  
 ड्रनो घोडो) तेम कीर्तिना स्थानक सरस्यो तथा  
 उलसायमान यतो एवो एक विवेकनोज उदय स-  
 धला गुणोमां शोचे ठे ॥ १६७ ॥

यस्माद्याचकजोरुकोकरुचिमानर्थ समर्थोदय ।

कामश्चेंद्रियचिन्नवृत्तितटिनीप्रोत्कर्षर्पागम ॥

धर्मश्च त्रिदिवापुनर्भवतत्र प्राप्नुर्भवत्यजसा ।

नव्योऽय मुदमातनोतु महतामौचित्यचित्तामणि ॥ १६० ॥

अर्थ—जे विनयरूपी चिंतामणि रत्नथी, याचक लो-  
करूपी चकारप्रते चद्र सरसो, तथा समर्थ उदयवालो  
अर्थ उत्पन्न थायठे, तथा इन्द्रियश्चने चित्तनीवृत्तिरूपी  
नदीने उलसायमान करणामाटे वरसादना आगमन  
रूप काम उत्पन्न थाय ठे, तथा देवगति श्चने मोक्षरूपी  
धर्म जेथी तुरत उत्पन्न थाय ठे, एवु आ विवेकरूपी ननु  
चित्तामणि रत्न महान पुरुषोना आनदने विस्तारो ?

नक्तिस्तीर्थकृता नति प्रशमिना जैनागमाना श्रुति

मुक्तिर्मत्सरिणा पुन परिचितिनपुण्यपुण्यात्मनाम् ॥

अन्येषा गुणमस्तुनि परहति क्रोधादित्रिद्वेषिणा ।

पापाना विरती गति स्वमुद्दशामेषा गतिर्धमिणाम् ॥ १६१ ॥

अर्थ—तीर्थकरोनी नक्ति, मुनिश्चोने नमस्कार, जैन  
सिद्धांतोनु श्रवण, मत्सरिथोनी त्याग, ऋहापणथी  
पवित्र थएला माणसोनी सग, परना गुणोनी स्तु-  
ति, क्रोधादिक वैरीथोनी परिहार, पापोनी विरति,  
तथा पोतानी ऋथोप्रते प्रेम, एवी रीतनु लक्षण  
धर्मी माणसोनु ठे ॥ १६१ ॥

सौजन्य जनक प्रसूरपशमस्त्यागादर सोदर ।

पत्नी पुण्यमति सुहृद्गुणगण पुत्रस्वपामंगम ॥

नैदन्य जगिनी दया च कुहिता प्रीतिश्च मातृस्वसा ।

साज्ञानदकुट कुट्टनकमिद प्राहु सता धीधना ॥ १७० ॥

अर्थ—सज्जनतारूपी पिता, शाततारूपीमाता, दानना  
आदररूपी चाइ, पुण्यनी बुद्धिरूपी स्त्री, गुणोना समू-  
हरूपी मित्र, लज्जानासगरूपीपुत्र, निर्दंजतारूपीवेहेन,  
दयारूपीदीकरी, तथाप्रीतिरूपी मासी, एवी रीतनुआ-  
नदनासमूहरूप सज्जनोनु कुट्टव बुद्धिवानोए कहेलुवे

अर्चाहता सयमिना नमस्था ।

सग सता सश्रुतिरागमानाम् ॥

दान धनाना करणागजाजा ।

मार्गोऽयमायरदित शिवस्य ॥ १७१ ॥

अर्थ—अरिहत प्रभुश्रोनी पूजा, सयमधारीउने  
नमस्कार, सज्जनोनु सग, आगमोनु श्रवण, तथा  
द्रव्योनु दान, एवी रीतनो मोक्षमार्ग उत्तम माण  
सोए दयालु माणसोमाटे कहेलो ठे ॥ १७१ ॥

त्रिस्फुतिमत्कीतिरनिद्यविद्या ।

समृद्धिरिद्धा रमणीयरूपम् ॥

सांज्ञाग्यसिद्धिविमल कुल च ।

फलानि धर्मस्य परुष्यमूनि ॥ १७२ ॥

अर्थ—स्फुरायमान यती कीर्ति, पवित्र विद्या, वृद्धि

पामेली संपदा, मनोहर रूप, सौजाग्यनी सिद्धि तथा  
निर्मल कुल, ए ठए धर्मना फलो ठे ॥ १७२ ॥

सौहार्ददृष्टि सुकृतैकपुष्टि ।  
परोपकार करुणाधिकार ॥  
विवेकयोग समताजियोग ।  
सतोपवृत्ति कृतिना प्रवृत्ति ॥ १७३ ॥

अर्थ-मित्रतावाली दृष्टि, पुण्यनी पुष्टि, परनो उप-  
कार, दयालुपणु, विवेकनो सयोग, समतानु धारवु,  
अने सतोपवृत्ति षट्ठी पुण्यशालीर्तनी प्रवृत्ति ठे १७३

ज्ञानी विनीत सुजग सुशील ।  
प्रभुत्वान्न्यायपथप्रवृत्त ॥  
त्यागी धनाढ्य प्रशमी समर्थ ।  
पचाप्यमी जूमिपु कल्पवृक्षा ॥ १७४ ॥

अर्थ-ज्ञानी अइने विनयी, सौजाग्यवालो अइने उ-  
त्तम शीलधारी, होदेदार अइने न्यायमार्ग चालनारो,  
धनाढ्य अइने दानेश्वरी, तथा सत्तावान अइने शांतस्व-  
भाववालो, ए पाचे आ जगतमा कल्पवृक्षो (सरखा) ठे

हु स्योऽपि य. पातकनीतचेता ।  
युवापि यो मारविकारहीन ॥  
आढ्योऽपि यो नीतिमता धुरीण  
स्वयोऽप्यमी देवनदीप्रसाहा ॥ १७५ ॥

अर्थ-दरिद्री (धनहीन) ठता पण जेनु चित्त पापो-



माला"लोकोना कंठस्थलमां रही थकी लक्ष्मीने आपो?

सत्सूत्रमौक्तिकमहोदधितुड्यगुफ ।

प्राज्ञेडुहेमविजयेन विनिमितो य ॥

आदायसूक्तजलमबुधरा ऽवास्माद् ।

व्याख्याजुष हितितल सुसयतु सत ॥ १०० ॥

अर्थ-उत्तम सूत्ररूपी मोतीश्रोना महासागर सरखी आ रचना, विद्वानोमा चद्र सरखा श्री हेम-विजयजी गणिए करेली ठे, तेमार्थी मेघोनी पेठे उत्तम माणसो "सूक्तरूपी" पाणीने लेइने, पृथ्वीत-लपर व्याख्या करता थका सुख पामो ? ॥ १०० ॥

एवी रीते सकल विद्वानोना समूहरूपी देवोमां ड्र सरखा पडित श्री कमलविजयजी गणिना शिष्य पडित श्री हेमविजय गणिजीए रचेली "कस्तूरीप्र-करण" नामनी सूक्तिमाला सपूर्ण थइ



## श्री आदिजीन विनती

सुण जीनर शेरुजा धणीजी, दास तणी अग्दास ॥ तुज  
 आगळ गळक परेजी, हु तो कर उपासर ॥ जीनजी मुज पापीने  
 तार ॥ तुतो कण्णारम ज्योजी, तु सहनुो हितकाररे जीनजी ॥  
 मुज० ॥ १ ॥ हु अखगुणनो थोरडोजी, गुण तो नहीं खव  
 खेश । परगुण पेखी नवि शकुजी, केम ममार तरेशरे जीनजी ॥  
 मुज० ॥ २ ॥ जीउतणा वध में कर्याजी, बोड्या मृपायाद, कपट  
 करी परधन ह्याजी, सेव्या प्रिय सवाद रे जीनजी ॥ मुज० ॥  
 ॥ ३ ॥ हु खपट हु खाखचीजी, कर्म कीधा केई ब्रोन ॥ त्रण  
 चुपनमा को नहींजी, जे आये मुज जोमरे जीनजी ॥ मुज० ॥  
 ॥ ४ ॥ निज पराया अहनीशेजी, जोतो रहु जगनाथ ॥ बुगति  
 तणी करणी करीजी, जोमयो तेहधु माथरे जीनजी ॥ मुज० ॥  
 ॥ ५ ॥ बुमति कुटील कदाग्रहीजी, वाकी गति मति मुज ॥  
 याकी करणी महारीजी, शीसजळावु तुजरे जीनजी ॥ मुज० ॥  
 ॥ ६ ॥ पुन्य विना मुज प्राणियोजी, जाणे मेळुरे आय ॥ उचा  
 तरुनर मोरीयाजी, त्याही पसारे हाथरे जीनजी ॥ मुज० ॥ ७ ॥  
 वीण साधा वीण जोगव्याजी, फोगट कर्म बधाय ॥ आर्तध्यान  
 मीटे नहींजी, कीजे करण उपायरे जीनजी ॥ मुज० ॥ ८ ॥ काज-  
 ल्यी प्रण शामळाजी, मारा मन परणाम ॥ सोणा माही ताहर  
 जी, सजारु नहीं नामरे जीनजी ॥ मुज० ॥ ९ ॥ मुग्ध लोक उगवा  
 जणीजी, करु अनेक प्रपच ॥ कुरु कपटहु केळरीजी, पाप तणो  
 करं सचरे जीनजी ॥ मुज ॥ १० ॥ मन चचळ न रहे कीमेजी,

राचे रमणीरे रूप ॥ काम विटवण शी कहुजी, पनीश हू छु  
 ति कुपरे जीनजी ॥ मुज० ॥ ११ ॥ किश्या कहु गुण माह्रार्ज  
 किश्या कहु अपवाद ॥ जेम जेम सजार ह्येजी, तेम तेम पा  
 वसवादरे जीनजी ॥ मुज० ॥ १२ ॥ गिरआ ते नधि खेगवेर्ज  
 निगुण सेप्रकनी वात । निचतण पण मदिरेजी, चड न टाले ज्ये  
 तरे जीनजी ॥ १३ ॥ निगुणो तोपण ताहरोजी, नाम धराव्यु दास  
 कृपा करी सजारजो जी, पुरजो मुजमन आशरे जिनजी ॥ मुज०  
 ॥ १४ ॥ पापी जाणी मुज नणीजी, मत मूको तिसार ॥ वि  
 ढळाढळ आदर्योजी, ईश्वर न तजे तामरे जीनजी ॥ मुज०  
 ॥ १५ ॥ उत्तम गुणकारी हुंजी, स्वार्थ पिना सुजाण ॥ करसा  
 मिचे सरजरेजी, मेह न जागे दाणरे जीनजी ॥ मुज० ॥ १६  
 तु उपगारि गुणनिहोजी, तु शंपक प्रतिपाळ ॥ तु ममग्र्य मु  
 पूरवाजी, कर माहारी सजाळरे जीनजी ॥ १७ ॥ तुजने  
 कहीए घणुजी, तु सौ वाते जाण ॥ मुजने थाजो साहिवाजी, न  
 नत्र ताहरी आणरे जीनजी ॥ मुज० ॥ १८ ॥ नाचिराया कु  
 चदखोजी, मारदेवीना नद, कहे जीन हरस निवाजज्योज  
 देजो परमानदरे जीनजी ॥ मुज पापीने तार ॥ १९ ॥ इति







